

BHAVAN'S LIBRARY

This book is valuable and
NOT to be ISSUED
out of the Library
without Special Permission

विद्याभवन-संस्कृत-ग्रन्थमाला

२५

अमृत-मन्थन

1819742319

अथवा

जीवन का दिव्य पक्ष

ग्रन्थकार

विद्याभारतण्ड (का० वि०) -

डॉक्टर मङ्गलदेव शास्त्री

एम० ए०, डी० फिल० (ऑक्सन)

पूर्व प्रिंसिपल, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस

(भारतीय संस्कृति सम्मेलन के तत्त्वावधान में प्रकाशित)

चौखम्बा विद्याभवन, बनारस-१

प्रकाशक

चौखम्बाविद्या भवन,

चौक, बनारस-१

The Chowkhamba Vidya Bhawan

Chowk, Banaras.

{ INDIA }

PRESENTED BY

Ministry of Education
Government of India

FOREWORD

(Human life, with its infinite complexities and contradictions, presents a veritable riddle which seems to baffle all solution. If it is sorrow and misery looked at from one side, it is the basis of blissful perfection and eternal progression viewed from another. The polarities of life are facts of experience and cannot be explained away by reasoning. Some attempt to bring them round to a higher synthesis where sorrow and joy lose their known earthly values and appear to assume a Divine meaning. Others however recognise the reality of both and emphasise the brighter side of life seeking to draw out the best that it contains. They do not look upon sorrow as a necessary evil but as a chastening principle intended for discipline and purification.))

The following pages represent such an attempt. The author, in elegant and easily intelligible Sanskrit verses with a luminous rendering into Hindi prose, tries to analyse life as it is found and places his views in three parts before the readers for their appreciation.

PART I deals with the aim of life and the basis on which life with this aim deserves to be founded. This basis is held to be Brahmacharya or Restraint, on which every scheme of education, to be worth the name, must be based.

PART II dwells on the noble and ethical qualities which form the backbone of a progressive life aspiring after spiritual perfection. These qualities include among others integrity

of character, truthfulness, purity of heart, fortitude, mental poise, vigilance and self-introspection. These constitute the Path which leads to the Goal. It is a difficult path, but it has to be trodden by one in quest of Perfection and Bliss.

PART III describes the highest stage of life, where passions have been conquered and tranquility achieved. This stage marks the fulfilment of life, being the realisation of its unity with the Highest Being whose infinite love, compassion and power are responsible for the upkeep of creation.

The first emergence of life out of primitive matter, its passage through different grades of matter and its transcendence into Pure Spirit in the end, with the possibility of infinite progression in future, have been beautifully described.

The three stages of the learned author remind one of the well-known three stages of the Mystic Way, viz. Purgation, Illumination and Unitive Life.

The work is throughout inspired by lofty Vedic Idealism and is a beautiful handbook which ought to be in the hands of every earnest youth, at least of every Sanskrit student. Being free from sectarian ideologies and abstruse expressions of a technical nature it is calculated to be intelligible to all readers and helpful to those in pursuit of Truth, Good and Beauty.

Varanasi

Gopinath Kaviraj

11-9-1956 (Mahamahopadhyaya, M. A., D. Litt.)

महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ कविराज

M. A., D. Litt.

द्वारा लिखित प्राक्थन का अनुवाद

प्राक्थन

अनेकानेक प्रकार के वैषम्यों और विरोधों से समन्वित मानव-जीवन वस्तुतः एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अत्यन्त कठिन है। यदि एक दृष्टि से यह केवल शोक-रूप और दुःख-रूप है, तो दूसरी दृष्टि से यह आनन्दमय पूर्णता और अनन्त समुत्कर्ष का आधार भी है। जीवन के स्वरूप की ये परस्पर-विरुद्ध दिशाएँ आनुभविक तथ्य हैं और किसी तार्किक व्याख्या द्वारा उनका अपलाप नहीं किया जा सकता। कुछ लोग उनको एकत्र कर ऐसे उत्कृष्टतर समन्वय की स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं जिसमें शोक और हर्ष अपने लोक-प्रसिद्ध मूल्यों को छोड़ कर एक दिव्य अभिप्राय को ग्रहण करते हुए प्रतीत होने लगते हैं। दूसरे लोग शोक और हर्ष दोनों की वास्तविकता की स्वीकार करते हुए भी, जीवन में जो कुछ अच्छाई है उसी को लेने की दृष्टि से, जीवन के प्रकाशमय पक्ष पर ही बल देते हैं। वे शोक और दुःख को एक अपरिहार्य घुराई के रूप में न देखकर विनयन और आत्मशुद्धि को लानेवाले एक पवित्रता-भायक तत्त्व के रूप में ही देखते हैं।

प्रकृत ग्रन्थ में इसी प्रकार का प्रयत्न किया गया है। अपने अभिप्राय की स्पष्ट करनेवाले विशद हिन्दी गद्यानुवाद से युक्त ललित तथा सरल-सुबोध संस्कृत पद्यों द्वारा ग्रन्थकर्ता ने जीवन के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हुए अपने विचारों को तीन मार्गों में बड़े रोचक ढंग से पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है।

प्रथम भाग में जीवन के प्रधान लक्ष्य और उसकी ओर प्रवृत्त जीवन के लिए आवश्यक मौलिक आधार का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य या संयम ही वह आधार है। वास्तविक शिक्षा की कोई भी योजना उसी पर खड़ी की जा सकती है।

द्वितीय भाग में उन उदात्त और नैतिक गुणों की चर्चा है जिनको आध्यात्मिक पूर्णता के लिए सचेष्ट प्रगतिशील जीवन का मेरुदण्ड कहा जा सकता है। उनमें अन्य गुणों के साथ-साथ, चरित्र की पवित्रता, सत्य-

भाषना, हृदय की स्वच्छता, धैर्य, चित्त की शान्ति, सतत जागरूकता तथा अन्त समीक्षण—ये सम्मिलित हैं। ये ही गुण जीवन के प्रधान लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग को प्रजाते हैं। यह मार्ग दुर्गम है “दुर्गं पथ स्तत् फयसो वदन्ति”, पर आध्यात्मिक पूर्ण विकास और वास्तविक आनन्द की खोज में प्रवृत्त मनुष्य को उसी मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है।

द्वितीय भाग में जीवन की उस उत्कृष्टतम अवस्था का वर्णन है जब कि मनोविकारों को आशान्त कर मनुष्य स्थिर शान्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी अवस्था में मनुष्य जीवन की वास्तविक चरितार्थता और कृतकृत्यता का अनुभव करता है। जिसके अनन्त प्रेम, कारुण्य और शक्ति से समस्त विश्व का संचालन हो रहा है उस परमतत्त्व के साथ अपनी एकात्मता के अनुभव में ही जीवन की वास्तविक चरितार्थता निहित है।

इसी भाग में घोरतम स्वरूपिणी जडात्मक प्रकृति से चैतन्य का प्रारम्भिक विकास, प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं में से उसकी प्रगति, और अन्त में उत्तरोत्तर अतन्त उत्कर्ष की सम्भावना से युक्त विशुद्ध चैतन्य के रूप की प्राप्ति का सुन्दर ढंग से वर्णन किया गया है। (दे० पृष्ठ ६५-६६)

विद्वान् प्रथम द्वारा प्रतिपादित उक्त तीनों अवस्थाओं से रहस्यवादीय जीवन तम की विशुद्धाकरण, प्रकाश और अद्वैत भावना इन तीन सुप्रसिद्ध अवस्थाओं का स्मरण हो आता है। स्पष्टतः दोनों में साम्य है।

आदि से अन्त तक उदात्त वैदिक आदर्शों और भावनाओं से भाषित यह सुन्दर हस्त पुस्तक प्रत्येक कर्तव्य-परायण मध्य-युवक के, कम से कम सस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के, हाथों में होनी चाहिये। सकोण सांप्रदायिक विचारधारा और दुर्बोध पारिभाषिक शब्दावली से नितरां रहित होने के कारण पुस्तक सय पाठका के लिए सुबोध होने के साथ साथ ‘सत्यं शिष्यं सुन्दरम्’ के आदर्श का अनुसरण करने वालों के लिए सहायक और उपयोगी सिद्ध होगा।

विशेष सम्मतिषाँ



डाक्टर वावूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट०

अध्यक्ष, सस्कृत-प्राकृतभाषा-विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय ।

डा० मंगलदेव शास्त्री का नया ग्रन्थ 'अमृतमन्थन' देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । भारत के दर्शन-बद्धित अधिमाश में निराशावादी हैं, यद्यपि दर्शन का मूलतत्त्व आशा और श्रद्धा है । शास्त्रीजी ने अपने पूर्व-प्रकाशित रश्मिमाला-नामक ग्रन्थ में अपनी आशावादी दृष्टि स्पष्ट की थी और दर्साही, कियाशील होने की प्रेरणा दी थी । प्रस्तुत ग्रन्थ में जीवन का वही दिव्यपक्ष और भी स्पष्ट हो गया है । भारतीय सस्कृति का दिव्य स्वरूप जो छिपा हुआ था अब वह निखर कर प्रकाश में आया है । इस दिव्य रूप का दर्शन करने में ग्रन्थकार को स्वयं प्रेरणा वर्तमान युग के भारत के दिव्य रत्न तीन महापुरुषों से मिली है । लेखक का परिश्रम श्लाघनीय है और हमें विश्वास है कि भारतीय समाज इस ग्रन्थरत्न का समुचित आदर करेगा और इससे लाभ उठावेगा ।

प्रकाशक ने भी बाह्य रूप को सर्वथा दिव्य बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी । उनका परिश्रम भी अभिनन्दनीय है ।

मोफ़ेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, एम० ए०

अध्यक्ष, सस्कृत-विभाग, मेरठ कालेज, तथा संयोजक,
सस्कृत बोर्ड, आगरा विश्वविद्यालय ।

मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 'अमृतमन्थन' के पाठ से मुझे स्वयं स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई है । आधुनिक युग के उन गिने-बुने सस्कृत लेखकों में जिन्होंने नवीन भावों की अभिव्यञ्जना के लिये सस्कृत की व्यञ्जन क्षमता का विकास किया है, डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री का बहुत ही आदरणीय स्थान है । उन्होंने प्रबन्धप्रकाश के दोनों भागों द्वारा एक ऐसे उत्कृष्ट सस्कृत गद्य का नमूना प्रस्तुत किया है जिसमें प्राचीन लेख-पद्धति को अपनाते हुये नवीन भावों का प्रकाश है । प्रस्तुत ग्रन्थ 'अमृतमन्थन' में पद्यों द्वारा जीवन-यात्रा के लिये उदात्त भाषनाओं का पाथेय प्रस्तुत किया गया है । आधुनिक युग में रक्षित देने वाले अमृत के घूट पीते हुये अमरवाणी सस्कृत का अभ्यास करने के लिये सरस्वती के एक वरद पुत्र ने हमारे लिये एक नवीन सामग्री प्रस्तुत कर दी है ।

ग्रन्थ-समर्पण

वन्दनीय गुरुजनों

के

चरणों में

प्रस्तावना

ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य

तत्त्वदर्शी मनीषियों की दृष्टि में मनुष्य-जीवन सदा से एक गम्भीर समस्याकर विषय रहा है। वैदिक वाङ्मय के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण (११।२।३) में एक प्रसङ्ग में ठीक ही कहा है—

को हि मनुष्यस्य वेद ?

अर्थात्, मानव की, मानव-जीवन की, समस्या का समाधान क्या कठिन है।

ऐतरेय आरण्यक (२।३।३) में इसी तथ्य को अधिक स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है—

स एष पुरुषः समुद्रः ।

अर्थात्, मनुष्य को एक प्रकार से 'समुद्र' ही समझना चाहिए। संसार को भी कई दृष्टियों से 'समुद्र' कहा जाता रहा है। एक प्रकार से जीवन और संसार दोनों समानार्थक हैं। क्रमशः व्यष्टिगत और समष्टिगत दृष्टिभेद से दोनों एक ही बात को धोर संकेत करते हैं—

दोनों में अनन्त गाम्भीर्य है;

दोनों में विष और अमृत का स्थान है।

साथ ही, यह हमारे हाथ में है कि उनमें से हम विष का उपयोग करें, या अमृत रस का पान करें।

जीवन के सम्यग्ध में दो परस्पर-विरुद्ध दृष्टियों का वर्णन हम अन्यत्र^१ विस्तार से कर चुके हैं।

एक दृष्टि के अनुसार संसार और जीवन दुःखभय हैं। अतएव सर्वथा हेय हैं। जीवन वन्ध या कारागार के समान है। इसीलिए जीवन और संसार मिथ्या और असार हैं। उनसे छुटकारा (या मोक्ष) पाना ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए।

१. देखिए 'रश्मिमाला' पृ० ९-२९ तथा भूमिका पृ० १६, 'भारतीयसंस्कृति का विकास' प्रथमखण्ड, वैदिक वारा, पृ० १०-११, ७७-८५।

जीवन में अथवा अनुसाह और निराशा को जाने वाले प्रायः ऐसे ही विचारों से हमारा प्राचीन पुराणों आदि का साहित्य भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ, देखिए—

मृत्युलोकं महादुःखं कथयामि ततः शृणु ।
.....

संसारः स्वप्नमात्रञ्च चलाः प्राणा धनं तथा ।

सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिने दिने ॥

इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा संसारं.....

अध्रमण्ये च परयन्ति चञ्चलां विद्युतां गतिम् ।

क्षणं दृष्ट्वा च नश्यन्ति तथा संसारिणी जनाः ॥

जले च युद्धयुद्धो यद्वत्तद्वत्संसारिणो जनाः ।”

अर्थात्, मृत्युलोक में महादुःख है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, धन आदि अस्थायी हैं। उसमें सुख नाममात्र को नहीं है; दुःख प्रतिदिन रहता है। संसार इन्द्रजालमय या धोखे की चीज है। बादलों में चलते विद्युत् अथवा पानी में बुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है। इत्यादि।

दूसरी दृष्टि के अनुसार, जीवन प्रेम और कृपा के घाम भगवान् का परमोत्कृष्ट प्रसाद है। यह हमारे उत्तरोत्तर विकास का, उत्कृष्ट प्रगति का, एकमात्र साधन है। उसका परम लक्ष्य ध्यानन्द, निःश्रेयस या अमृतत्व है।

इसी दूसरी दृष्टि को हम जीवन का दिव्यपक्ष कह सकते हैं। वेदादि शास्त्रों में ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ (बृहदारण्यकोपनिषद् १।३।१८) (अर्थात्, भगवान्! हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलिए), ‘जीवा ज्योतिरशीमहि’ (शग्वेद ७।३२।२६) (अर्थात्, हम जीवन में विशुद्ध प्रकाश को प्राप्त करें),

उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

(यजु० २०।२१)

(अर्थात्, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम अपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करें) इत्यादि वचन जीवन के इसी दिव्यपक्ष की व्याख्या करते हैं।

जीवन के इसी दिव्यपक्ष के संदेश को हमें तक पहुँचाने के लिए, सबको भगवान् के सर्वोत्कृष्ट प्रसाद रूप जीवन के मन्थन से समुन्नत अमृत सा दिग्दर्शन-पान कराने के लिए, इस ग्रन्थ की प्रवृत्ति हुई है।

दूसरे शास्त्रों में, जीवन में उदात्त भावनाओं के दिव्य संदेश की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागरण, नवाभ्युत्थान का लाना ही इस रचना का मुख्य उद्देश्य है।

विषय-निर्देश

मनुष्य-जीवन के उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से पुस्तक लक्ष्या-नुसन्धान, जीवन-पाथेय तथा प्रज्ञाप्रसाद नामक तीन मुख्य भागों (= प्रसव अथवा प्रवाह) में विभक्त की गयी है ।

प्रथम भाग (= लक्ष्यानुसंधान) में मनुष्य-जीवन के लक्ष्य पर विचार किया गया है । जीवन की महत्त्वपूर्ण यात्रा पर चलने से प्रथम जीवन-लक्ष्य का अनुसंधान और उसकी प्राप्तिके ब्रह्मचर्य जैसे मुख्य साधनों का प्रतिपादन ही इस भाग का प्रधान विषय है ।

'ब्रह्मचर्य-संदेश' इस भाग की मुख्य रचना है ; और वह घटना-भूलक है । उसके पद्य मूलतः ईस्वी सन् १९०९ में लिखे गये थे । उपनयन और वेदारम्भ-संस्कार के अनन्तर पवित्र गुरुकुलीय वातावरण में रहते हुए क्रमशः जीवन में उत्तर-दायित्व की बुद्धि के विकसित होने पर, देश की दुर्दशा से चिन्तित अवस्था में एक महापुरुष के विषय के संदर्शन से जो दिव्य-संदेश मिला था, उसीके आधार पर उक्त पद्यों की रचना हुई थी । इसीलिए उक्त रचना को 'चित्र-दर्शन' भी कहा जा सकता है ।

प्रथम भाग की अन्य रचनाओं में ब्रह्मचर्य के आदर्श से पनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले 'व्रत का जीवन', 'ब्रह्मचारी के लिए शिक्षा का आदर्श' जैसे अत्यन्त आवश्यक प्रश्नों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

दूसरे शब्दों में, भारतीय राष्ट्र की शिक्षा-विषयक आधुनिक दुरवस्था के भौतिक परिष्कार की महती समस्या का बहुत कुछ समाधान ही प्रथम भाग का विषय है ।

द्वितीय भाग (= जीवन-पाथेय) का सम्बन्ध विशेषतः उन विशिष्ट आध्यात्मिक गुणों और संपत्ति के वर्णन से है जिनकी अनिवार्यरूप से आवश्यकता उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास और उत्कृष्ट प्रगति के महान् आदर्श को अपने सामने रखकर जीवन-यात्रा करने वालों को हुआ करती है । ऐसी जीवन-यात्रा के लिए ही शास्त्रों में 'धुर की तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम पथ' कहा गया है ; जैसे—

उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत
धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ।
दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

(कठोपनिषद् १।३।१४)

अर्थात्, उठो, जागो और महान् पुरुषों से जीवन-यात्रा के लक्ष्य और कर्तव्यों को समझो । मनीषी लोग इसकी धुर की कठिन तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम मार्ग करते हैं ।

जीवन में श्रवसाद् अनुस्साद् और निराशा को खाने वाले प्रायः ऐसे ही विष से हमारा प्राचीन पुराणों आदि का साहित्य भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ, देखिए—

मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः शृणु ।
.....

संसारः स्वप्नमात्रश्च चलाः प्राणा घनं तथा ।

सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिने दिने ॥

इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा संसारं.....

अध्रमध्ये च पश्यन्ति चञ्चलां विद्युतां गतिम् ।

क्षणं दृष्ट्वा च नश्यन्ति तथा संसारिणो जनाः ॥

जले च बुद्बुदो यद्वत्तद्वत्संसारिणो जनाः ।...

अर्थात्, मृत्युलोक में महादुःख है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, घनादि अस्यायी हैं। उसमें सुख नाममात्र को नहीं है; दुःख प्रतिदिन रहता है। संसार इन्द्रजालमय या धोखे की बीज है। बादलों में चलते विद्युत् अथवा पानी में बुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है। इत्यादि।

दूसरी दृष्टि के अनुसार, जीवन प्रेम और कठणा के धाम भगवान् का परमोत्कृष्ट प्रसाद है। वह हमारे उत्तरोत्तर विकास का, उदृष्ट प्रगति का, एकमात्र साधन है। उसका परम लक्ष्य आनन्द, निःशेष या अमृतत्व है।

इसी दूसरी दृष्टि को हम जीवन का दिव्यपक्ष कह सकते हैं। वेदादि शास्त्रों में 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (इहदारण्यकोपनिषद् ३।३।२८) (अर्थात्, भगवान् ! हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलिए), 'जीवा ज्योतिरशीमहि' (ऋग्वेद ७।३२।२६) (अर्थात्, हम जीवन में विशुद्ध प्रकाश को प्राप्त करें),

उद्वयं तमसस्परि स्यः पश्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

(यजु० २०।२१)

(अर्थात्, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम अपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करें) इत्यादि वचन जीवन के इसी दिव्यपक्ष की व्याख्या करते हैं।

जीवन के इसी दिव्य-पक्ष के संदेश को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, तबको भगवान् के सर्वोत्कृष्ट प्रसाद रूप जीवन के मन्थन से समुन्नत अमृत का दिव्य-रस-यान कराने के लिए, इस मन्थ की प्रवृत्ति हुई है।

दूसरे शब्दों में, जीवन में उदात्त भावनाओं के दिव्य संदेश की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागरण, नशाभ्युत्थान का लाना ही इस रचना का मुख्य उद्देश्य है।

विषय-निर्देश

मनुष्य-जीवन के उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से पुस्तक लक्ष्या-नुसन्धान, जीवन-पाथेय तथा प्रज्ञाप्रसाद नामक तीन मुख्य भागों (= प्रसन्न अथवा प्रवाह) में विभक्त की गयी है ।

प्रथम भाग (= लक्ष्यानुसंधान) में मनुष्य जीवन के लक्ष्य पर विचार किया गया है । जीवन की महत्त्वपूर्ण यात्रा पर चलने से प्रथम जीवन-लक्ष्य का अनुसंधान और उसकी प्राप्ति के ब्रह्मचर्य जैसे मुख्य साधनों का प्रतिपादन ही इस भाग का प्रधान विषय है ।

'ब्रह्मचर्य-संदेश' इस भाग की मुख्य रचना है ; और वह पटना-मूलक है । उसके पद्य मूलतः ईस्वी सन् १९०९ में लिखे गये थे । उपनयन और वेदारम्भ-संस्कार के अनन्तर पवित्र गुरुकुलीय वातावरण में रहते हुए क्रमशः जीवन में उत्तरदायित्व की बुद्धि के विकसित होने पर, देश की दुर्दशा से चिन्तित अवस्था में एक महापुरुष के चित्र के संदर्शन से जो दिव्य-संदेश मिला था, उसीके आधार पर उक्त पद्यों की रचना हुई थी । इसीलिए उक्त रचना को 'चित्र-दर्शन' भी कहा जा सकता है ।

प्रथम भाग की अन्य रचनाओं में ब्रह्मचर्य के आदर्श से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले 'व्रत का जीवन', 'ब्रह्मचारी के लिए शिक्षा का आदर्श' जैसे अत्यन्त आवश्यक प्रश्नों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

दूसरे शब्दों में, भारतीय राष्ट्र की शिक्षा-विषयक आधुनिक दुरवस्था के मौलिक परिष्कार की महती समस्या का बहुत कुछ समाधान ही प्रथम भाग का विषय है ।

द्वितीय भाग (= जीवन-पाथेय) का सम्बन्ध विशेषतः उन विशिष्ट आध्यात्मिक गुणों और संपत्ति के वर्णन से है जिनकी अनिवार्यरूप से आवश्यकता उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास और उत्कृष्ट प्रगति के महान् आदर्शों को अपने सामने रखकर जीवन-यात्रा करने वालों को हुआ करती है । ऐसी जीवन-यात्रा के लिए ही शास्त्रों में 'धुर की तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम पथ' कहा गया है ; जैसे—

उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरात्रिवोधत
धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ।
दुर्गं पथस्तत्कथयो वदन्ति ॥

(कठोपनिषद् १।३।१४)

अर्थात्, उठो, जागो और महान् पुरुषों से जीवन-यात्रा के लक्ष्य और कर्तव्यों को समझो । मनीषी सांग इसको धुर की कठिन तीक्ष्ण धारा के समान दुर्गम मार्ग कहते हैं ।

इस दुर्गम पथ पर सरल यात्रा के लिए उदात्त चरित्र, प्रशान्त मन, भाव-संशुद्धि, अमोह तथा धैर्य आदि की परम आवश्यकता होती है। तभी तो भुक्ति नै कहा है :—

नाधिरतो दुश्चरिताज्ञानान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

(कठोपनिषद् १।२।२४)

अर्थात्, दुश्चरित्र, अतयत, अस्थिर-बुद्धि और अशान्त मन वाला व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता ।

ऐसे ही विचारों के आधार पर इस जीवन-पाथेय-नामक द्वितीय भाग में आध्यात्मिक जीवन-विकास के लिए परमोपयोगी आदर्श-चिन्तन, चारित्र्य-संपत्ति, भाव-संशुद्धि, धारणाचरण, इन्द्रिय-संयम, धैर्य, सत्सङ्ग-माहात्म्य जैसे विषयों का प्रतिपादन किया गया है ।

तृतीय भाग (= प्रज्ञा-प्रसाद) में आध्यात्मिक विशद की उष उत्कृष्टतर अवस्था का वर्णन है जब कि पल्लेन्मुख जीवन-यात्रा का यात्री, विषयासक्ति और क्षुद्रवासनाओं से ऊपर उठ कर, अपने चरम लक्ष्य के प्रकाश में, समस्त विश्व का संचालन करने वाली, उसमें ओत-प्रोत (तु० "स ओतः प्रोदथ विभुः प्रजायु", यजु० ३२।८) और उससे बाहर भी अवस्थित, मौलिक महान् सत्ता के साथ अपने व्यक्तित्व के घनिष्ठ सम्बन्ध को देखता हुआ, अपने जीवन की वास्तविक चरितार्थता और कृतकृत्यता का अनुभव करता है । उस उत्कृष्ट अवस्था का मूल्यांकन किसी भी मौलिक संपत्ति आदि से नहीं किया जा सकता । वह तो स्वयं ही अपना मूल्य है । यही 'प्रज्ञा-प्रसाद' की अवस्था है । इसी को वास्तव में 'सौम्या मनःस्थितिः' कह सकते हैं ।

उक्त अवस्था का ही विशद वर्णन इस भाग में मूलतत्त्वानुभूति, आत्म-सत्त्व-विवेचन, ब्रह्म-भावन, तत्त्वशास्त्रकार इन अवान्तर-खण्डों में अनेक रचनाओं द्वारा किया गया है ।

उक्त तीनों भागों के अधिदेवता

वर्तमान भारत के नवजागरण में, ज्ञान कर्म और उपासना के भेद से काण्डप्रयात्मक मानव-जीवन को प्रकाश और प्रेरणा के देने में, निर्विवाद रूप से प्रमुख स्थान स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी और परमहंस रामकृष्ण इन तीन महापुरुषों का है । उनके अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र के अनुसार धर्म के तीनों भागों को हम क्रमशः अधिदेवता के रूप में, उक्त महापुरुषों की सेवा में विनित भाव से समर्पित करते हैं ।

प्रक्रिया और शैली

पुस्तक की रचना शैली के विषय में हमें विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सदा से यह सिद्धान्त रहा है कि किसी भी रचना के लिए उसमें प्रसाद गुण का होना अत्यावश्यक है। वही मिठाछ सर्वात्मन समझा जाता है जिसके माधुर्य का रसास्वादन मुख में रखते ही होने लगता है। इसी तरह उसी रचना का विशेष महत्त्व होता है जिसको सुनने के साथ ही अर्थावबोध होता जाता है और विचार की प्रगति में किञ्चिन्मात्र भी बाधा नहीं आती। भगवद्गीता, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण जैसे प्रामाणिक ग्रन्थों की लोकप्रियता और महत्ता का मुख्य रहस्य उनकी सरल, सुबोध और हृदयाकर्षक शैली में निहित है।

दूसरे, हमारा विश्वास है कि संस्कृतभाषा के प्रति जनता में अनुराग और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए आधुनिक संस्कृत में उक्त प्रसाद-गुण-बहुल स्वामात्रिक शैली की ही अधिकाधिक अपनाना चाहिए।

उपर्युक्त कारणों से ही प्रकृत ग्रन्थ की रचना शैली प्रारम्भ से अन्त तक स्वामात्रिक प्रसाद गुण से विशिष्ट है। पढ़नेवाला अधिकारी व्यक्ति उसको पढ़ते-पढ़ते तन्मय हुए बिना नहीं रह सकता। पाठक-चन्द्र इसी प्रकार ग्रन्थ की रचनाओं का रसास्वादन कर सके, यही प्रथम प्रकार का प्रथम ध्येय है।

अमृतमन्थन की रचनाओं की दूसरी विशेषता उनकी अपारिभाषिकता है। यथासभन इसी लक्ष्य को सामने रखा गया है कि विभिन्न विषयों का प्रतिपादन ऐसे शब्दों में और ऐसे ढंग से किया जाय जिससे उनके अन्तर्हृदय को, वास्तविक अभिप्राय को, किसी भी संप्रदाय, धर्म, संस्कृति या देश से सम्बन्ध रखनेवाला मनुष्य सरलता से हृदयगम कर सके। अज्ञ की भूल की तरह विचारों की भूल भी मनुष्य मात्र में स्वभावतः पायी जाती है। वह सर्वथा साध्य है कि उत्तम भोज्य पदार्थों के समान उत्कृष्ट विचारों को भी ऐसे रूप में रखा जावे कि वे सबको प्रिय हों। इसीलिए ऐसे विषयों के प्रतिपादन में जिनका सम्बन्ध मानव मात्र की समस्याओं से है अपारिभाषिकता का होना अत्यावश्यक है। विश्वविद्यालय उपनिषदों की हृदय प्राहिणी प्रतिपादनशैली प्रायः इसी प्रकार की है।

हमें पूर्ण आशा है कि किसी भी संप्रदाय, संस्कृति अथवा धर्म से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति 'अमृत मन्थन' के भावों का रसास्वादन कर सकेगा। साथ ही हम यह भी समझते हैं कि संस्कृतभाषा का विशेष ज्ञान न रखने वाले लोग भी 'अमृत-मन्थन' को सरलता से समझ सकेंगे और उसके द्वारा अपने संस्कृत ज्ञान को बढ़ा सकेंगे।

पुस्तक की पृष्ठभूमि

जीवन और जीवन-यात्रा के सम्बन्ध में ग्रन्थकार के अपने कुछ ऐसे विचार हैं जिनकी पृष्ठ-भूमि को समझे बिना प्रकृत ग्रन्थ की विशेषता को दृढ्यंगम करना कठिन है। वास्तव में ग्रन्थ की जो कुछ विशेषता है उसका बहुत बड़ा कारण उक्त पृष्ठ-भूमि में ही निहित है। उन विचारोंका दिग्दर्शन हम निम्नरूप में कर सकते हैं:-

(१) जीवन में आशावाद; दूसरे शब्दों में,

निराशायाः समं पापं मानसस्य न विद्यते ।
मानसस्योन्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्य च ।
चारिताध्यं तथा सृष्टेरशायादे प्रतिष्ठितम् ॥
आशा सर्वोत्तमं ज्योतिर्निराशा परमं तमः ।

(रश्मिमाला १११-३)

अर्थात्, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता आशावाद में ही प्रतिष्ठित हैं। आशा सर्वोत्कृष्ट प्रकारा है। निराशा घोर अन्धकार है।

(२) प्रेम और करुणा के घाम भगवान् की सृष्टि में दुःख की प्राप्ति निश्चयोजन नहीं हो सकती। उसका हमें अपने उत्तरोत्तर उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए सोझी ही समझना चाहिए। इसीलिए

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टप्रगताबुत्सुकस्तु यः ।
दुःखानां स्वागतं सुखंस्तत्प्रज्ञो नावसीदति ॥

(रश्मिमाला ९१९)

अर्थात्, तत्त्वज्ञानी मनुष्य जो अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति के लिए उत्सुक रहता है दुःखों का स्वागत करता हुआ उनमें विषाद को नहीं प्राप्त होता।

(३) उत्तरोत्तर समुत्कर्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है; क्योंकि,
उत्तरोत्तरमुत्कर्षिं जीवनं शाश्वतं हि नः ।

(रश्मिमाला २१७)

हमारा जीवन उत्तरोत्तर समुन्नति शील और वास्तव में बढ़ा रहने वाला है।

(४) मूल तत्त्व के विषय में, परम मर्त्य के अन्वेषण में, अज्ञानप्रदायिक भावना। क्योंकि,

भाषासीमामतिग्रन्थं ज्ञानग्रन्थं कथंचन ।
स्यमुत्तु, वस्तुतो नाम्ना रहितं तद्धि वर्तते ॥

(रश्मिमाला ६०१२)

अर्थात्, मूलतत्त्व मापा की सीमा को अतिक्रमण करके रहता है, अर्थात् मापा द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन कठिन है। वह स्वयम्भू है, स्वयं सिद्ध है। वास्तव में उसका कोई अरना नाम नहीं है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की विचारधारा को, उसकी विशेषता को, यथावत् हृदयंगम करने के लिए ठक पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है।

इसीलिए ग्रन्थ के परिशिष्ट-भाग में इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का हमने यत्न किया है।

उपसंहार

पूर्व प्रकाशित अपनी पुस्तक रश्मिमाला (अथवा 'जीवनसंदेश-गीताञ्जलि') की रचनाओं के समान अमृतमन्थन की रचनायें भी समय समय पर आत्म-संतोष के लिए ही लिखी जाती रही हैं। प्रातः सायं के भ्रमण में, रेल आदि की यात्रा में, और कभी-कभी साधारण से अवसर पर ही, उत्पन्न समस्याओं या विचार-तरंगों से ही इनके लिखने में प्रेरणा प्राप्त होती रही है। इनको क्यों प्रकाशित किया जा रहा है, इसका उत्तर हम ऊपर दे चुके हैं।

'रश्मिमाला' के समान ही यह 'अमृतमन्थन' भी अद्वैत राजर्षि श्री पुरुषोत्तम-दास टंडनजी की प्रेरणा और प्रस्ताव के कारण 'भारतीय संस्कृति-सम्मेलन' के तत्त्वावधान में प्रकाशित किया जा रहा है। निस्सन्देह पुस्तक के लिए यह विशेष गौरव की बात है।

बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पुस्तक का प्रकाशन वाराणसी की सुप्रतिष्ठित विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला में हो रहा है। इसके लिए हम ग्रन्थमाला के उरसाही और विद्याप्रेमी अध्यक्ष श्री जयकृष्णदास गुप्तजी के विशेष कृतज्ञ हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने पुस्तक को शुद्ध और सुन्दर मुद्रित कराने में यथाशक्ति प्रयत्न किया है।

अन्त में हमारी बड़ी हार्दिक कामना है कि

भद्रा भवतु नो वाणी तेभ्यो ये तामधीयते ।

भद्रा उत प्रशस्तयो जागृयाम पुरोहिताः ॥ १ ॥

यह वाणी पढ़ने वालों के लिए कल्याणकारिणी हो। इस ग्रन्थ में ही हुई विभिन्न विषयों की प्रशस्तियों (= वर्णन) हृदयंगम और कल्याण करने वाली हों। राष्ट्र-निर्माण में मार्गप्रदर्शन करने वाले हम लोग अपने कर्तव्य पालन में सदा सावधान और तत्पर रहें।

भद्राः सन्तु प्रशस्तयो भद्रा वाचो वचोविद्ः ।

जागृयाम पुरोहिताः ॥ २ ॥

ग्रन्थकार की प्रशस्तिमें सुन्दर और सुघर सिद्ध हों ! शब्दावली भी सब के हित-साधन में समर्प्य हो । जनता का मार्ग-प्रदर्शन करने वाले हम ग्रन्थकार लोग अपने स्वर्ग्य-पालन में सजग रहें ।

तमसस्रुपरि पश्यन्तो नित्यं स्वर्ग्यमुत्तरम् ।
अश्रुमीमहि तज्ज्योतिरुत्तमं यदनामयम् ॥ ३ ॥

उल्लेखित प्रकाश को आदर्शरूप में देखते हुए हम लोग, अज्ञानान्धकार की वर्तमान अवस्था से क्रमशः ऊपर उठकर, उच्च उत्तम प्रकाश को प्राप्त हों जो सब प्रकार के अन्धकार से, अज्ञान से, और अपूर्णता से रहित है ।।।

वैदिक स्वाध्याय मन्दिर,
ज्योतिराश्रम, वाराणसी छावनी
ज्येष्ठकृष्ण ५, २०१३
(२९।५।१९५६)

}

मङ्गलदेव शास्त्री

विषय-सूची

	५४
अन्यसमर्पण	[१]
प्रस्तावना	[३]
शुद्धाशुद्धसूची	[१५]
मातृ भूमि का अभिनन्दन (संस्कृत में वैदिक पद्धति से)	१
ऊपर के अभिनन्दन का हिन्दी में अतुवाद	२
भारत्या' सुप्रभातम्	४
देववाणी का नव जागरण	५
सन्तो मधुप्रताः	७

अमृत-मन्थनम्

मङ्गलाचरणम्	९
-------------	---

प्रथम प्रवाह

लक्ष्यानुसन्धानम्

१	ब्रह्मचर्यं संदेशः	(= ब्रह्मचर्य का संदेश)	१३
२	व्रतमात्मविशुद्धये	(= व्रत से आत्म-शुद्धि)	२६
३	आत्मवत्तागुणोपेता	(= ब्रह्मचारी की शिक्षा का स्वरूप)	२८
४	ब्रह्मचर्यं तदिभ्यताम्	(= ब्रह्मचर्य की महिमा)	२९
५	ब्रह्मचारिणः परेशस्तोत्रम्	(= ब्रह्मचारी की ईश्वर-प्रार्थना)	३१

द्वितीय प्रवाह

जीवन-पाथेय

६	आदर्श चिन्तनम्	(= आदर्श-चिन्तन)	३७
---	----------------	--------------------	----

चारिष्य-संपत्तिः = चारिष्य-संपत्ति

७	चारिष्यमारमनं स्वास्थ्यम्	(= चारिष्य और आत्मा का स्वास्थ्य)	३९
८	चारिष्यं नरकस्य	(= चारिष्य-वर्षा)	
	सुगन्धि कुडुपं शुभम्		४१

९	विमुखा हन्त मानवाः ।	(= चारित्र्य की उपेक्षा)	४२
१०	रुद्ररूपं मनोऽस्माकम्	(= भाव-संशुद्धि)	४३
११	सद्दिचाराः प्ररोहन्ति शुभसंकल्पवारिणा	(= सद्दिचारों का विकास)	४४
१२	कृपया परयाविष्टो — दर्शं दर्शं भवाम्यहम्	(= मद मोह से प्रस्त मनुष्य)	४७
१३	जीवनेऽस्मिन्महौष्णामः स्वान्तस्तोषो निययते	(= अन्तरात्मा का अवरोध)	४८
१४	सत्यं जयति सर्वम्	(= सत्य की जय)	४९
१५	सत्यस्य हि प्रतिष्ठायां चारित्र्यं स्थितिमश्नुते	(= सत्य और चारित्र्य)	५०

शारीरस्वास्थ्यम् = शारीरिक स्वास्थ्य
इन्द्रियसंयमञ्च तथा इन्द्रियसंयम

१६	स्वस्थोऽहं नात्र संशयः	(= स्वास्थ्य का मन्त्र)	५३
१७	न शरीरकृते पयम्	(= हम शरीर के लिए नहीं हैं)	५४
१८	अतिक्रामकृदो मोहादधुर्ममौगि कृन्तति	(= स्वास्थ्य के नियम)	५४
१९	शारीरं स्वास्थ्यमाश्रित्य सर्वमन्यरप्रवर्तते	(= स्वास्थ्य-रक्षा के लिए यत्न)	५६
२०	ययत्त्वैर्गमिने गच्छन्	(= इन्द्रिय-संयम)	५६
२१	इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्	(= इन्द्रियों में प्रसक्ति)	५७
२२	विचरेद्विक्रितेन्द्रियः	(= जीवन-यात्रा)	५८

कर्ममार्गं = कर्म का मार्ग

२३	चतुरस्रोष्टमसिद्धि-	(= हानपुरस्सर कर्म का महत्त्व)	५९
२४	प्रायेण कल्पनालोके विचरन्तीह मानवा-	(= वर्तमान की उपेक्षा)	६०
२५	धैर्यमालम्बनं धेष्टम्	(= धैर्य का आलम्बन)	६०
२६	धीरा धैर्यपुरन्दरा	(= दुःसागम से बचपण)	६१
	लोकनीतिः = व्यावहारिक नीति		
२७	विद्या समुन्नतिपर्यं विशदीकरोति	(= विद्या-बंदना)	६२
२८	सङ्गः सदां शर्मसदानि सृते	(= सत्सङ्ग-माहात्म्य)	६५

२९	असञ्जनः पापतिवद्बुद्धिः	(= असज्जनों का स्वभाव)	६९
३०	निरादरस्यास्पृश्यमस्ति याचया	(= याचना से अपमान)	७१
३१	सालेषु वन्धो ननु कुञ्जराणाम्	(= सामर्थ्य की महिमा)	७२
३२	नीतिमुक्तावलिः	(= नीति के मोती)	७३

तृतीय प्रवाह

प्रज्ञा-प्रसाद

३३	अनन्तमनवच्छिन्नं यत्तत्त्वं तदुपास्महे	(= मूल-तत्त्व की अनुभूति)	८२
३४	परमतत्त्वमहं नतोऽस्मि	(= परम तत्त्व को नमस्कार)	८३
३५	तद्यः शिवं वितनुतां परमं हि धाम	(= शिवस्वरूप परम धाम)	८४
३६	नूनं महं हितधिया समुपाश्रयन्ते	(= पूर्ण पुराण-पुरुष)	८५
३७	स्रोतः सुखस्य सलिलेन परिश्रुतं तत्	(= मनुष्य का महान् मोह)	८७

आत्मतत्त्वविवेचनम् = आत्मतत्त्व का विवेचन

२८	सर्वदानन्दरूपं तदारमतत्त्वं मनीषिणाम्	(= अपना स्वरूप)	८८
३९	ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरात्मतत्त्वं मनीषिणाम्	(= प्रकाशस्वरूप आत्मतत्त्व)	८९
४०	चञ्चले तु जगत्यस्मिन्नेक आत्मैव निश्चलः	(= आत्म-तत्त्व की स्थिरता)	९१
४१	शिलासंघातसंकाशाः सुस्तिषरा दृढनिश्चयाः	(= महात्मार्थों का स्वभाव)	९१
४२	मदर्थं खलु दृश्यानि न तदर्थं मयास्तिता	(= हरय हमारे लिए हैं)	९२
४३	तत् त्वं तते महद्गनम्	(= आत्मस्वरूप में संक्षिपति)	९३
४४	घोऽहं न संशयः	(= मैं कौन हूँ ?)	९४

ब्रह्म-भावनम् = ब्रह्म का चिन्तन

४५	शैते सुप्त इवोरगः	(= ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्ति का क्रम)	९५
४६	भूमा वै सुखमाप्नातं सुखमरूपे न विद्यते	(= विशाल चिन्तन का महत्त्व)	९७

४७	मत्वा धीरो व शोचति	(= प्रसन्नता का मूल-स्रोत)	१९
४८	आरमानमभिमानोऽयं नूनमाइत्य तिष्ठति	(= अभिमान का आपरण)	१००
४९	विहृगोऽनन्त आकाशे	(= अनन्त की यात्रा)	१०१
५०	काष्ठपुत्तलिका इव	(= विश्व का सूत्रधार)	१०२
५१	दिभ्यजीवनमार्गस्थो मवेयमिति भावये	(= दिभ्य शैशवी अवस्था)	१०३

तत्त्वसाक्षात्कारः

= परम-तत्त्व का साक्षात्कार

५२	यस्मात्परतरं नास्ति तदहं नित्यमाश्रये	(= समस्त शक्तियों का मूल-स्रोत)	१०६
५३	तदहं नित्यमाश्रये	(= मूल तत्त्व में आस्था)	१०७
५४	कृष्णोत्थाकर्षकं तत्त्वम्	(= कृष्ण-तत्त्व मीमांसा)	११०
५५	आनन्दासुभृति	(= आनन्द की अनुभूति)	११४
५६	अनन्ते प्रगतेमार्गे	(= प्रगति का अनन्त मार्ग)	११४
५७	सदानन्दो वसाम्यहम्	(= आनन्द निर्भर भगवान्)	११५
५८	असि विश्व-भावन । विश्वभृद् ।	(= भगवान् की महिमा)	११६

परिशिष्ट-भाग

परिशिष्ट १—

(क) आशा सर्वोत्तमं ज्योतिः	(= आशा सर्वोत्कृष्ट प्रकार है)	१२३
(ख) जीवनस्य रहस्यम्	(= जीवन का रहस्य)	१२४
(ग) संयतस्व जीवनाय	(= जीवन के लिए धरावर यत्न करो)	१२६
(घ) दुःख-मीमांसा	(= दुःख के स्वरूप पर विचार)	१२७
(ङ) जीवने नाश्रय घाहरमम्	(= जीवन-नाश्रय)	१३४
(च) उत्तरोत्तरमुजतिः	(= उत्तरोत्तर उन्नति)	१३५

परिशिष्ट २—

तत्त्वमीमांसा	(= मूल-तत्त्व का विचार)	१३६
---------------	---------------------------	-----

परिशिष्ट ३—

ओंकार माहात्म्यम्	(= ओंकार की महिमा)	१८०
-------------------	----------------------	-----



शुद्धाशुद्ध-सूची

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७७	१०	द्वितीय	तृतीय
८४	२	तन्नो	तन्नः
१०९	१२	श्लोक की संख्या ॥ ११ ॥ चाहिए	



मातृभूमेरभिनन्दनम्

सा नो माता भारती भूर्विभासताम्

येय देवी मधुना तर्पयन्ती

तिस्रो भूमिरुद्धृता शोरुपस्थान् ।

धामान् दुग्धे त्रिप्रकर्षत्यलक्ष्मीं

मेधां श्रेष्ठं सा सदास्मानु दध्यात् ॥ १ ॥

सर्वे वेदा उपनिषदश्च सर्वा

धर्मग्रन्थाश्चापरे निधयो यस्याः ।

मृत्योर्मर्त्यान्मृतं ये दिशन्ति वै

सा नो माता भारती भूर्विभासताम् ॥ २ ॥

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यरन्ते

उत्तिष्ठन्ते ते भूय उत्तिष्ठमानाम् ।

यस्या व्रते प्रसवे धर्म एजते

सा नो माता भारती भूर्विभासताम् ॥ ३ ॥

यां रक्षन्त्यनिशं प्रतिबुध्यमाना

देवा ऋषयो मुनयो ह्यप्रमादम् ।

राजर्षयोऽपि ह्यनघाः साधुवर्याः

सा नो माता भारती भूर्विभासताम् ॥ ४ ॥

महान्तोऽस्यं महिमानो निविष्टा

देवा गातुं यां क्षमन्ते न सद्यः ।

सा नो वन्धा भ्राजसा भ्राजमाना

माता भूमिः प्रणुदतां सपत्नान् ॥ ५ ॥

अभिनन्दनमिदं पुण्य दिव्यभावैः समर्हितम् ।

मातृभूमेः पठन्नित्यमात्मकल्याणमश्नुते ॥ ६ ॥

भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मातृभूमि का अभिनन्दन

विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो !

१. दुलोक से मानो अवतीर्ण,
तोनो लोकों को दिव्य माधुर्य से आपूर्ण करनेवाली,
अमिलवित कामनाओं को देनेवाली
तया दुःख दारिद्र्य (अज्ञानी) को हटानेवाली,
देवीस्वरूपिणी भारत—माता
सद्बिचारों की साधना में हमारी प्रह्लापक हो !
२. मनुष्यों को मृत्यु से हटाकर
अमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले
समस्त वेद, उपनिषद् तथा अन्व (बौद्ध, जैन आदि) धर्म-ग्रन्थ
जिस के निधि स्वरूप हैं,
वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो !
३. जिसका अपकर्ष संसार में
घर्माचरण के अपकर्ष का कारण होता है,
जिसके उत्कर्ष में घर्माचरण का उत्कर्ष निहित है,
जिससे धर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है,
वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो !

४. देवगण, ऋषि, मुनि, राजर्षि

और पवित्रात्मा सन्त-महात्मागण

सावधानता तथा तत्परता से

जिसके कृत्याणुमय स्वरूप की निरन्तर रक्षा करते आये हैं,

वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो ।

५. जिसकी महिमा महान् है,

देवगण भी जिसके स्वरूप का गान नहीं कर पाते,

समुज्ज्वल तेज से देदीप्यमान

वह सर्व-लोक-चन्दनीय हमारी मातृभूमि

विरोधी शत्रुओं को शमन (निराकरण) करमेवाली हो !

माहात्म्य

६. मातृभूमि भारत के दिव्य भावों से युक्त इस पवित्र अभिनन्दन का नित्य

पाठ करने वाला मनुष्य आत्मकृत्याणु को प्राप्त होमा ।



भारत्याः खलु सुप्रभातमभितः संवर्धतां भारतम् !

भारत्या भुवनेऽपिले पृथु यशस्तन्यद् युधानां मनः-
स्वशाश्वत्परिकामुमानि विकचीकुर्वत्तमो धारयत् ।
नूनज्ञानरवेः प्रकाशकिरणैर्विस्तीर्यमाणं पुरो
हृद्यं तत्खलु सुप्रभातमभितः संवर्धतां भारतम् ॥

(काव्यपद्धतिः)

सुप्रभातं विजयतां धियो यत्पुष्टिवर्धनम् ।
पथः सत्यस्य सातये ॥

(मन्त्रपद्धतिः)

देवाश्च वा असुराश्चोभये प्राजापत्याः पस्पधिरे । ते दण्डैर्धनुर्भिर्न
व्यजयन्त । ते हाविजयमानाः प्रजापतिं पितरमुपतस्थुरस्माकमये भविष्य-
त्यस्माकमयं भविष्यतीति । प्रजापतिर्वै ज्योतिर्देवेभ्यः प्रददा एतद्धो विजित्यै
भविष्यति, तमोऽसुरेभ्यः प्रददा एतद्धो विजित्यै भविष्यतीति । तस्माद्देवा
ज्योतिषा विजयन्ते, असुरास्तमसा । तस्मादाहुर्ज्योतिर्जुषो वै देवाः, असुरा-
स्तमोजुषः । अथ प्रभात एव प्रथमं देवा ज्योतिरपश्यन् । प्रभात एवोप-
र्तुधोऽग्निस्तायते । अग्निमुखा वै देवाः । तस्मात्प्रभातमेव ज्योतिषां ज्योतिः ।
सुप्रभातसु ह तस्य भवति, तमसः पारं याति य एवं विद्वान् ज्योतिर्जुषो
देवान्वेद । ज्योतिर्वै सत्यम् । ज्योतिरमृतम् ॥

(प्राज्ञपद्धतिः)

देववाणी का नवजागरण

भारत में सर्वत्र भारती

(देववाणी) का सुप्रभात होवे !

समस्त सत्तार में भारती के विपुल यश को फैलता हुआ, विद्वानों के हृदयों में आशा बह्नी के कुसुमों को विकसित करता हुआ, अज्ञानान्धकार को हटाता हुआ, नवीन ज्ञान के सूर्य के प्रकाश की किरणों के साथ सामने फैलता हुआ, सुन्दर सुप्रभात (= नवजागरण) भारत में सर्वत्र वृद्धि को प्राप्त हो !

सच्चे मार्ग की प्राप्ति के लिए,

वृद्धि को पुष्टि-प्रदान करने वाले,

सुप्रभात (नवजागरण) की जय हो !

प्रजापति से उत्पन्न देवता और असुर दोनों परस्पर में स्पर्धा करने लगे । दण्डों और धनुषों की सहायता से उनमें से किसी की विजय नहीं हुई । तब यह सोचते हुए कि प्रजापति हमारा पक्ष लेगा, दोनों पक्ष प्रजापति के पास पहुँचे । प्रजापति ने 'इससे तुम्हारी विजय होगी' यह कहते हुए ज्योति अर्थात् प्रकाश देवताओं को दिया और अन्धकार असुरों को दिया । इमी से प्रकाश में देवताओं का और अन्धकार में असुरों का उत्कर्ष होता है । इसीलिए कहते हैं कि देवता प्रकाश से और असुर अन्धकार से प्रेम करते हैं । तब देवताओं ने प्रकाश को प्रथमतः प्रभात के समय ही देखा । उप काल में जागनेवाली अग्नि वा विस्तार प्रभात में ही होता है । अग्नि ही देवताओं का मुख है । इसलिए प्रभात ही ज्योतियों की ज्योति है । जो विद्वान् यह जानता है कि देवता प्रकाश से ही प्रेम करते हैं, उसी का सुप्रभात (= नवाभ्युत्थान) होता है, वही अज्ञानान्धकार को पार कर जाता है । प्रकाश ही सत्य है । प्रकाश ही अमृत है ।

सन्तो मधुमताः सान्द्रं
पोत्वा शाखरेसामृतम् ।
लोकोत्तरं तथाक्षय्य-
मानन्दमुपभुञ्जते ॥ १ ॥

सत्पुरुषों का स्वभाव मधु-पान-रसिक भ्रमर के समान होता है । वे शाखों के रस रूपी अमृत को तन्मयता के साथ पीकर अक्षय्य लोकोत्तर आनन्द का उपभोग करते हैं ।





महर्षि स्व मां दयानन्द सरस्वता
अमृतस्य निषेक्रेण सुमृष्टुं समजीवयत् ।
मन्थे मी भारत भूयो महर्षि त नतोऽस्म्यहम् ॥

प्रथमः परिस्रवः

लक्ष्यानुसन्धानम्

इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति । न वेदिहावेदीन् महती विनष्टिः ।

(केनोपनिषद् २।५)

मा प्र गाम पथो वयम् ।

(ऋग्० १०।५७।१)



प्रथम प्रवाह

लक्ष्यानुसन्धान

इसी जन्म में यदि जीवन के लक्ष्य को जान लिया, तो ठीक है । यदि नहीं जाना,
तो घड़ी क्षानि है ।

(केनोपनिषद् २।५)

हम जीवन में पथ-भ्रष्ट न हों ।

(ऋग्० १०।५७।१)



(१)

ब्रह्मचर्य-संदेशः

ब्रह्मचर्य का संदेश

कदाचिदेकान्तगतो विचार-

परम्परान्दोलितमानसोऽहम् ।

हीनां दशां भारतमावृभूमे-

विचिन्त्य चिन्ताकुलतामगच्छम् ॥ १ ॥

कभी एकान्त में बैठे हुए, जब कि विचारों के प्रवाह से चित्त आन्दोलित हो रहा था, मावृ-भूमि भारत की हीन दशा को सोचते-सोचते मैं चिन्ता से व्याकुल हो गया ।

शोकाग्निना दग्धमिवातिदीनं

मनस्तदा मे गतधैर्यमासीत् ।

धूमेन यक्ष्णुं समुत्थितेन

व्याप्तं शिरश्चेतनतामहासीत् ॥ २ ॥

उस समय शोक-रूपी बहि से मानो जले हुए मेरे अतिदीन मन ने धैर्य को खो दिया । उस बहि से मानो उठे हुए धुँए से मेरा मस्तिष्क व्याप्त हो गया और उसकी चेतनता जाती रही ।

ज्वालाद्रिनिस्फोटनतो नु जातं

भयावहं वेपथुमन्वभूवम् ।

विदीर्गमस्माद् घृदयं मदीयं

ममस्तथासीत्तमसीत् लोकः ॥ ३ ॥

उस समय ज्वालामुखी पर्वत के निस्फोट से उत्पन्न जैसे धूम्र को मैंने अनुभव किया । इससे मेरा हृदय विदीर्ग हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि सारा संसार अन्धकार में डूब गया है ।

आद्यत्तमध्वे पवितेव नौका
 शोकाब्धिमन्नं हृदयं ममासीत् ।
 राहुर्यथा भीडयतीन्दुविम्बं
 प्रस्तो महैर्दुष्टतरैस्तथासम् ॥ ४ ॥

उस समय भँवर के बीच में पड़ी हुई नौका के समान मेरा हृदय शोक-सागर में
 डूब रहा था । जैसे राहु चन्द्रमा के विम्ब को पीड़ित करता है, उसी प्रकार दुष्ट
 प्रहों से मैं प्रस्त हो रहा था ।

आसीद्वस्था मम या तदानीं
 बाणी न वक्तुं खलु तां समर्था ।
 आपादचूडं सुतरां निमग्न-
 स्तदामयं दुःखपयोधिमध्ये ॥ ५ ॥

उस समय मेरी जो अवस्था हो रही थी बाणी उससे नहीं कह सकती । उस
 समय मैं पैर से लेकर सिर तक दुःख-सागर में विलकुल डूबा हुआ था ।

समासीनस्यैवं मम मनसि चिन्तापरवशे
 शुचा दग्धे, लीने नयनयुगले घोरत्वमसि ।
 तदा चित्रे कस्मिंश्चिदपि मम दृष्टिर्हि सहसा
 गता, येनैगहं भटिति गतशोकः समभवम् ॥ ६ ॥

इस दशा में बैठे हुए, जब कि चिन्ता से व्याकुल मेरा मन शोक से जल रहा
 था और नयन-युगल घोर अन्धकार में पड़े थे, तब ही मेरी दृष्टि एक चित्र पर जा
 पड़ी । उससे मेरा सारा शोक तत्काल जाता रहा ।

तस्मिंश्च चित्रे मृदुरस्यगात्रं
 कौपीनमात्रं वसनं वसानम् ।
 वेदेषु ब्रह्माविरायं दधानं
 धर्मस्य पोटस्य च कर्णधारम् ॥ ७ ॥
 विस्मृत्य सर्वं स्वपरत्वभाषं
 दीनेषु दीनेषु दयास्यभावम् ।
 पद्मासनेन स्थितमासनेऽहं
 समापिनिष्ठं यमिनां वरिष्ठम् ॥ ८ ॥

सव्ये च वेदैरथ दक्षिणाङ्गे
 कुण्ड्या यतीनामतिशोभमानम् ।
 आस्यप्रभातोऽमृतमास्त्रयन्तं
 तपोधनं ज्ञानवतां गरिष्ठम् ॥ ६ ॥
 अभ्यन्तरे प्रज्वलतीत्र यस्य
 निरन्तरं धर्ममयः कृशातुः ।
 तं श्रीदयानन्वमुनिं महर्षि-
 मपश्यमानन्दपयोधिमतम् ॥ १० ॥

उस चित्र में

मृदु और सुन्दर शरीर वाले,
 कौपीन-मात्र वस्त्र को पहने हुए,
 वेदों में अत्यन्त श्रद्धा को रखने वाले,
 धर्म के पोत के कर्णधार;
 अपने और पराये के भेद-भाव को भूल कर
 दरिद्र और दीन-दुखियों पर दया-स्वभाव वाले,
 आसन पर पद्मासन से बैठे हुए,
 समाधिनिष्ठ, यमियों में श्रेष्ठ,
 वामभाग में वेद की पुस्तकों से और दक्षिण भाग में
 सन्धासियों के कमण्डलु से अत्यन्त शोभायमान,
 सुख की प्रमा से अमृत को बरसाते हुए,
 तपोधन, ज्ञानियों में गरिष्ठ,
 जिनके अन्दर निरन्तर मानो
 धर्म की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है,
 आनन्द-सागर में मग्न उन महर्षि
 धी स्वामी दशानन्द मुनि को मैंने देखा ॥

यदीयमालोकनमप्यधानि

निहन्ति पुंसां चिरसिञ्चतानि ।

दृष्ट्वा मुनिं तं कमनीयकान्ति-

मयं विचारो हृदि प्रादुरासीत् ॥ ११ ॥

जिनके दर्शन-मात्र से मनुष्यों के चिर-संचित पाप नष्ट हो जाते हैं उन कमनीय-कान्ति मुनि को देख कर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ—

ये कुन्दद्युतयः समस्तभुवनैः कर्णापवंसीकृताः

यैः सर्वत्र शलाकयेव लिखितैर्दिग्भिन्नयश्चित्रिताः ।

यैरेक्षुं हृदि कल्पितैरपि ययं हर्षेण रोमाञ्चिता-

स्तेषां धर्मनिधिर्हयं नु महतामेको गुणानां निधिः ॥ १२ ॥

जिन कुन्दावदात महान् गुणों को बुझने के लिए समस्त लोक आलायित रहते हैं, शलाका से माने लिये हुए जिनगुणोंसे दिग्भूरी भित्तियों चित्रित हो रही हैं, जिनके विषय में बहने के लिए हृदय में संकल्प मात्र से हम सब हृष से रोमाञ्चित हो जाते हैं, ये धर्मनिधि महात्मा वन महान् गुणों के एकमात्र निधि हैं ।

समालोक्यैवाहं प्रचुरशमदं शान्तिनिलयं

महर्षेस्तच्चित्रं निखिलभ्रतापापहरणम् ।

समाश्वासं लब्ध्वा समग्रहितचित्तः कथमपि

पुरस्तान्तस्यैवं निजहृदयगाथामकथयम् ॥ १३ ॥

प्रचुर शान्ति को देने वाले, स्वयं शान्ति के स्थान, और संसार के समस्त तापों को हरने वाले महर्षि के उस चित्र को देखते ही सान्त्वना को पाकर किसी प्रकार चित्त को सावधान करके उसके सामने मैंने अपने हृदय की गाथा को इस प्रकार कहा-

लब्धप्रसारं परितो जगत्या-

महानजं पापमपास्य घोरम् ।

ज्ञानोपदेशेन जनेषु धर्मं

संस्थापयंस्त्वं जयसीह लोके ॥ १४ ॥

संसार में चारों ओर फैले हुए अज्ञान से उत्पन्न घोर पाप को हटाकर ज्ञानोपदेश द्वारा मनुष्यों में धर्म की स्थापना करने वाले आप की लोक में जय हो ।

सत्योपदेशैर्ननु गर्जयित्वा

प्रावृष्य धर्माश्रतमा समन्तात् ।

पापाग्निकीर्त्तौवल्लिदग्धविचाम्

सञ्जीवयंस्त्वं जयसीह लोके ॥ १५ ॥

सत्य के उपदेशों से मानो गरज कर सब ओर धर्म रूपी अश्रुत की वर्षा द्वारा पाप-रूपी अग्नि की प्वालाओं से दग्ध-विलस लोगों को जीवन-प्रदान करने वाले आप की लोक में जय हो ।

१ "बहेर्द्वयोर्ज्वालकीलावर्चिर्हेति" शिखा त्रियाम्' (अमरकोष १।१।६०) ।

सत्यप्रियोऽसत्यनिवारणोत्कः

समस्तलोकस्य हिते सनिष्ठः ।

शास्त्रार्थगोष्ठीषु घुरन्धरस्त्वं

विद्वद्वरेण्यो जयसीह लोके ॥ १६ ॥

सत्य को प्यार करने वाले, असत्य के निवारण में उत्सुक, सब लोगों के हित के संपादन में आस्था रखने वाले, शास्त्रार्थ सभाओं में धुरंधर और विद्वानों में श्रेष्ठ आप की लोक में जय हो ।

गोत्राह्वणानामतिदुर्दशां ताम्

अनाथदीनानथ हीनसत्त्वान् ।

दृष्ट्वातिमात्रेण दयार्द्रचित्तो

यथार्थनामा जयसीह लोके ॥ १७ ॥

गौ और ब्राह्मणों की अत्यन्त दुर्दशा को तथा अनाथ दीन और दुर्बलों को देख कर दया से अत्यन्त आर्द्र चित्त तथा यथार्थ नाम वाले आपको लोक में जय हो ।

भयन्तं संस्तुत्य प्रगतचिधिनाहं गुरुवर !

समासाद्योच्छ्वासं तव वदनचन्द्रादविरलम् ।

विनीतो यच्चान्यद् विवदिपुरिदानीं, करुणया

प्रहीतव्यं, सन्तः परहितपराः सन्ति सततम् ॥ १८ ॥

गुरुवर ! नम्रता पुर सर आप की स्तुति कर के आप के मुखचन्द्र से मैंने पर्याप्त सान्त्वना प्राप्त की है । मैं विनीत भाव से और जो कुछ निवेदन करना चाहता हूँ उस को रूपया मुनिप, घटपुष्प सदा दूसरों का हित करने में तत्पर रहते हैं ।

सर्वव्यवस्थास्वतिरेकभावात्

स्वार्थप्रवृत्तेर्विलयोन्मुखासु ।

स्वच्छन्दमार्गेषु निजृम्भितेषु

सर्वत्र हा-हा-कृतमाविरासीत् ॥ १९ ॥

स्वार्थ की प्रवृत्ति के अत्यन्त बढ़ जाने से सारी व्यवस्थाओं के नष्टप्राय हो जाने पर और स्वच्छन्द मार्गों के प्रबल हो जाने पर देश में सर्वत्र हाहाकार मच गया ।

मोहान्धकारे प्रसृते समन्ताद्

अस्तंगते शान्धतधर्मभानौ ।

मतान्यसंख्यानि समस्तदेशे

तारा रजन्यामिव श्रादुरासन् ॥ २० ॥

शाश्वत या सनातन धर्मरूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर सब ओर अहान का अन्यकार फैल गया। ऐसी दशा में रात्रि में ताराओं के समान समस्त देश में असांख्य मत मतान्तर चल पड़े।

देशे ततो दुर्वलतां प्रयाते

विनष्टसत्त्वे हतगौरवे च ।

प्रजासु न्याय्येतरमार्गमासु

वैदेशिकैः शासनमत्र लब्धम् ॥ २१ ॥

उक्त कारण से देश के दुर्वल, निस्सत्त्व और गौरवविहीन हो जाने पर तथा जनता के नैतिकता से विपरीत मार्ग में चलने पर विदेशियों ने देश में अपना शासन स्थापित कर लिया।

धिराय तच्छासनतो विशीर्णा

परम्परा भारतसंस्कृतेः सा ।

विलुप्तधैर्या अथ भारतीयाः

परेश्वरं प्रार्थयितुं प्रवृत्ताः ॥ २२ ॥

धिरकाल तक रहने वाले विदेशी शासन से भारतीय संस्कृति की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परम्परा नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। तब भारतवर्ष-वासी अधीर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे—

त्रायस्व लोकेश ! दयासमुद्र !

दिने दिने वर्धत एव पापम् ।

सर्वस्वहीना हतभागधेया

त्रिचारमूढा वयमद्य सर्वे ॥ २३ ॥

हे लोकेश के स्वामिन्, दया के समुद्र भगवन् ! हमारी रक्षा कीजिए। दिनों दिन पाप बढ़ रहा है। सब कुछ खोकर आज हम सब अभाग किर्तव्य-विमूढ़ हो रहे हैं।

विसृज्य कर्तव्यपथं स्वकीयां

परम्परां तां जगतोऽभिवन्द्याम् ।

असत्यमार्गेषु रताः समन्ताद्

दूयामहेऽनर्थपरम्पराभिः ॥ २४ ॥

कर्तव्य-पथ को और जगद्वन्द्वनीय अग्नी उस प्रसिद्ध परम्परा को भूलकर हम बल्ले मार्गों पर चलने से अनेकानेक आपत्तियों द्वारा सब ओर से घेराये जा रहे हैं।

आसीत्पुरा यद् बहुमानपात्रं

विद्यागुरुत्वेन च यत्प्रसिद्धम् ।

तद्भारतं हीनदशां प्रपन्न-

मनादरस्यास्पदमद्य जातम् ॥ २५ ॥

जो भारत प्राचीन काल में अत्यन्त संमानित था, जो विद्या-गुरु के रूप में प्रसिद्ध था, वह आज हीन दशा को पाकर अनादर का पात्र बन गया है।

घनेन घान्येन सुपुष्कलेन

स्वास्थ्येन वृत्तेन च सुपपन्नम् ।

आसीत्तदेवाद्य ततो विहीनं

दृष्ट्वा प्रभो ! त्वां शरणं व्रजामः ॥ २६ ॥

जो भारत देश प्राचीन काल में पुष्कल धन और घान्य, तथा स्वास्थ्य और शक्ति से संपन्न था, उसी को आज उन सब से विहीन देखकर हे प्रभो ! हम आप की ही शरण में आते हैं।

रामः क्व रावणकुलस्य स धूमकेतुर्

यावद्यतुर्देश समाः पितुराज्ञया यः ।

सत्यव्रतो गहनकाननमभ्यवर्ती

रत्नांसि मृत्युपथमाशुतरामनैषीत् ॥ २७ ॥

जिन्होंने पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष तक गहन कानन में निवास किया और अतीव शीघ्रता से राजसों का संहार कर डाला, रावण के कुल को नाश करने वाले वे सत्य-व्रती राम कहीं हैं !

काजातरायुरिह यः कुरुवंशदीपः

कालं निनाय विपिने स्वपथेन बद्धः ।

आजन्म येन वितथा नीह धागभृति

स्यान्नि गतोऽखिलभुवि स्वगुणैरुदारैः ॥ २८ ॥

जिन्होंने अपने बचन से यद्द हो कर जंगल में समय को व्यतीत किया, जन्म-पर्यन्त मिथ्या-भावना नहीं किया, और अपने उदार गुणों से समस्त पृथ्वी पर बरा को प्राप्त किया, और-बरा को प्रदर्शित करने वाले वे अजातशत्रु मुनिधर कहीं हैं !

भीष्मोऽपि कुत्र भुवने बलिनां बलिष्ठः

संप्रीणनाय पितुरात्मबलिं विधाय ।

मत्या तृणाय निखिलामपि राज्यलक्ष्मी-

माजीवनं स्म चरति व्रतिनां व्रतं यः ॥ २६ ॥

जिन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने को बलि देकर, और सभस्त राज्य-लक्ष्मी को तृण समान मान कर जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया था, बलियों में बलिष्ठ वे भीष्मपितामह आज संसार में कहाँ हैं ?

स्नेहानुरागपरमोऽमजपादपद्म-

द्वन्द्वे, विहाय विविधानि सुखान्वरण्यम् ।

यातः समुज्ज्वलयशा ननु लक्ष्मणो यः

कास्तेऽधुना स पुनरिन्द्रजितो विजेता ॥ ३० ॥

जिन्होंने अपने प्येष्ट भ्राता के पाद-पत्रों में स्नेह और अनुराग के कारण नाम भ्रंशर के सुखों को छोड़ कर वनवास स्वीकार किया था, वे समुज्ज्वल यशवाले और इन्द्रजित (मेघनाद) पर विजय पानेवाले लक्ष्मण आज कहाँ हैं ?

प्राप्तं च राज्यमखिलं तृणवद्विहाय

चीरं जटाश्च परिधाय पुराद्विहिर्यः ।

भ्रातुर्वनं गतवतः प्रतिपालनेन

कालं निनाय भरतः क्व गतोऽधुना सः ॥ ३१ ॥

हाथ में आये हुए समस्त राज्य को तृण के समान छोड़ कर तथा चीर और जटाओं को धारण कर जिन्होंने वन-वास में गये हुए अपने भाई की प्रतीक्षा में नगर से बाहर रहकर समय को व्यतीत किया था वे भरत अब कहाँ हैं ?

हा क्रूर ! काल ! भवता किमिदं व्यथायि

हीनां दशां यत इमां गत एष देसः ।

एवं स्थितोऽपि द्यसे न समीक्षमाणः

को वेद् क्व नु गतिरस्य भविष्यतीति ॥ ३२ ॥

हे क्रूर काल ! तुम ने यह क्या कर रखा जिस से यह देश इस होन दशा को पहुँच गया ? ऐसी स्थिति में सब क्रुद्ध देखते हुए भी यदि तुम दया नहीं करते, तो कौन जानता है कि इस देश की क्या दशा होगी ?

तस्मात्त्रमेव भगवन्निममार्त्तनादं

श्रुत्वा विधेहि करुणामयि दीनबन्धो ! ।

लोकत्रयस्य परिपालयितारमीशं

त्वामेव भो अशरणैकशरण्यमाहुः ॥ ३३ ॥

ऐसी दशा में हे दीनबन्धो ! भगवन् ! इस आर्तनाद को सुनकर आप ही कृपा करें। आप तीनों लोकों की रक्षा करनेवाले ईश्वर हैं; आप ही 'अशरणों के एकमात्र आश्रय' कहे जाते हैं।

त्वं त्रायसे हि धलिनं, न तदा महत्त्वं

दीनान् समुद्धरसि, तर्हि तु ते महत्त्वम् ।

धारःधरस्य किमु वर्षणमच्छिमघ्ये ?

तच्चेन्मरौ भवति तस्य महत्त्वमाहुः ॥ ३४ ॥

आप यदि बलवान् श्री रक्षा करते हैं तो इसमें आप का कोई महत्त्व नहीं; यदि आप दीनों का उद्धार करते हैं, तभी आप का महत्त्व है। समुद्र में भेघ के धरने से क्या लाभ ! मछलियों में भरसने पर ही उस का महत्त्व माना जाता है।

इत्थं प्रजाभिर्बहु प्रायितः सन्

लोकैकनाथोऽपि दयां चकार ।

संप्रेषितो यद् यमिनां वरिष्ठः

स्वामी दयानन्दसरस्वती त्वम् ॥ ३५ ॥

इस प्रकार जनता के बहुत प्रार्थना करने पर लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान् ने दया की और यमियों (मुनियों) में श्रेष्ठ आप स्वामी दयानन्द सरस्वती को भारत में जन्म दिया।

दयापरस्त्वं जगद्गुहिधीर्षुः

शास्त्राणि वेदांश्च समध्यगीष्टाः ।

सत्यप्रकाशेन ततः समन्तात्

प्रजागरोऽदरयत् नृज पत्र ॥ ३६ ॥

दयालुस्यभाव वाले आपने जगत् के उद्धार की इच्छा से शास्त्रों और वेदों को पढ़ा। तदनन्तर सत्य के प्रकाश से एक नवीन जागरण सब ओर दिशा दे देने लगा।

चिराय मोहोऽपगतः प्रजानां

जातोऽपि भूयः स्वपरावबोधः ।

विदेशिनामाक्रमणस्य रोध-

चिन्ता पदं लब्धवती समन्तात् ॥ ३७ ॥

जनता में चिरवाक से फैला हुआ अज्ञान दूर हो गया । फिर से धरने और पराये का ज्ञान उत्पन्न हुआ । विदेशियों के आक्रमण को रोकने की चिन्ता देश में सर्वत्र फैलने लगी ।

गीर्वाणवाण्याः पठनप्रवृत्तिर्

भूयोऽभितो भारतमाविरासीत् ।

स्वसंस्कृतेश्चोद्धरणस्य वार्ता

पुनः श्रुतेर्गोचरतामयासीत् ॥ ३८ ॥

भारतवर्ष में चारों ओर देववाणी (संस्कृत भाषा) के पढ़ने की प्रवृत्ति फिर से दृष्टिगोचर होने लगी । अपनी संस्कृति के उद्धार की वार्ता पुनः सुनाई देने लगी ।

तथापि वैदेशिकराज्यशक्ति-

स्तथा तदाचारविचाररीतिः ।

विजृम्भमाणा परिवोऽत्र देशोऽ-

रमदीयवन्नान् विफलीकरोति ॥ ३९ ॥

इस पर भी हमारे भारतवर्ष में सब ओर से बढ़ती हुई विदेशियों के राज्य की शक्ति तथा उनके आचार-विचार की रीति हमारे प्रयत्नों को विफल कर रही है ।

वयं तदस्मिन् विषये विमूढा

उत्साहचारिष्यविवेकहीनाः ।

आत्मन्यत्रिश्वासहता निराशा-

पात्राणि नः शाधि विधेयमत्र ॥ ४० ॥

जो इस विषय में हम किञ्चित् विमूढ हो कर उत्साह, चारिष्य और विवेक को खो चुके हैं । आत्म-विश्वास के न होने से निराशा ने हम को घेर रखा है । हम को बतलाइए, यहाँ हम क्या करें !

समाकर्येतां मे विनतिपरिपाटीं कुरुणया

रिमंतं कुर्वन्मन्येऽमृतमिव समाख्यासबहुलम् ।

अगादीत्तच्चित्रं मितममितसारं ननु वचो

ह्यधोनिर्दिष्टं यत्पुनरपि समाधिं नु समधात् ॥ ४१ ॥

मेरी उक्त विनति को सुन कर, मुझे ऐसा लग्न कि, कल्याण-पुराणर अमृत के समान सान्त्वना देनेवाले स्मित को करते हुए उस चित्र ने संक्षिप्त, पर सारगर्भित, निम्न-निर्दिष्ट वचन को कहा और फिर समाधि को धारण कर लिया ।

“ब्रह्मचर्यं महान् यज्ञो ब्रह्मचर्यं महत्तपः ।

ब्रह्मचर्येण सर्वोऽर्थः सिद्धो भवति भूतले ॥ ४२ ॥

मनीषितानामर्थानां सिद्धयै तद्भूतये तथा ।

भारते ब्रह्मचर्यस्य पुनः स्थापनमिष्यताम्” ॥ ४३ ॥

“ब्रह्मचर्यं एक महान् यज्ञ है । ब्रह्मचर्यं महान् तप है ।

प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति संसार में ब्रह्मचर्य से हो सकती है ।

इसलिए अभीष्ट अर्थों की सिद्धि और उनके उत्कर्ष के लिए

भारतवर्ष में फिर से ब्रह्मचर्य की स्थापना करनी चाहिए ।”

तदेतदतिसङ्घितं चित्रेण ननु घोषितम् ।

प्रकृतापेक्षिणी तस्य काचिद् व्याख्या विधीयते ॥ ४४ ॥

अति संक्षेप में मानो चित्र ने यही घोषित किया । प्रकृत विषय की दृष्टि से उसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ की जाती है ।

सर्वेषामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययम् ।

कूटस्थं शाश्वतं दिव्यं, वेदो वा, ज्ञानमेव यत् ॥ ४५ ॥

तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशब्देन कथ्यते ।

तदुद्दिश्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ ४६ ॥

सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अक्षय्य, कूटस्थ, शाश्वत, दिव्य मूलकारण है उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्द से कहते हैं । उस ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से जो व्रत ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं ।

समष्टिरूपं यद् ब्रह्म तद्रूपं ज्ञानमेव यत् ।

साध्यां सायुज्यसंपत्त्यै ब्रह्मचारी सदैवसति ॥ ४७ ॥

समस्त पदार्थों की समष्टि-रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्ट्यात्मक (अथवा व्यापक) जो ज्ञान है, उन दोनों के साथ सायुज्य अथवा तादात्म्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता है ।

एतस्यां भूमिफायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः ।

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टं जीवनं लक्ष्यमुच्यते ॥ ४८ ॥

“भद्रादभि श्रेयः प्रेहि”^१, “भद्रं भद्रं न आभर”^२ ।

इत्येवं बहुशो मन्त्रैरेव एवार्थं उच्यते ॥ ४९ ॥

उक्त मानसिक परिस्थिति में वर्तमान ब्रह्मचारी के लिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन ही लक्ष्य होता है ।

“तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो”, “भगवन् ! हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लाइये” इस प्रकार अनेकानेक वेद मन्त्र इसी बात को कहते हैं ।

तदर्थं स्त्रीयशक्तीनां विकासः सञ्चयस्तथा ।

श्रमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥ ५० ॥

चारिद्र्यस्य विनिर्माणं विद्याया अर्जनं तथा ।

प्रथमं तस्य कर्तव्यं जायते प्रथमाश्रमे ॥ ५१ ॥

उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम आश्रम (= ब्रह्मचर्याश्रम) में उसका (= ब्रह्मचारी का) मुख्य कर्तव्य होता है : अपनी शक्तियों का विकसल और संचय, मन वाणी और शरीर के संयम के साथ श्रम और तप का आचरण, चरित्र का निर्माण और विद्या का उपार्जन ।

तपसा पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्बिषम् ।

तपसा वर्तमानः स उन्नतेर्भूर्भि तिष्ठति ॥ ५२ ॥

तप द्वारा वह (ब्रह्मचारी) अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र बनाता है । तप का आचरण करता हुआ वह उन्नति के शिखर पर आसीन होता है ।

तपसा निर्मलो भूत्वा परिपाकेण शुद्धधीः ।

द्वितीयमाश्रमं गत्वा सर्वस्येष्टे न संशयः ॥ ५३ ॥

तप से चरित्र की दुर्बलताओं को दूर कर और मनोविकास द्वारा तत्प्रावगाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह द्वितीय गृहस्थ आश्रम में प्रवृष्ट होने पर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है ।

“ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्त्ति तस्मिन्देवा अधि निरवे समोदाः”^३ ।

“ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति”^४ ॥ ५४ ॥

१. ऐतरेयब्राह्मण १।१३। २. घामवेद पू० २।८।१५। ३. अथर्व० ११।२।२४।
४. अथर्व० ११।२।४।

“ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते” ॥ ५५ ॥

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाव्रत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्” ॥ ५६ ॥

इत्यादिवेदमन्त्रैश्च वैदिकोदात्तभाषया ।

ब्रह्मचर्यस्य माहात्म्यं रहस्यं चोपवर्ण्यते ॥ ५७ ॥

“ब्रह्मचर्य-व्रत को धारण करने वाला ही प्रकाशमान ब्रह्म (= समष्टिरूप ब्रह्म अथवा ज्ञान) को धारण करता है और उसमें समस्त देवता श्रोत-श्रोत होते हैं (अर्थात्, वह समस्त देवी शक्तियों से प्रकाश और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है)।”

“समिधा और मेखला द्वारा अपने व्रतों को पालन करता हुआ ब्रह्मचारी धर्म और तप के प्रभाव से लोकों को आपूरित करता है (अर्थात्, समस्त राष्ट्र के उत्थान में सहायक होता है)।”

“ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण में लेने की योग्यता और क्षमता को संपादन करता है ।”

“ब्रह्मचर्य के तप से ही देवताओं ने मृत्यु को दूर भगा दिया है । ब्रह्मचर्य द्वारा ही इन्द्र ने देवताओं को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है (अर्थात्, संयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही अपनी इन्द्रियों को पुष्ट और कल्याणोन्मुख बनाने में समर्थ होता है)।”

इत्यादि वैदिक मन्त्र अपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मचर्य की महिमा और रहस्य का वर्णन करते हैं ।

प्रासादस्य विनिर्माणे मूलभित्तिरपेक्ष्यते ।

तथैव जीवनस्यादौ ब्रह्मचर्यमपेक्ष्यते ॥ ५८ ॥

जैसे किसी महल के बनाने में नींव की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार जीवन के आरम्भ में ब्रह्मचर्य की अपेक्षा होती है ।

ब्रह्मचर्यव्रतं चीर्णं यैस्तैरेव तपस्विभिः ।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो जीवने लभ्यते ध्रुवम् ॥ ५९ ॥

तप के रूप में ब्रह्मचर्य के व्रत को पूर्ण करने वाले मनुष्य ही निस्सन्देह जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं ।

इत्येवमाश्चर्यमयं महर्षे-

चित्रस्य श्रुत्वा तु षचो गभीरम् ।

अपास्तशङ्कः सुतरां प्रसन्न-

स्तत्कार्यसिद्धये व्रतमग्रहीपम् ॥ ६० ॥

इस प्रकार मानो महर्षि के चित्र के गम्भीर वचनों को सुनकर मेरी शंकाएँ दूर हो गयीं, और मैं ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए व्रत ले लिया ।



(२)

व्रतमात्मविशुद्धये

व्रत से आत्मशुद्धि

ऊपर की रचना में भ्रमचर्य-व्रत के वर्णन के अन्त में व्रत ग्रहण की बात भी कही गयी है । इसीलिए व्रताचरण के महत्त्व को दिखाने वाली निम्नस्य रचना को यहाँ देना उचित प्रतीत होता है ।

जीवन के उत्थान और विकास के लिए आत्म-विश्वास और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है । आत्मिक शक्ति और आत्म-विश्वास अनुरासन, व्रताचरण और नियम पालन से ही प्राप्त हो सकते हैं । जीवन में व्रतों के ग्रहण और पालन का यही रहस्य है । इसी सिद्धान्त का विशदी-करण किसी व्रती के मुख से नीचे के पद्यों में कराया गया है:—

उत्तरोत्तरमुत्कर्षे जीवने लक्ष्यमुत्सुकः ।

प्रतिजाने चरिष्यामि व्रतमात्मविशुद्धये ॥ १ ॥

अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए मैं उत्सुक हूँ । आत्मवि-
शुद्धि या पवित्राचरण से ही यह हो सकता है । उस आत्म-विशुद्धि के लिए व्रताचरण
की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ।

व्रतानां पालनेनैव तद् गूढमात्मदर्शनम् ।

जायते यमिनां नूनमात्मनिश्वासकारणम् ॥ २ ॥

व्रतों के पालन से ही संयमी मनुष्यों को अरने उस गूढ स्वरूप का दर्शन होता है जो कि आत्म-विश्वास का कारण होता है ।

अभिप्राय यह है कि व्रतों के आचरण से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचानता है, और इसी प्रकार उसमें आत्म-विश्वास की भावना का उदय होता है ।

ऋषिभिर्मुनिभिश्चैव लोकानां मार्गदर्शकैः ।

सेवितो विततः पन्था एव नैत्रात्र संशयः ॥ ३ ॥

संसार को सन्मार्ग दिखाने वाले ऋषियों और मुनियों ने वास्तव में इसी प्रशस्त मार्ग का सेवन किया था ।

अभिप्राय यह है कि व्रताचरण द्वारा मनुष्य ऋषि और मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है ।

विश्वस्य विविधं कार्यं कुर्वन्नोऽत्र निरन्तरम् ।

व्रतानां पालनेनैव देवा अमृतभोजिनः ॥ ४ ॥

विश्व के विभिन्न कार्यों को निरन्तर नियमपूर्वक करने वाले अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताओं को व्रतों के पालने के कारण ही अमृत-भोजी (= अमृत अथवा अमृतत्व का सेवन करने वाले) कहा गया है । दूसरे शब्दों में, अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता विश्व के संचालनार्थ अपने अपने महान् व्रत अथवा कर्तव्य का अविचल-भाव से पालन करते हैं । इसी आधार पर उनको 'अमृत-भोजी' कहा गया है ।

अभिप्राय यह है कि व्रताचरण द्वारा ही मनुष्य को अपने अमृतत्व या शाश्वत जीवन का बोध हो सकता है ।

व्रतेन प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते ।

तथा च प्राप्यते श्रद्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ ५ ॥

व्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अथवा उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है । दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है । दक्षिणा से अपने जीवन के लक्ष्य अथवा आदर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य अथवा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है ।

अभिप्राय यह है कि व्रतों के पालने से ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँच सकता है ।

(३)

आत्मवत्तागुणोपेता सा शिक्षा ब्रह्मचारिणः

ब्रह्मचारी की शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा का प्रश्न बढ़ा गहन है । वर्तमान भारत की यह एक महती समस्या है । नीचे के पद्यों से इस समस्या के संबन्ध में कुछ प्रकाश अवश्य मिलेगा, ऐसी हमें आशा है :—

चारिद्र्येण समं शिक्षा श्रमेण तपसा तथा ।

अनुशासनसंजुष्टा सा लक्ष्यं ब्रह्मचारिणः ॥ १ ॥

चारिद्र्य, धर्म और तप के साथ तथा अनुशासन से युक्त शिक्षा ही ब्रह्मचर्य-
आश्रम में रहने वाले का लक्ष्य होती है ।

सर्वेषामपि भूतानां मूर्धन्यं पदमास्थितम् ।

साधनं सर्वसिद्धीनां यत्तन्मानुष्यकं मतम् ॥ २ ॥

आसुरीं वृत्तिसुत्स्रज्यं दैवं भाग्यमुपश्रितम् ।

यथा संपद्यते शिक्षा सा लक्ष्यं ब्रह्मचारिणः ॥ ३ ॥

समस्त प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित और सब सिद्धियों की एकमात्र साधन
मनुष्यता आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ कर जिस शिक्षा द्वारा दैवी प्रवृत्तियों को मारण
करती है वही ब्रह्मचर्य-आश्रम में रहने वाले का लक्ष्य होती है ।

शिक्षा या केवल स्वार्थ-बुद्धिं पुष्पाति सर्वथा ।

विषयेऽपिन्द्रियारामप्रवृत्तिर्बर्धते यथा ॥ ४ ॥

तां समूलं समुत्सार्य लोककन्याणवाम्यथा ।

आत्मवत्तागुणोपेता सा शिक्षा ब्रह्मचारिणः ॥ ५ ॥

जो शिक्षा सब तरह से केवल स्वार्थ-बुद्धि को पुष्ट करती है और जिसे विषयों में इन्द्रियों की आसक्ति बढ़ती है लोक-कल्याण की कामना द्वारा उसका समूल उन्मूलन कर के आत्मसंयम की भावना से युक्त शिक्षा ही ब्रह्मचारी का लक्ष्य होती है ।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो जीवनस्य यया भवेत् ।

सदाचारसमृद्धेश्च सौरभं मुमनोहरम् ॥ ६ ॥

सर्वलोकसमाकर्षिं देशव्यापि यया भवेत् ।

आशाप्रकाशसंयुक्ता सा शिक्षा ब्रह्मचारिणः ॥ ७ ॥

जिस से जीवन का उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो और जिससे सारे जगत् को आकृष्ट करने वाला सदाचार की समृद्धि का मुमनोहर सौरभ देशभर में फैल जाए, जीवन में आशावाद के प्रकाश को देनेवाली ऐसी शिक्षा ही ब्रह्मचारी का लक्ष्य होती है ।



(४)

ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम्

ब्रह्मचर्य की महिमा

उद्यमानस्य विवशं भायानां तीव्रधारया ।

आत्मविश्वासमाधत्ते ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥ १ ॥

भावों की तीव्र धारा में वेदस हो कर बहते हुए मनुष्य में जो आत्म विश्वास को उत्पन्न करता है उस ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ।

शारीरं मानसं वापि स्वास्थ्यमाध्यात्मिकं तथा ।

अभीष्टं चेत्तदा सर्वैर्ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥ २ ॥

यदि शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की इच्छा है तो सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ।

(५)

ब्रह्मचारिणः परेशस्तोत्रम्

ब्रह्मचारी की ईश्वर से प्रार्थना

शम्भो ! परेश ! मम वाचमिमं जुपस्व

संयोज्य पाण्डियुगलं विनयान्नतस्य ।

पापं विधुय शुभमार्गंरतो भवेयं

चारिश्यरक्षणपरो व्रतमाचरेयम् ॥ १ ॥

हे शम्भो ! हे परेश !

दोनों हाथ जोड़कर मैं विनय-पूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

मेरी इस वाणी पर कृपा-पूर्वक ध्यान दीजिए ।

मैं चाहता हूँ कि पाप को दूर करके मैं सदा शुभ मार्ग में रत रहूँ, और चारिष्य की रक्षा करते हुए अपने व्रत का पालन करता रहूँ !

शारीरमानसविकारकरालव्याधा-

विध्वंसनाय परनिर्वृत्तिसाधनाय ।

लोकद्वयेऽमिलपितार्थविवर्धनाय

प्रार्थीभवामि भगवन् ! व्रतिनां व्रताय ॥ २ ॥

हे भगवन् !

शारीरिक और मानसिक विकारों को

भयंकर वाधाओं को विध्वंस करनेवाले,

परम संतोष के साधनीभूत, और

लोक तथा परलोक में अनीष्ट अर्थों की वृद्धि करने वाले

ब्रह्मचर्य-व्रत के लिए

मैं आप से प्रार्थना करता हूँ ।

चेदापदां नु निवहः पतितोऽमितः स्यात्

चेत्कष्टजातमभितोऽभिगतं ततं स्यात् ।

प्रागप्रयागभयमप्युदितं भवेच्चेद्

याचे तथापि मम चित्तमनाकुलं स्यात् ॥ ३ ॥

अनन्त आपत्तियों के समूह के उपस्थित होने पर भी,
 चारों ओर बराबर वृष्टि से घिरे होने पर भी,
 प्राणों के चले जाने के भय के आ जाने पर भी,
 मैं प्रार्थना करत हूँ कि मेरा चित्त व्याकुल न हो ।

प्रावोक्ष्योपचितपर्वतमस्तके वा

मानातरङ्गकुलसंबुलसागरे वा ।

व्याघ्रादिर्हिसनियहाकुलकानने घा-

ऽन्यत्रापि देव ! सततं भवतः स्मरेयम् ॥ ४ ॥

पर्वत-श्रेणियों से युक्त महान् पर्वतों के शिखर पर,
 अथवा असंख्य तरंगों से व्याकुल समुद्र में,
 अथवा व्याघ्रादि हिंसक पशुओं के समूह से भयङ्कर कानन में,
 तथा अन्यत्र भी हे देव ! मैं सदा आपका स्मरण रखूँ ।

तिष्ठन् प्रजंश्च भगवन्नथवा शयानो

रात्रौ दिनेऽप्युपसि सायमथान्यदा वा ।

पातालवर्तिकुहरे दिवि वा पृथिव्यां

सर्वत्र ते स्थितिमहं कल्यानि भूमन् ! ॥ ५ ॥

हे भगवन् ! हे भूमन् ! (भूमन् = भगवन्, परमात्मन्)
 ठहरे हुए, चलते हुए, अथवा शयनार्थ लेटे हुए,
 रात में, दिन में, उप काल में, सायंकाल अथवा किसी दूसरे समय,
 पाताल की गुफा में, शुलोक अथवा पृथ्वी में—
 सर्वत्र मैं आप की स्थिति का अनुभव करूँ ।

द्वन्द्वानि यानि जगदीह शरीरिजातं

खिन्नं परं विदधते जगदीश ! नित्यम् ।

सोढुं क्षमो भवति तानि जनो यतोऽयं

सामर्थ्यमेतदसुलं मयि संनिधेहि ॥ ६ ॥

हे जगदीश्वर !

जो काम-त्रोषादि द्वन्द्व इस संसार में
 प्राणिवर्ग को सदा अत्यन्त खिन्न करते रहते हैं,
 उनको जिससे मैं दवा सकूँ
 उस अतुल सामर्थ्य को मुझ में सन्निहित कीजिए ।

अङ्गानि यानि मुनिभिः प्रतिपादितानि

कारुण्यवारिधिभिरात्महितोचितानि ।

योगस्य, तैरनुदिनं मनसो विशुद्धया

प्रज्ञाप्रसादमधिगन्तुमहं लपामि ॥ ७ ॥

करुणा के सागर मुनियों ने आत्म-हित-संपादन में उचित

योग के जिन अङ्गों का प्रतिपादन किया है,

उनसे मन की विशुद्धि द्वारा

प्रज्ञा-प्रसाद^१ की प्राप्ति के लिए मैं उत्सुक हूँ ।

१- 'प्रज्ञा-प्रसाद' का वस्तुतः क्या अभिप्राय है, इसका समाधान नीचे के पद्य में दिया गया है:—

योऽयं परेश ! मम चेत्तसि संप्ररूढो

दुर्वासनाप्रचयपाकप्रशान्मलौघः ।

तन्नाशनाय करुणां कुरु शंकर ! त्वं

तत्त्वस्वरूपमनघं मम येन भाति ॥ ८ ॥

हे परेश !

यह जो मेरे चित्त में दुर्वासनाओं के परिपाक से

मल का ढेर एकत्रित हो गया है,

उसके नाश के लिए हे शंकर ! आप कृपा करें,

जिससे परमतत्त्व के निष्पाप (= विशुद्ध) स्वरूप को मैं देख सकूँ ।

पापान्निवारय, विघेहि शमे मति मे,

सत्ये रतां समधिकं भयि घेहि मेधाम् ।

विश्वासमात्मनि जगद्धितसाधनोत्कां

निःस्वार्थबुद्धिमथ मे भगवन् ! प्रयच्छ ॥ ९ ॥

१. देखिए—“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि” (योगसूत्र २।२९) । अर्थात्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,—योग के ये आठ अंग माने जाते हैं ।

२. तु० “निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः । ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।” (योगसूत्र १।४७, ४८) । तथा “(निर्विचारवैशारद्ये सति) समाहितचित्तस्य सा प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव विमर्त्ति, न तत्र विपर्यास-गन्धोऽप्यस्ति ।” (योगसूत्र १।४८ पर व्यासभाष्य) ।


हे भगवन् !

पाप से हटाकर मेरी मति को शान्ति-प्रदान कीजिए;
सत्य में रत तीक्ष्ण भेषा को मुझ में स्थापित कीजिए;
आत्म-विश्वास के साथ-साथ जगत् के हित-
साधन में उत्कृष्ट निःस्वार्थ-सुद्धि को भी मुझे दीजिए ।

हे लोकेश ! दृशं सदा सकरुणां मय्यर्पयारामदां
हेलोन्मूलितपाप ! देहि भवतो भक्तिं सदा शर्मदाम् ।
येनाहं गुणिनां गणो तथ गुणान् गायेयमत्यादराद्
ये नाहंकृतचेतसां श्रुतिपर्यं यान्तीय शान्ता वरात् ॥ १० ॥
॥ इत्यमृतमन्थने लक्ष्यानुसन्धानं नाम प्रथमः परिस्त्रवः ॥

हे लोकेश ! मुझ पर सदा करुणामय तथा आनन्दप्रद दृष्टि डालिए;
सरलता से पाप को नष्ट करने वाले ! सदा कन्याण-कारिणी अपनी भक्ति को
दीजिए ।

जिससे मैं अत्यादर के साथ गुणियों के मध्य में आपके इन गुणों का गान कर सकूँ,
जो मानो दर से शान्त हुए अहंकारी लोगों के भ्रमण में नहीं आते हैं ।



विश्वस्य महात्मा गान्धी

सत्याहितावतामी अधिरदास्यादमीषमम् ।
 आदिमस्य वनेनेव भारतं, महदकुतम् ॥
 दिव्यतो महत्तमसो शोनीन्द्रापापयत् ।
 सर्वोदयनदानाय श्रुतिर्विबोधिताम् ॥

द्वितीयः परिस्रवः

जीवन-पाथेयम्

अग्ने ! नय सुपथा राये ।

(यजु० ४०।१६)

स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।

(ऋग्० ५।५।१।१५)

परि माम्ने ! दुश्चरिताद् बाधस्वा

मा सुचरिते भज ।

(यजु० ४।२८)

द्वितीय प्रवाह

जीवन-पाथेय

प्रवाशास्वरूप देव ! अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए हमें कल्याणमार्ग से ले चलिए ।

(यजु० ४०।१६)

सूर्य और चन्द्रमा के समान हम अपने जीवन-मार्ग पर सकुशल चलने रहें !

(ऋग्० ५।५।१।१५)

अग्निस्वरूप देव ! मुझे दुश्चरित से बचाकर सुचरित में स्थापित कीजिए ।

(यजु० ४।२८)

(६)

आदर्शचिन्तनम्

आदर्श-चिन्तन

सफल जीवन यात्रा के लिए आदर्श-चिन्तन, सदसद्विवेचन में समर्थ बुद्धि, स्वकर्तव्य परिज्ञान, आत्म-विश्वास, आशावाद और साथ ही विश्व को नियन्त्रण में रखने वाली आद्य महाशक्ति के साक्षिध की भावना की महती आवश्यकता है। इसी विद्वान्त का विशदीकरण नीचे के पद्यों में किया गया है।

सौभाग्यमेतदतुलं मम येन लब्धं
मानुष्यकं प्रभुप्रसादललामभूतम् ।
याचे तमीशमधुना सदसद्विचारो-
द्युक्तां धियं सफलताधिगमाय तस्य ॥ १ ॥

मेरा यह अद्वितीय सौभाग्य है जिससे मुझे भगवान् के उत्कृष्ट प्रसाद के रूप में मनुष्यता प्राप्त हुई है। मैं अब उसकी सफलता के लिए ईश्वर से सदसद् के विचार (विवेक) में तत्पर बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ।

याचे सुदुर्मुहुरहं तमजं परेशं
सत्ये दृढामथ विवेकर्तां सुबुद्धिम् ।
मागे वचतिशेषमे निजजीवनस्य
कर्तव्यपालनपरः कुशली प्रजेयम् ॥ २ ॥

उप आनादि परमेश्वर से मैं धार-धार सत्य में रह और निरंशुद सु-मुने की पापना करता हूँ, जिसकी सहायता से मैं कर्तव्यों का पत्र सने हूँ।
जीवन के अत्यन्त कठिन मार्ग पर सज्जाल यात्रा कर सके।

जन्माप्य लोफ इह बुद्धिमता जनेन
 मार्गः स एव सुतरामयलम्बनीयः ।
 फर्तव्यपालनपुरःसरमेव येन
 कल्याणमेव लभतेऽत्र परत्र चापि ॥ ३ ॥

इस लोक में जन्म पाकर बुद्धिमान् मनुष्य को दृढता से उसी मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए जिससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण की प्राप्ति हो ।

रे रे मनो ! विस्तृज दैन्यमिदं दुरन्त
 नैराशयमाहुरिह सर्वविनाशहेतुम् ।
 आशावर्ता घृतिमतां मत एव लोको
 विश्वासमात्मनि च ये नियतं भजन्ते ॥ ४ ॥

अधि मन ! इस दुःखदायिनी दीनता को छोड़ दे । निराशा-वाद की भावना सर्व विनाश का कारण होती है । यह लोक उन्हीं के लिए है जो आशावादी तथा धृति वाले हैं और जिनको निश्चय रूप से अपने में विश्वास है ।

रक्षां चकार जननीजठरे स्थितस्थ
 स्तन्यं च एव तदनु स्तनयोः समर्ज ।
 संवर्ध्य मां घटुविधैरितरैः प्रकारै-
 र्देवेन तेन न हि सप्रति विस्मृतोऽहम् ॥ ५ ॥

माता के गर्भ में रहते हुए जिन्होंने मेरी रक्षा की थी,
 तत्पश्चात् माता के स्तनों में जिन्होंने दुग्ध उत्पन्न कर दिया था,
 अन्य अनेक प्रकारों से भी मेरा संवर्धन करके,
 उन विश्वम्भर भगवान् ने अब मुझे भुला नहीं दिया है ।

—०—

चारित्र्य-संपत्तिः

चारित्र्य-संपत्ति

(७)

चारित्र्यमात्मनः स्वास्थ्यम्

चारित्र्य और आत्मा का स्वास्थ्य

जीवन में चारित्र्य ही मनुष्य का सर्वस्व है । प्रत्येक मनुष्य की मुख्य पैंथी उसका चरित्र होता है । उसी के स्वरूप का कई दृष्टियों से प्रतिपादन नीचे के पन्नों में किया गया है—

सुरम्यं कुसुमं दृष्ट्वा

यथा सर्षः प्रसीदति ।

प्रसन्नानपरान् दृष्ट्वा

तथा त्वं सुप्तमाप्नुयाः ॥ १ ॥

सुन्दर फूल को देखकर जैसे सब कोई प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही दूसरों को प्रसन्न देखकर तुमको प्रसन्नता होनी चाहिये ।

प्रसन्नानपरान् दृष्ट्वा यस्यान्तर्नं प्रसीदति ।

अप्रसन्नांस्तथा दृष्ट्वा यस्यान्तर्नं विपीदति ॥ २ ॥

नूनं तस्यात्मनोऽस्वास्थ्यं कारणं तत्र विद्यते ।

अस्वस्थस्य जनस्येह द्राक्षापि विरसायते ॥ ३ ॥

दूसरों को प्रसन्न देखाकर जिसका मन प्रसन्न नहीं होता और अप्रसन्न देखकर जिसके मन में पीड़ा नहीं होती, निश्चय ही उसको आत्मा को अस्वस्थता इसका कारण है । अस्वस्थ मनुष्य को दास भी स्वाह में बुरी लगती है ।

ततः सदात्मनः स्वास्थ्यवृत्ते यत्रपरो भय ।

तदर्थमात्मनो हीनमाप्रनाया विपन्नम् ॥ ४ ॥

तथा चैवाभिमानस्य दुरन्तस्यापसारणम् ।

कर्तव्यं प्रथमं तावन्मन्यते तत्स्वदर्शिभिः ॥ ५ ॥

इसलिए आत्मा की स्वस्थता के लिए सदा प्रयत्नशील रहो । इसके लिए तत्स्वदर्शियों के मतानुसार पहला कर्तव्य यह है कि मनुष्य अपनी हीनभावना छोड़ दे और परिणाम में दुःख-दायी अभिमान को भी भगादे ।

अभिमानेन मृदत्त्वात्मानो हीनभावना ।

आत्मनः स्वास्थ्यनाशस्य द्वयमेवात्र कारणम् ॥ ६ ॥

आत्मा की स्वस्थता का नाश दो ही कारणों से होता है । वे हैं—(१) अभिमान से होने वाला मोह, और (२) अपने को हीन या तुच्छ समझना ।

देहस्वास्थ्यकृते लोकाः सप्रयत्ना निरन्तरम् ।

तत्मूलमात्मनः स्वास्थ्यमिति ते नैव जानते ॥ ७ ॥

संसार में मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते हैं । पर वे इस बात को नहीं जानते कि शारीरिक स्वास्थ्य का मूल कारण आत्मा की स्वस्थता ही होती है ।

विकारा मानसाः सर्वेऽस्मिन् आत्मन्यसशयम् ।

आप्तुवन्ति पदं, तस्मादात्मस्वास्थ्यपरो भवेत् ॥ ८ ॥

यह निश्चय है कि आत्मा के अस्वस्थ होने पर ही मन के समस्त दुर्विकार उत्पन्न हुआ करते हैं । इसलिए मनुष्य को सब से पहले आत्मा की स्वस्थता के लिए ही प्रयत्न-शील होना चाहिए ।

चारिद्र्यमात्मनः स्वास्थ्य, जीवनस्य कृतार्थता ।

सत्रैव विद्यते, तस्मात्तदर्थं यत्नमाचरेत् ॥ ९ ॥

आत्मा की स्वस्थता किस को कहने हैं ? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य के उत्तम चरित्र को ही आत्मा की स्वस्थता समझना चाहिए । मनुष्य-जीवन की सफलता उसी में रहती है । इसलिए मनुष्य को चरित्र की उदात्तता के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

१ तु० "परामर्शस्य हेतुमुक्तं ददन्निमानम्" (शतब्रह्मसूत्रम् ५।१।११) ।

२ तु० "तत्त्वज्ञानमव्ययम्" (मनुस्मृति १।१।२७) । "मायर्हस्याः स्वयत्कामनम्" (मनुस्मृति ८।८४) ।

(८)

चारित्र्यं नरवृक्षस्य सुगन्धि कुसुमं शुभम् चारित्र्य-वर्चा

चारित्र्य के ही महत्त्व को दिखलाने का नीचे के पद्यों में यत्न किया गया है:—

चारित्र्यं परमो धर्मश्चारित्र्यं परमं तपः ।

चारित्र्यस्य प्रभावेण तमस्तरति दुरतरम् ॥ १ ॥

चारित्र्य परमधर्म है । चारित्र्य परमतप है । चारित्र्य के प्रभाव से ही मनुष्य मोह और जडता (= अकर्मण्यता) के दुस्तर अन्धकार को पार कर सकता है ।

चारित्र्यं नरवृक्षस्य सुगन्धि कुसुमं शुभम् ।

आकर्षणं तथैवात्र लोकानां रञ्जनं महत् ॥ २ ॥

चारित्र्य मनुष्य-रूपी वृक्ष का सुन्दर सुगन्धित पुष्प है । अर्थात्, जैसे किसी फूलने वाले पौधे का उत्कृष्ट सौन्दर्यमय सारांश पुष्प रूप में विकसित होता है, इसी तरह मनुष्य-जीवन का उत्कृष्ट सुन्दर रूप या परम ध्येय उदात्त चरित्र ही है ।

सुन्दर सुगन्धित पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सब को अपनी ओर आकृष्ट करता है और सब की प्रसन्नता प्रदान करता है ।

यथा हि लौकिकाः स्वीय धनं रक्षन्त्यतन्द्रिताः ।

चारित्र्यस्य तथा रक्षा विधेयोत्कर्षमिच्छता ॥ ३ ॥

इस लिए, जैसे सांसारिक लोग बड़ी सावधानता से अपने धन की रक्षा करते हैं, इसी तरह जो अपना उत्कर्ष चाहता है उसे चारित्र्य की रक्षा करनी चाहिए ।

(६)

विमुखा हन्त मानवाः !

चारित्र्य की उपेक्षा

जीवन में चारित्र्य का अत्यन्त महत्त्व होने पर भी मनुष्य उसकी उपेक्षा करते हैं। वास्तव में यह आत्मघात के समान है। इसी बात को नीचे के पद्यों में दिखाया गया है:—

शरीरमिदमस्थायि जानन्तोऽपि जना ध्रुवम् ।

तत्स्वास्थ्यस्य कृते यन्नान् विधिधानाचरन्ति वै ॥ १ ॥

अन्तःशरीरं यत्त्वेतज्जन्मजन्मान्तरेष्वपि ।

स्थासु तत्स्वास्थ्यसम्बन्धे विमुखा हन्त ! मानवाः ॥ २ ॥

मनुष्य यह जानते हैं कि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। तो भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वे तरह-तरह के यत्न किया करते हैं। पर यह खेद की बात है कि यद्यपि मनुष्य का चारित्र्यरूपी अन्तःशरीर जन्म-जन्मान्तर में स्थायी रहने वाला है तो भी उसके स्वास्थ्य की मनुष्य परवा नहीं करते।

उत्पद्यन्ते शरीरेऽस्मिन् विकारा ये निरन्तरम् ।

प्रायेणोपशमं यान्ति किञ्चित्कालादनन्तरम् ॥ ३ ॥

परमन्तःशरीरेऽस्मिन् चारित्र्याख्येऽतिरोहितम् ।

विकाराः सकृदुत्पन्नाः प्रायस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ ४ ॥

इस शरीर में जो रोगादि विकार यथावर होते रहते हैं, वे कुछ काल के अनन्तर प्रायेण शान्त हो जाते हैं। पर यह कौन नहीं जानता कि इस चारित्र्यरूपी आभ्यन्तर शरीर में जो विकार एक बार उत्पन्न हो जाते हैं वे प्रायः सदा रहते हैं; अर्थात्, उनको हटाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मनुष्य को चरित्र शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए।

—

(१०)

गृहरूपं मनोऽस्माकम्

भाव-संशुद्धि

भाव संशुद्धि चारित्र्य का मुख्य अंग है । भाव-संशुद्धि की क्यों आवश्यकता है ? इसी का उत्तर नीचे के पद्यों में दिया गया है :—

गृहरूप मनोऽस्माकं

स्वच्छं शान्तं भवेद्यथा ।

तत्परेण मनुष्येण

प्रयत्नः क्रियतां तथा ॥ १ ॥

हमारा मन एक प्रकार से हमारा घर है । वह हमारा गृह रूपा मन जैसे भी स्वच्छ और शान्त रह सके, उसके लिए हमें तत्पर होकर प्रयत्न करना चाहिए ।

सोपद्रवं तथास्वच्छं दुर्गन्धेन समाचितम् ।

अभद्रदर्शनं देशमाष्युपितः कः सुखं व्रजेत् ॥ २ ॥

भावसंशुद्धिमेतस्मात्सीमनस्यं तथैव च ।

सद्विचारसमृद्धिं च समीहन्ते मनीषिणः ॥ ३ ॥

उपद्रव या कोलाहल से युक्त, अस्वच्छ, दुर्गन्ध से भरे हुए और देखने में अभद्र या भद्दे घर में रह कर कौन सुखी हो सकता है ?

इसीसे मनीषी लोग भाव संशुद्धि, सीमनस्य और सद्विचारों की समृद्धि को चाहते हैं ।

अभिप्राय यह है कि स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए जैसे शान्त, स्वच्छ और सुन्दर घर की आवश्यकता होती है, उसी तरह आध्यात्मिक शान्ति और प्रसन्नता के लिए भाव संशुद्धि आदि मानसिक गुणों की आवश्यकता है ।

स एष परमः स्वार्थो दोषसस्पर्शवर्जितः ।

परार्थजीवनस्यापि पात्रता तत्र जायते ॥ ४ ॥

भाव-संशुद्धि आदि उपर्युक्त मानसिक गुणों की प्राप्ति ऐसा उरुष्ट 'स्वार्थ' है जिस के साथ दोष का सस्पर्श भी नहीं है । इस 'स्वार्थ'-सिद्धि के हो जाने पर ही

मनुष्य में परार्थ-जीवन की पात्रता आती है। अर्थात्, उक्त उदात्त गुणों से युक्त मनुष्य में ही वास्तव में दूसरों के हित के लिए कार्य करने की योग्यता होती है।

वस्तुतस्तत्पदं पुण्यं यत्र स्वार्थपरार्थयोः ।

एकत्वं जायतेऽद्वैतं तदेवाहुर्विचक्षणाः ॥ ४ ॥

वास्तव में मनुष्य के चरित्र की बढ़ी स्थिति पवित्र और उत्कृष्ट होती है जिसमें स्वार्थ और परार्थ की एकता या अभिन्नता हो जाती है। विद्वान् लोग उसी अवस्था को 'अद्वैत' की स्थिति कहते हैं।



(११)

सद्दिचाराः प्ररोहन्ति शुभसंकल्पवारिणा

सद्दिचारों का विकास

सद्दिचारों की धारिण्य का शरीर कहना चाहिए। उनका विकास कैसे हो सकता है इसी बात को नीचे के पद्यों में समझाने का यत्न किया गया है:—

क्षेत्रे विना प्रयत्नेन

पन्यवृणसमुद्भवः ।

भूयो भूयः कृपेः पक्षे

महानर्थाय जायते ॥ १ ॥

सब कोई जानते हैं कि प्रत्येक खेत में जंगली घास-पात बिना प्रयत्न के ही बारबार उगती रहती हैं और इससे खेती की बड़ी हानि होती है।

कृपकस्य प्रयत्नेन सावधानस्य नित्यराः ।

वारणं क्रियते तेषां कृपे रक्षा च जायते ॥ २ ॥

सावधान किसान बराबर प्रयत्न पूर्वक उस जंगली घास पात को निकालता रहता है और इसी प्रकार खेती की रक्षा की जाती है।

एवं चित्ते स्वभावेन नानादुर्वासनोदयः ।

जायमानो मनुष्यस्य क्लेशसन्ततिकारणम् ॥ ३ ॥

इसी प्रकार मनुष्य के चित्त में स्वभाव से ही अनेकानेक दुर्वासनाएँ पैदा होती रहती हैं और उनके कारण उसको बराबर क्लेशों का अनुभव करना पड़ता है ।

केवलं तत्र यत्नेन भूयोभूयः कृतेन वै ।

निरोधः शक्यते कर्तुं तासामुन्मूलनं तथा ॥ ४ ॥^१

इस स्थिति में केवल बार-बार किने गये यत्न से ही उनका निरोध और उन्मूलन किया जा सकता है ।

धीरैकत्साहसम्पन्नेः श्रद्धाविश्वासधारिभिः ।

कर्तुं तत्पार्थते, नैव संशयाविष्टमानसैः ॥ ५ ॥

यह कार्य (दुर्वासनाओं का निरोध और उन्मूलन) श्रद्धा और विश्वास को धारण करनेवाले उत्साही धीर-वीरों द्वारा ही किया जा सकता है । जिनके मन में संशय पैदा हुआ है वे इस कार्य को नहीं कर सकते ।

वासना याः शुभोदका

विचारा ये च साधवः ।

कुशलं तत्र रोहन्ति

स्वच्छे चित्ते न संशयः ॥ ६ ॥

शुभ परिणाम को उत्पन्न करनेवाली वासनाएँ और अच्छे विचार स्वच्छ चित्त में ही अच्छी तरह पनपते हैं, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता ।

तस्य देवस्य सवितुः प्रसवानां य ईशिता ।

प्रकाशप्रेरणां लब्ध्वा वस्तुतो जीवनप्रदाम् ॥ ७ ॥

नष्टा ये दुष्टसंस्कारास्तेषां खाद्येन नित्यशः ।

सद्विचाराः प्ररोहन्ति शुभसंकल्पवारिणा ॥ ८ ॥

समस्त उत्पत्तियों के स्वामी उन सवितु देव से वस्तुतः जीवन को देनेवाली प्रकाश की प्रेरणा को पाकर, जो दुष्ट संस्कार बराबर नष्ट होते जाते हैं उनके खाद्य (= खाद) से, और शुभ संकल्पों के जल से मनुष्य के चित्त में सद्विचार उगते और बढ़ते हैं ।

१. तु० "अविद्यास्मितारागद्वेषाभिवेशा पञ्च क्लेशाः । ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । ध्यानहेयास्तद्दृश्यम् ।" (योगसूत्र २।२, १०, ११)

अभिप्राय यह है कि अच्छी चेतों के लिए जैसे सूर्य-प्रकाश, खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मनुष्य के चित्त में सद्दिचारों की उत्पत्ति और पुष्टि के लिए मगवान् की प्रेरणा (या कृपा), दुष्ट संस्कारों का नाश और शुभ-संस्कार (मयशा-सूर्य-प्रकाश, खाद और पानी के स्थानीय), इनकी आवश्यकता होती है ।

उच्छ्रेया याश्च संरक्ष्या वासनास्तत्र संस्थिताः ।

तासां विवेकः प्रथमं बुद्धिमद्भिरपेक्ष्यते ॥ ९ ॥

इस कार्य में सबसे पहले चित्त में रहनेवाली उच्छेदनीय (= जिन का उन्मूलन करना है) और संरक्षणीय (= जिन की रक्षा करना अपेक्षित है) वासनाओं में परस्पर विवेक करने की आवश्यकता बुद्धिमानों को होती है ।

चित्तभूमौ प्रयत्नेन पोषितैवं निरन्तरम् ।

सद्दिचारकृपिः कृष्टिः संस्कृतिर्वा मता युधैः ॥ १० ॥

इस प्रकार चित्तरूपी भूमि में धराधर प्रयत्न-पूर्वक पोषित की गयी सद्दिचारों की कृपि को विद्वान् लोग 'कृष्टि' अथवा 'संस्कृति' समझते हैं ।

अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के सद्दिचारों की समष्टि को ही 'संस्कृति' अथवा 'कृष्टि' इन शब्दों द्वारा कहा जाता है ।

अक्षय्यममृतं पुण्यं दिव्यानन्देन संयुतम् ।

तत्फलं तेन धनिनस्ते धन्यास्ते मनीषिणः ॥ ११ ॥

उपर्युक्त सद्दिचारों की कृपि का फल अक्षय्य, अमृत, पवित्र और दिव्य आनन्द से युक्त होता है । उस फल से जो धनी हैं वे धन्य हैं, वे मनीषी हैं ।

अभिप्राय यह है कि लोक प्रसिद्ध कृपि से मनुष्यों को साधारण अन्नादि का लाभ होता है, परन्तु उपर्युक्त सद्दिचारों की कृपि से जो फल प्राप्त होता है वह अक्षय्य आदि गुणों से युक्त होने के कारण अन्नादि से कहीं घट-बढ़ कर होता है ।

कृपया परयाविष्टो दर्शं दर्शं भवाम्यहम्

मद-मोह से ग्रस्त मनुष्य

मद और मोह चारित्र्य के बाधक हैं । अत एव मद-मोह से ग्रस्त मनुष्यों की दयनीय दशा को नीचे के पद्यों में दिखलाया है :—

आवासस्थानभूता ये प्रायेण मदमोहयोः ।

तृणाय मन्यमाना वा अन्याननतिवैभवान् ॥ १ ॥

तत्तद्भौक्तिककार्येषु लिप्तांस्तान् क्षिप्रचेतसः ।

उच्चावचपदस्थान्वा नानोपायैर्घनार्थिनः ॥ २ ॥

अवशानयसन्नांश्च विवेकविधुरान्नरान् ।

कृपया परयाविष्टो दर्शं दर्शं भवाम्यहम् ॥ ३ ॥

प्रायेण मद और मोह से युक्त होकर

जो वैभव हीन दूसरे लोगों को तृणतुल्य समझते हैं,

उन लौकिक कार्यों में झूठे हुए, व्यग्रचित्त,

अच्छे-दुरे उपायों से धन-संग्रह में संलग्न,

कामनाओं से परवश, अत एव क्षिप्त,

विवेक हीन, ऊँचे-नीचे पदों पर आसीन लोगों को

देख-देख कर मुझे बड़ी कृपा आती है ।

रोगेण महताक्रान्तः पीडया वा प्रपीडितः ।

नष्टसंज्ञोऽथवास्यस्यो यथा, तद्वद्वि ते मताः ॥ ४ ॥

बड़े रोग से आक्रान्त, अथवा पीडा से पीडित, अथवा नष्टचेतन, अथवा अस्वस्थ मनुष्य के समान ही वे मुझे प्रतीत होते हैं ।

जीवनेऽस्मिन् महाँल्लामः स्वान्तस्तोषो निगद्यते

अन्तरात्मा का अविरोध

चारित्र्य के लिए मनुष्य के आचरण और अन्तरात्मा में परस्पर अविरोध की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसी को 'आत्मनस्तुष्टिः' या 'आत्मतुष्टि' कहा है। इसी का वर्णन नीचे के पद्यों में किया गया है।

जीवनेऽस्मिन् महाँल्लामः स्वान्तस्तोषो निगद्यते ।

स्थस्यान्तरात्मना सार्धमविरोधे तदिष्यते ॥ १ ॥

इस जीवन में सब से बड़ा लाभ अपनी अन्तरात्मा का संतोष ही है। अन्तरात्मा के साथ मनुष्य के अविरोध से ही वह प्राप्त होता है।

यतस्तत्परमं सत्यं भास्वरं च निरञ्जनम् ।

अन्तः सत्यस्य सत्त्वस्य साक्षिरूपेण तिष्ठति ॥ २ ॥

क्योंकि वह प्रकाशमान विशुद्ध परम सत्य प्रत्येक प्राणी के अभ्यन्तर में साक्षिरूप से विराजमान है।

सालोक्यमथ सारूप्यं सायुज्यमथवा पुनः ।

अन्तस्तत्त्वेन तेनैव कल्याणेषुभिरिष्यताम् ॥ ३ ॥

जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको उसी आभ्यन्तर परम तत्त्व के साथ सलोकता, सरूपता अथवा एकीभाव प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए।

तत्त्वस्यानुमथस्तस्य मानवस्यैव जायते ।

ततः सर्वेषु भूतेषु श्रेष्ठं मानुष्यकं मतम् ॥ ४ ॥

अपने अन्दर रहनेवाले उस परम तत्त्व की अनुभूति केवल मनुष्य की ही होती है। इसी लिए मनुष्यता का पद सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है।



१. तु० "आत्मनस्तुष्टिरेव च" (मनुस्मृति २।६) ।

२. तु० "एकोऽह्नत्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते इत्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥" (मनुस्मृति ८।९१) । तथा "भावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ।" (मनुस्मृति ८।८४) ।

३. तु० "यथा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यथास्तमाः" (अथर्व० ६।५८।३) ।

सत्यं जयति सर्वत्र

सत्य की जय

सत्य ही चारित्र्य का आत्मा है । सत्य के बिना चारित्र्य रह ही नहीं सकता । उसी सत्य के स्वरूप का वर्णन निम्नस्थ पंक्तों में किया गया है :—

सत्यं जयति सर्वत्र नैवासत्यं कदाचन ।

तस्मात्सत्यपरो भूत्वा निर्द्वन्द्वो विचरेन्नरः ॥ १ ॥

सत्य की सर्वत्र जय होती है, असत्य की कभी नहीं । इसलिए मनुष्य को सत्य-परायण होकर निर्द्वन्द्व (= निर्भय अथवा निर्विरोध) भावना से जीवन-यात्रा करनी चाहिए ।

सत्ये स्वरूपसंरक्षणपलापी हि तिष्ठतः ।

तत्र स्वात्मविरोधोत्थदौर्मनस्थं न जायते ॥ २ ॥

सत्य में अपने वास्तविक स्वरूप की रक्षा और अनपलाप (= न छिपाना), दोनों रहते हैं । सत्य के रहने पर अपनी अन्तरात्मा के विरोध से उत्पन्न होनेवाली खिन्नता भी नहीं होती ।

अतस्तत्रात्मसंतोषो मनःस्वास्थ्यमकृत्रिमम् ।

सर्वैरप्यनुभूयेते निर्भयावस्थितिस्तथा ॥ ३ ॥

इसीलिए सत्य की स्थिति में आत्मसंतोष, मन की स्वाभाविक स्वस्थता और निर्भयता की अवस्था को सब अनुभव करते हैं ।

सत्याधारेण तिष्ठन्ति मनःस्वास्थ्योद्भवा गुणाः ।

मनःप्रसादः सौम्यत्वमार्जवं शान्तिरेव च ॥ ४ ॥

मन की स्वस्थता से उत्पन्न होनेवाले गुण, जैसे मनःप्रसाद, सौम्यता, मार्जवं और शान्ति, ये सत्य के आधार पर ही उद्भूत हैं ।

यथा प्रकाशो लोकानां हितमातनुने सदा ।

सत्यरीलास्तथा सन्तः परसन्तापहारिणः ॥ ५ ॥

जैसे प्रकाश से सदा लोको का हित होता है; इसी तरह सत्य-शील सगुण्य दूसरों के सन्तापों को हरनेवाले होते हैं ।

सत्यस्य हि प्रतिष्ठायां चारित्र्यं स्थितिमश्नुते

सत्य और चारित्र्य

चारित्र्य की दृष्टि से ही सत्य का वर्णन नीचे के पद्यों में भी किया गया है:—

स्वरूपे संस्थितिः सत्यमसत्ये तद्विरुद्धता ।

मृत्युरूपं ततोऽसत्यं सत्येऽमृतनिधिः स्थितः ॥ १ ॥

अपने स्वरूप में रहना ही सत्य है। असत्य में यह बात नहीं होती। इसी लिए असत्य मृत्यु के समान है और सत्य में अमृत की निधि रहती है।^१

सत्येन हि सहायेन ततो देवा निरन्तरम् ।

ऋतज्ञा अमृता विश्वभारं बिभ्रत्यतन्द्रिताः ॥ २ ॥

इस लिए सत्य की सहायता से ही अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवतागण ऋतज्ञ (= प्रकृति के अटल नियमों के अनुवर्ती) और अमृत^२ (= अमरणशील) कहे जाते हैं और अतन्द्रित होकर (= तत्परता से) निरन्तर विश्व के भार को वहन करते हैं।

सत्यरक्षाकृते तस्मात् सन्तः प्राणपणैरपि ।

तत्परा नियतं लोके दृश्यन्ते देवसन्निभाः ॥ ३ ॥

इसीलिए संसार में देवताओं के साथ समानता रखने वाले सत्यरूप भी प्राणपण से सत्य की रक्षा में सदा तत्पर दिखायी देते हैं।

सत्यस्य हि प्रतिष्ठायां चारित्र्यं स्थितिमश्नुते ।

सर्वे धर्माः क्षयं यान्ति यदि सत्यं न विद्यते ॥ ४ ॥

सत्य के रहने पर ही चारित्र्य की स्थिति हो सकती है। सत्य के न रहनेपर सब धर्म नष्ट हो जाते हैं।

सत्याश्रयेण लोकरय व्यवहारः प्रसिध्यति ।

सत्ये सत्येव विश्वासो व्यवहारस्तदुद्भवः ॥ ५ ॥

सत्य के सहारे पर ही लोक का व्यवहार चलता है। क्योंकि लोक-व्यवहार के लिए परस्पर विश्वास की आवश्यकता होती है और विश्वास सत्य के रहने पर ही हो सकता है।

१. इसीलिए "असतो मा सद्गमय" और "मृत्योर्नामृतं गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद् १.३।२८) ये दोनों श्रुतियाँ वास्तव में समानार्थक हैं।

२. तु० "देवा" "अमृता ऋतज्ञा." (ऋग्वे० १०।१५।१४)।

यथाऽभावस्य भावेन विरोधः शाश्वतो मतः ।

प्रकाशसंनिधाने हि तमः सद्यो निलीयते ॥ ६ ॥

यथा मनःप्रसादेन शोकोद्धेगौ विनश्यतः ।

तथासत्यस्य सत्येन सहभावो न सिद्धयति ॥ ७ ॥

जैसे अभाव का भाव के साथ शाश्वत विरोध है,
जैसे प्रकाश के होते ही अन्धकार तत्काल हट जाता है,
जैसे मनःप्रसाद से शोक और उद्वेग नष्ट हो जाते हैं,
ऐसे ही सत्य और असत्य एक साथ नहीं रह सकते हैं ।

43278

शरीर-स्वास्थ्यम्

इन्द्रिय-संयमश्च

शारीरिक स्वास्थ्य तथा इन्द्रिय-संयम

तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि ।

आयुर्वा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि ।

.....यन्मे तन्वा ऊर्जं तन्म आ पृण ॥

(यजु० ३१७)

अग्निदेव ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट कीजिए ।
तुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण आयु दीजिए । मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में जो
भी कमी हो उसे पूरा कर दीजिए ।

वाङ् म आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाहोर्बलम् ।

ऊर्ध्वरोजो जह्वयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा ॥

(अथर्व० १९।६०।१-२)

मेरे समस्त अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही मैं चाहता हूँ ।
मेरी वाणी, प्राण, अक्ष और कान अपना-अपना काम कर सकें । मेरे बाल काले

रहें। दाँतों में कोई रोग न हो। बाहुओं में बहुत बल हो। मेरी ऊड़रों में श्रोत्र
जोड़ों में वेग और पैरों में दृढ़ता हो।

अश्मा भवतु नस्तनूः ।

(यजु० २९।४९)

हमारी प्रार्थना है कि हमारे शरीर पत्थर के समान सुदृढ़ हों।

भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि ।

(ऋग्० १०।३७।६)

हम कल्याण मार्ग पर चलते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हों।

अहं सर्वमायुर्जीव्यासम् ।

(अथर्व० १९।७०।१)

मैं अपने जीवन में पूर्ण आयु को प्राप्त करूँ।

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुधरत्

पश्येम शरदः शतम् । जीवेम शरदः शतम् ।

भृशुयाम शरदः शतम् । प्रश्रवाम शरदः शतम् ।

अदीनाः स्याम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतान् ॥

वह देखो ! इन्द्रियों के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सबके चक्षुःस्थानीय प्रकाशमय
सूर्य भगवान् सामने उदित हो रहे हैं। उनसे स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हुए, हम सौ वर्ष
तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, सौ वर्ष तक सुन सकें, सौ वर्ष तक बोल सकें, सौ वर्ष
तक किसी के आश्रित न हों और सौ वर्ष के अनन्तर भी।

ऊपर दिये हुए वचनों से स्पष्ट है कि हमारे वैदिक काल्यम में शारीरिक स्वास्थ्य
और दीर्घायुष्य के प्रति कितनी गम्भीर आस्था है। वास्तव में लौकिक या पारमार्थिक
किसी भी दृष्टि से जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का अनिवार्य महत्त्व है। जीवन की
सफलता, चारित्र्य की दृढ़ता, उदात्त आदर्शों की भावना, इन सबका शारीरिक
स्वास्थ्य मूलधार है। शारीरिक स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबन्ध इन्द्रिय संयम से है। नीचे
की संख्या १६ से २२ तक की रचनाओं का संबन्ध इन्हीं दोनों विषयों से है:—

स्वस्थोऽहं नात्र संशयः

स्वास्थ्य का मन्त्र

मनुष्य के जीवन में शुभ संकल्पों और भावनाओं का बड़ा भारी स्थान है। हमारी शक्ति का स्रोत उन्हीं में निहित रहता है। निम्नस्थ दोनों पद्यों को इसी आशय से हम मन्त्र कह सकते हैं। दोनों की रचना अन्तःप्रेरणा से ऐसे समय हुई थी जब हम स्वयं एक भयानक रोग से आक्रान्त थे और डाक्टरों की चिकित्सा से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारा विश्वास है कि उस समय हमारे पूर्णतया स्वास्थ्य-लाभ में निम्नस्थ विचारों ने आश्चर्यजनक सहायता की थी:—

(ओम्) स्वस्थोऽहं सर्वथा स्वस्थः

स्वस्थो नैवात्र संशयः ।

स्थस्थः सदा भविष्यामि

सत्यमेतद् द्रतं मम ॥ १ ॥

(ओम्) सूर्येण वायुना चैव देवैरन्यैश्च सर्वदा ।

रक्षितः सखिभावेन स्वस्थोऽहं नात्र संशयः ॥ २ ॥

मैं स्वस्थ हूँ, सर्वथा स्वस्थ हूँ ।

मेरे स्वस्थ होने में संशय के लिए कोई स्थान नहीं है ।

‘मैं सदा स्वस्थ रहूँगा’

यह मेरा सच्चा व्रत है ॥

सूर्य, वायु तथा अन्य देवतागण भी

सदा सहा रूप में मेरी रक्षा करते हैं ।

इसलिए मैं स्वस्थ हूँ,

इसमें कोई संशय नहीं है ॥

“अस्वस्थतरमृतमश्नु मेपजम्” (ऋग्० १।२३।१९), अर्थात्, जलों में अमृत का वास है, वे औषध-स्वरूप हैं। ‘सथिता...अपामीषां घायते’ (ऋग्० १।३।१९), अर्थात्, सूर्य बीमारी को भगाता है। इत्यादि वेदमन्त्रों से स्पष्ट है कि सूर्य आदि देवी शक्तियों हमें स्वास्थ्य का प्रसाद देने के लिए सदैव सज्ज रहती हैं।

(१७)

न शरीरकृते वयम्

हम शरीर के लिए नहीं हैं

स्वास्थ्य के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन नीचे के पद्यों में किया गया है :—

ब्रह्मचर्यं महान् धर्मो ब्रह्मचर्यं परं तपः ।

ब्रह्मचर्यप्रसादेन तमश्वरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

शरीरमिदमस्मभ्यं न शरीरकृते वयम् ।

तदेतत्तत्त्वतो ज्ञात्वा नरः फल्याणमश्रुते ॥ २ ॥

ब्रह्मचर्यं महान् धर्म है । ब्रह्मचर्यं परम तप है ।

ब्रह्मचर्य के प्रसाद से मनुष्य दुस्तर मोहान्धकार को तर जाता है ।

यह शरीर हमारे लिए है, हम शरीर के लिए

नहीं हैं—

इसको ठीक ठीक समझ लेने से मनुष्य कल्याण को पाता है ।



(१८)

अतिकामन्नहो मोहादायुर्मर्माणि कृन्तति

स्वास्थ्य के नियम

यात्रायां जीयनस्यास्य शरीरं रथमुच्यते ।

इन्द्रियाणि ह्यनाहू रथस्यास्य मनीषिणः ॥ १ ॥

स्वस्थेनातः शरीरेण संयतैरिन्द्रियैर्ब्रजन् ।

लक्ष्यं यज्जीवनस्यात्र सुरं प्राप्नोति मानवः ॥ २ ॥

इस जीवन की यात्रा में मनीषी लोग शरीर को रथ और इन्द्रियों को घोड़े कहते हैं । इसलिए स्वस्थ शरीर तथा संयत इन्द्रियों से जीवन-यात्रा करता हुआ मनुष्य सुख-पूर्वक अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकता है ।

तत्राहारविहारेषु तथा स्वप्नावबोधयोः ।

व्यापारेषु तथान्येषु युक्तबुद्धिरपेक्ष्यते ॥ ३ ॥

उस के लिए आहार-विहार में, सोने-जागने में तथा अन्य कामों में भी युक्त बुद्धि की अपेक्षा होती है ।

याथातथ्येन संपन्नं सर्वं कार्यं प्रशस्यते ।

धर्यायां जीवनेऽप्यस्माद् याथातथ्यमपेक्ष्यते ॥ ४ ॥

गीतायामेव एवार्थो युक्तशब्देन कथ्यते ।^१

युक्तैवोच्यते योगो योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५ ॥

याथातथ्य या औचित्य से जो कार्य किया जाता है वह प्रशंसनीय होता है । इसलिए जीवन-धर्या में भी याथातथ्य की अपेक्षा है । भगवद्गीता में इसी भाव को 'युक्त' शब्द से कहा गया है । युक्तता अथवा औचित्य को ही योग कहा जाता है^१ क्योंकि, काम करने में कुशलता का ही नाम 'योग' है ।

जानन्नप्यतिमूढोऽयं स्वास्थ्यस्य नियमानिमान् ।

अतिक्रामन्नहो मोहादायुर्मर्माणि कृन्तति ॥ ६ ॥

स्वास्थ्य के इन नियमों को जानता हुआ भी अतिमूढ मनुष्य इनका उल्लंघन करता है और इस प्रकार यह आश्चर्य की बात है कि स्वयं अपनी आयु के मर्म-स्थलों को काटता है ।



१. सु० "युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखरा ॥" (भगवद्गीता ६।१७) ।

२. सु० "योगः कर्मसु कौशलम्" (भगवद्गीता २।४०) ।

(१९)

शारीरं स्वास्थ्यमाश्रित्य सर्वमन्यत्प्रवर्तते

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए यत्र

शारीरं स्वास्थ्यमाश्रित्य सर्वमन्यत्प्रवर्तते ।

ततः स्वास्थ्यस्य यत्नेन परिरक्षा विधीयताम् ॥ १ ॥

चारिष्यं ब्रह्मचर्यं च संयमः श्रम एव च ।

साधनं प्रथमं तस्य पौष्टिकाहार एव च ॥ २ ॥

जीवन में सब कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर है । इसलिए यत्र से स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए । स्वास्थ्य रक्षा के मुख्य साधन हैं:—चारिष्य, ब्रह्मचर्य, संयत जीवन, श्रम और पौष्टिक भोजन ।



(२०)

यथोच्चैर्गगने गच्छन्

इन्द्रिय-संयम

यथोच्चैर्गगने गच्छन् पक्षी दृश्यैरनेकशः ।

अनाकृष्टः प्रयात्येव स्वाभीष्टं स्थानमप्रतः ॥ १ ॥

तथैव जीवने दृश्यैर्नैकैरादर्शमात्मनः ।

अविस्मरन् निरातङ्गो विचरेद्विजितेन्द्रियः ॥ २ ॥

जैसे गगन में ऊँचाई पर उड़ता हुआ पक्षी,
विभिन्न प्रकार के दृश्यों से आकृष्ट न होकर,
अपने अभीष्ट स्थान की ओर
आगे बढ़ता ही जाता है;
इसी प्रकार मनुष्य को, विभिन्न दृश्यों के कारण
अपने आदर्श को न भुलते हुए
और इन्द्रियों को बश में रखते हुए,
निस्सन्देह भाव से जीवन-यात्रा करनी चाहिए

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्

इन्द्रियों में प्रसक्ति

नृनं दृश्यस्य कस्यापि केनचित्परमार्थतः ।

कर्तुं न शक्यते सद्यः स्वरूपस्यानधारणम् ॥ १ ॥

किसी भी दृश्य के वास्तविक स्वरूप का अवधारण कोई भी तत्काल नहीं कर सकता ।

हर्म्यमेकं गत, साय रात्रौ वा तत्र सरिथतः ।

वस्तुतस्तन्न जानीते दिवा यावन्न परथति ॥ २ ॥

किसी बड़े मकान में सायकाल के समय पहुँच कर या रात्रि में वहाँ ठहर कर भी कोई उसके वास्तविक स्वरूप को तब तक नहीं समझ पाता है जब तक कि उसको दिन में नहीं देख लेता ।

सगते मनुजे सद्यो च्छभूपानिभूपिते ।

मनोज्ञे मधुरालापे विश्वासं तनुतेऽत्र क० १ ॥ ३ ॥

अच्छे वक्त्रों और आभूषणों से विभूषित, सुन्दर और मधुर-भाषी मनुष्य से मिलते ही तत्काल उसका विश्वास क्रीन कर लेता है ? अर्थात् कोई नहीं ।

इन्द्रियाणां ततः साद्य सत्य नेकान्ततो मतम् ।

परीक्षायास्ततः श्रेष्ठ्य गीयते तत्रवेदिभिः ॥ ४ ॥

इसीलिए इन्द्रियों का साद्य एकान्तत सत्य नहीं माना जाता है । इसीलिए तत्त्ववेत्ता लोग परीक्षा की श्रेष्ठता का गान करते हैं ।

अत एवाभियुक्ताना मतमेतन्मनीषिणाम् ।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥ ५ ॥

इसीलिए विचारशील मनीषियों का यह मत है कि इन्द्रियों में प्रसक्ति से मनुष्य निस्सन्देह दोष को प्राप्त होता है ।

‘द्विपन्ति देवाः प्रत्यक्षं परोक्षमियतां गताः’ ।’

सिद्धान्त. श्रुतिवाक्येषु श्रूयते यत्र तत्र वै ॥ ६ ॥

‘देवता प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं और परोक्ष ही उनको प्रिय होता है’ यह सिद्धान्त अनेकत्र श्रुतिवाक्यों में सुनाई देता है ।

१ तु० “परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्वेष ।” (शोषयत्राङ्गण १।१।१)

तत आपाततो रूपं दृष्ट्वा कस्यापि वस्तुनः ।

भावशास्त्रद्वयं गच्छेद् यात्रतन्नावधारयेत् ॥ ७ ॥

इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी वस्तु के रूप को आपाततः देखकर तब तक उसमें आसक्त या थनुरक्त न हो जाए जबतक उसके स्वरूप को ठीक-ठीक न समझ ले ।



(२२)

विचरोद्धिजितेन्द्रियः

जीवन-यात्रा

सुदीर्घस्पाध्वनः पारं गन्तुकामोऽत्र जीवने ।

स्वलक्ष्यैकमना नित्यं विचरोद्धिजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

स्पर्धायाः शश्रुताया वा रागस्याप्यथ कुत्रचित् ।

प्रसङ्गोऽवसरोऽप्येवमुपयोगो न विद्यते ॥ २ ॥

निरुद्देश्यं निरादर्शं कर्तव्येन विचर्जितम् ।

जीवनं धस्य, कामं स व्यर्थं तदतिशययेत् ॥ ३ ॥

जो मनुष्य इस जीवन के सुदीर्घ मार्ग को सफलता पार करना चाहता है, उसे इन्द्रियों को बश में रखते हुए सदा एकमात्र अपने लक्ष्य में मन लगाकर जीवन-यात्रा में अग्रसर होना चाहिए ।

इस जीवन यात्रा में किसी विषय के संबन्ध में स्पर्धा अथवा राग अथवा द्वेष का न तो प्रसङ्ग ही है, न अवसर (= अवकाश); और कोई उपयोग भी नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना इतना कठिन है कि वास्तव में मनुष्य को किसी के साथ स्पर्धा अथवा राग-द्वेष करने का न तो अवकाश ही मिल सकता है, न उनका कोई प्रसङ्ग उपस्थित होना चाहिए, और न उनसे उसको कोई लाभ ही होता है ।

हाँ, जिसका जीवन उद्देश्य-हीन, आदर्श-हीन और कर्तव्यता की भावना से रहित है, वह भले ही उसकी व्यर्थ की बातों में नष्ट करे !



कर्ममार्गः कर्म का मार्ग

केवल शुष्क ज्ञान या निरीह शुभ संकल्पों से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। उनकी वास्तविकता की परीक्षा कर्म की कसौटी पर ही हो सकती है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी संकट या आपत्ति से न घबड़ाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य बराबर धैर्य और उत्साह से कार्य करता रहे। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नीचे की रचनाओं (संख्या २३-२६) में किया गया है :-

(२३)

चतुरश्रेष्ठसंसिद्धिः

ज्ञान-पुरस्सर कर्म का महत्त्व

कर्मणा रहितं ज्ञानं पङ्गुना सदृशं भवेत् ।

न तेन प्राप्यते किञ्चित् न च किञ्चित्प्रसाध्यते ॥ १ ॥

कर्म से रहित ज्ञान एक पङ्गु के समान होता है। उससे न तो कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है; न कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है।

एवं ज्ञानेन हीनं यत् कर्मान्धेन समं स्मृतम् ।

मार्गो वा मार्गलक्ष्यं वा नैव तस्य प्रतीयते ॥ २ ॥

इसी तरह ज्ञान से रहित कर्म को एक अन्धे के सदृश समझना चाहिए। उसको मार्ग श्रयवा मार्ग का लक्ष्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता।

कर्मणा मनसा वाचा कर्तव्यं कर्म कुर्यातः ।

तस्मादेवेष्टसंसिद्धिश्चतुरस्रा प्रजायते ॥ ३ ॥

इसीलिए ठीक ठीक इष्ट की प्राप्ति उसी मनुष्य को होती है जो मन वाणी और कर्म से अपने कर्तव्य कर्म को करता है। अर्थात्, ज्ञान पुरस्सर कर्म से ही इष्ट की सिद्धि होती है।



१. तु० "ते य एवमेतद्दिदुः, ये वैतर्कर्म कुर्याते, मृत्वा पुनः संभवन्ति। ते संभवन्त एवाणुत्तमभिर्गभवन्ति। अथ य एवञ्च विदुर्मे वैतर्कर्म न कुर्याते, मृत्वा पुनः संभवन्ति। त एतस्यैवाप्तं पुनः पुनर्भवन्ति।" (शतपथब्राह्मण १०।४।३।१०)

(२४)

प्रायेण कल्पनालोके विचरन्तीह मानवाः

वर्तमान की उपेक्षा

वस्तुतो वर्तमानं यज् जगत्तत्परिहाय हा ! ।

प्रायेण कल्पनालोके विचरन्तीह मानवाः ॥ १ ॥

यह खेद का विषय है कि मनुष्य वस्तुतः वर्तमान या उपस्थित कर्तव्य के जगत् को छोड़कर प्रायेण कल्पना के लोक में ही घूमा करते हैं ।

उपस्थितं परित्यज्यानुसरन्तोऽनुपस्थितम् ।

मन्दप्रज्ञा हि वर्तन्ते बुधस्ताभ्यामिन्नन्दयेत् ॥ २ ॥

मन्दबुद्धि लोग ही उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित के पीछे दौड़ा करते हैं । समझदार मनुष्य को चाहिए कि उन लोगों को बढावा न दे ।

वर्तमानं समालम्ब्य वर्तते यदनागतम् ।

उपेक्षा वर्तमानस्य तस्मात्त्रैरोपयुज्यते ॥ ३ ॥

भविष्य का आधार वर्तमान ही होता है । इस लिए वर्तमान की उपेक्षा करना किसी प्रकार भी युक्त नहीं है ।

(२५)

धैर्यमालम्बनं श्रेष्ठम्

धैर्य का आलम्बन

आशङ्काकुलितैः कष्टं विना प्रायेण कारणम् ।

सहते, तत्तथले तस्माद् विद्वान् धैर्यं समाश्रयेत् ॥ १ ॥

धैर्यमालम्बनं श्रेष्ठम्, धैर्यमालम्बनं परम् ।

धैर्येण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २ ॥

आशङ्का यात्र से ब्याकुल होने वाले लोग प्रायः विना कारण के ही कष्ट को सहते हैं । इसलिए आशङ्का के अन्तर पर विद्वान् को धैर्य से काम लेना चाहिए ।

धैर्य सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है । धैर्य परम आलम्बन है । धैर्य की सहायता से मनुष्य घोर अन्धकार को पार करता है ।

[६०]

धीरा धैर्यधुरन्धराः

दुःखागम से कल्याण

पङ्कादुत्पद्यते पद्म-

महो रात्र्याः प्रजायते ।

प्रीप्सादनन्तरं वर्षा

विद्युन्मेघात्प्रजायते ॥ १ ॥

शुक्लपद्मसमारम्भः कृष्णपद्मादनन्तरम् ।

कण्टकाचितवृक्षेभ्यो मनोज्ञकुसुमोद्गमः ॥ २ ॥

दास्यात्स्वतन्त्रतावाप्तिः स्वास्थ्यं रोगादनन्तरम् ।

वारिद्र्यं संपदो भूमिरतपसः सिद्धिरित्येव च ॥ ३ ॥

फल्पागर्भात्समुत्पत्तिर्व्यासादीनां महात्मनाम् ।

शूत्रेभ्योऽपि सतां जन्म ज्ञानमहागानिनां तथा ॥ ४ ॥

वृत्तेऽस्मिन् दृश्यमाने तु सृष्टावस्थां समन्ततः ।

कस्यांचिद् दुःस्थितौ नैव नैराश्रयमुपयुज्यते ॥ ५ ॥

लोकेशस्य जगद्भर्तुर् विश्वकल्याणकारिणी ।

प्रवृत्तिर्धामतां शश्वच् छ्रद्धाविश्वासदायिनी ॥ ६ ॥

सर्वापि दुःस्थितिस्तस्मात् सुस्थितेरेव कारणम् ।

एवं दुःखागमो नूनं कल्याणायैव जायते ॥ ७ ॥

सिद्धान्तमिममाहित्य धीरा धैर्यधुरंधराः ।

निरासृष्टाः समुप्राप्त्यै प्रयतन्ते निरन्तरम् ॥ ८ ॥

१. पद्म से पद्म उत्पन्न होता है,
रात्रि से दिन का जन्म होता है,
प्रीप्स के पश्चात् वर्षा जाती है,
विद्युत् मेघ से जन्म लेती है ।

२. शुरुपक्ष का प्रारम्भ कृष्णपक्ष के अनन्तर होता है,
कोंटों से व्याप्त पौधों से सुन्दर पुष्पों का वट्टम होता है ।
३. दास्य से स्वतन्त्रता की प्राप्ति होती है,
रोग के पश्चात् स्वास्थ्य-लाभ होता है,
जहाँ दारिद्र्य है वहीं सम्पत्ति आती है,
कष्टमय तप से ही सिद्धि प्राप्त होती है ।
४. कन्या के गर्भ से ब्यासादि महात्माओं का जन्म होता है,
शूद्रों से भी सन्तों का जन्म होता है,
अज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है ।
५. इस सृष्टि में जब सब ओर यह बात दिखाई दे रही है,
तब किसी भी दुरवस्था में निराश होना उचित नहीं है ।
६. जगत् का पोषण करने वाले, लोकों के स्वामी भगवान् की
विश्व का कल्याण करने वाली प्रवृत्ति
बुद्धिमानों में सदा भ्रष्टा और विश्वास को उत्पन्न करती है ।
७. इसलिए 'सारी दुरवस्था अच्छी स्थिति का पूर्वरूप हुआ करती है,
एव दुःख का आगमन भी कल्याण के लिए ही हुआ करता है ।'
८. इसी सिद्धान्त का आश्रय लेकर
धैर्य-धुरन्धर धीर लोग निर्भयता के साथ
सदा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ।

—०००—

लोकनीतिः

व्यावहारिक नीति

जीवन में आदर्शवाद के साथ-साथ लौकिक वस्तु स्थिति और व्यावहारिक जगत् के परिचय की भी आवश्यकता होती है। इसी दृष्टि से निम्नस्थ रचनाओं (सख्या २७-३२) में संक्षिप्त रूप से आवश्यक लोक-नीति का वर्णन किया गया है:-

(२७)

विद्या समुन्नतिपथं विशदीकरोति

विद्या-वंदना

विद्या समुन्नतिपथं विशदीकरोति

बुद्धिं विचारविषये प्रखरीकरोति ।

कर्तव्यपालनपरां धियमादधाति

विद्या सखा परमबन्धुरथेह लोके ॥ १ ॥

विद्या उन्नति के मार्ग को स्पष्टतया दिखाती है;

विद्या विचारणीय विषयों में बुद्धि को तीक्ष्ण करती है;

विद्या बुद्धि को कर्तव्य-पालन में तत्पर बनाती है;

विद्या इस लोक में सखा और परम-बन्धु के समान है ।

रूपं प्रसिद्धं न युधास्तदाहु-

विद्या मता वस्तुत एव रूपम् ।

अपेक्षया रूपवतां हि विज्ञा

मानं लभन्तेऽतितरां जगत्याम् ॥ २ ॥

संसार में जिस को रूप कहा जाता है विद्वान् लोग उस को रूप नहीं मानते । वे तो विद्या को ही वास्तविक रूप समझते हैं । क्योंकि, रूपवानों की अपेक्षा संसार में विद्वान् लोग ही अधिक मान सत्कार को पाते हैं ।

धनं धनं नैव मतं वुधानां
 विद्यैव वित्तं मतमस्ति तेषाम् ।
 चौरौ न यां चोरयितुं समर्थौ
 भूपोऽपहतुं न च यां समर्थः ॥ ३ ॥

विद्वान् लोग धन को धन नहीं समझते । उनके मत में तो विद्या ही वास्तव में धन है । क्योंकि विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा ही उस को छीन सकता है ।

विद्या सकाशादपि प्राकृतस्या-
 देया सदा श्याद्यदि सा वरिष्ठा ।
 स्थानेऽप्यपूते पतितं सुवर्णं
 के नाम लोकेऽत्र परित्यजन्ति ? ॥ ४ ॥

उत्तम विद्या को साधारण व्यक्ति से भी ले लेना चाहिए । खरवित्र स्थल में भी पड़े हुए सुवर्ण को संसार में कोई नहीं छोड़ता ।

अघाप्य विद्या विनयेन शून्या
 अहंपरो दुर्जनतां प्रजन्ति ।
 दुग्धस्य पानेन भुजङ्गमानां
 विषस्य वृद्धिर्भुवनप्रसिद्धा ॥ ५ ॥

विनय-भाव से शून्य अभिमानों लोग विद्या को पाकर दुर्जनता को धारण कर लेते हैं । संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि दूध के पीने से सर्पों के विष की वृद्धि होती है ।

ईर्ष्यादयो ज्ञापति यावदन्त-
 रात्मस्वरूपायगमो न यावत् ।
 यावन्नरो नापि विवेकशाली
 भेदः क मूर्खे विदुषीह तावत् ॥ ६ ॥

जबतक मनुष्य के अन्दर ईर्ष्या लोभ मोह आदिक्र प्रारब्ध है, जबतक उस को आत्म-स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जबतक मनुष्य विवेक शाली नहीं है, तबतक विद्वान् बने जाने वाले व्यक्ति में और मूर्ख में कोई भेद नहीं है ।

अभ्यासशीलाः सुतरां जना ये

भवन्ति ते मन्दधियोऽपि विज्ञा ।

केनेह रज्ज्वा हि गमागमाभ्यां

शिलापि घृष्टा भुवने न दृष्टा ? ॥ ७ ॥

विशेषतया अभ्यास शील लोग, मन्द बुद्धि होने पर भी, विद्वान् हो जाते हैं ।
ऊँची मन में लगी हुई शिला भी रस्सी के जाने-आने से घिसजाती है, यह
किस ने नहीं देखा है ?

—

(२८)

सङ्गः सतां शर्मशतानि सूते

सत्सङ्ग-माहात्म्य

सङ्गः सतां शर्मशतानि सूते

सङ्गोऽसतां तद्विपरीतवृत्तिः ।

यस्तेजसां यस्तमसां स्वभावो

भेदस्तयोः सर्वजगत्प्रसिद्धः ॥ १ ॥

सत्पुरुषों का सङ्ग अनेक कल्याणों को जन्म देता है । असज्जनों का सङ्ग उस से
उलटा ही होता है । तेज के स्वभाव और अन्धकार के स्वभाव में जो अन्तर है उसे
सब कोई जानते हैं ।

सत्सङ्गमे तिष्ठति यन्महत्त्वं

तज्ज्ञायते दुर्जनसगमेन ।

मुखं हि दुःखानुभवेन भाति

दीपप्रकाशोऽपि घनान्धकारे ॥ २ ॥

सत्सङ्ग का जो महत्त्व है वह दुर्जन के सङ्ग से ही जाना जाता है । मुख का स्वरूप
दुःख के अनुभव से ही स्पष्ट होता है, एव योर अन्धकार में ही दीप प्रकाश का महत्त्व
स्पष्ट होता है ।

नीचोऽपि सङ्गेन सतां जनानां

महत्त्वमासादयति प्रकामम् ।

समुद्रशुक्लौ गतमम्बुदानां

प्राप्नोति मुक्ताफलतां जलं तत् ॥ ३ ॥

सज्जनों के सङ्ग से नीच मनुष्य भी विशेष महत्त्व को प्राप्त कर लेता है। यह प्रसिद्ध है कि समुद्र की शुक्ति में पड़ा हुआ बादलों का जल भोतियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है ।

समुज्ज्वलं प्रेम हि सज्जनानां

दिने दिने पोषमुपैति नूनम् ।

स्थिरस्वभावं सुतरामुदारं

ह्यासोन्मुखत्वं भजते न जातु ॥ ४ ॥

सज्जनों का समुज्ज्वल अर्थात् विशुद्ध प्रेम दिन-प्रतिदिन पुष्ट होता जाता है। स्थिर-स्वभाव और स्वार्थ की भावना से रहित होने के कारण यह कभी हासोन्मुख नहीं होता ।

आपन्निसमा अपि साधुवर्या

इरन्ति दुःखानि सदा परेषाम् ।

आच्छादितोऽहर्षतिरासमन्ता-

दध्रैस्तमो धारयतीह नूनम् ॥ ५ ॥

विशेषतया साधुस्वभाव वाले सज्जन स्वयं आपत्तियों में पड़े हुए भी सदा दूसरों के दुःखों को दूर करते हैं। सब ओर से बादलों से ढका हुआ भी सूर्य अन्यत्र को अवश्य दूर कर देता है ।

न दुर्जनानामपकृत्यमन्तः

सतां कदाचित्पदमादधाति ।

पादाहतोऽप्येव तरुर्निशालश्च

छायाश्रितानामपहन्ति तापम् ॥ ६ ॥

दुर्जनों का अपहरण सत्पुरुषों के हृदय में कभी स्थान नहीं पाता। यह समाने का विशाल वृक्ष, पत्तों से ताकित होने पर भी, अपनी छाया में श्रमियों के ताप को दूर कर देता है ।

कदर्थितोऽपीह खलेन साधुर्
 हितं परेषां नियतं करोति ।
 मुहुर्मुहुश्चन्दनमङ्ग ! घृष्टं
 मनोरमं सौरभमातनोति ॥ ७ ॥

दुष्ट मनुष्य द्वारा पीडित होने पर भी साधु मनुष्य सदा दूसरों की भलाई करता है । देखिए, बारवार घिसने पर चन्दन मनोङ्ग सुगन्ध को फैलाता है ।

द्राक्षेव केचिद्बहिरन्तरा चा-
 न्ये नारिकेलेन समं मनोज्ञाः ।
 सौवीरं तुल्या बहिरेव केचि-
 देवं मनुष्यास्त्रिविधा हि लोके ॥ ८ ॥

संसार में मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं । कोई तो द्राक्षा (= दाल) के समान बाहर और भीतर से मनोरम होते हैं; कोई नारियल के समान केवल भीतर से मनोरम होते हैं; और कोई पक्के-भीठे बड़े बेर के समान केवल बाहर से अच्छे होते हैं ।

प्राप्ते प्रसङ्गे मनुजस्वरूपं
 विज्ञायते, नेतरथा कथंचित् ।
 विद्रावणेनैव यथा जगत्या-
 माभूषणानां क्रियते परीक्षा ॥ ९ ॥

अवसर के उपस्थित होने पर ही मनुष्य का स्वरूप जाना जाता है; अन्यथा कभी नहीं । जैसे संसार में आग में पिघलाने से ही आभूषणों की परीक्षा की जाती है ।

इक्षोः प्रवृत्तेरनुगामिनस्ते
 सन्तो महान्तो विचरन्ति लोके ।
 प्रपीडितोऽपीक्षुरमन्दमोदं
 रसप्रदानेन सदा तनोति ॥ १० ॥

संसार में महान् एतदुष्य इक्षु के स्वभाव का अनुसरण करने वाले होते हैं । इक्षु पेरे जाने पर भी रस-देकर सदा विशेष आनन्द का प्रसार करता है ।

१. सु० "सौवीरं बहरं पोष्य" (अमरकोशे २।४।२७) । तथा "पच्यमानं क्षुमपुत्रं सौवीरं बहरं महत्" (भावप्रकाशे) ।

पदं वरेण्यं समुदान्ति सन्तोऽ-

सन्तः पुनस्तद्विपरीतभावाः ।

गृध्रः श्मशाने रमते स्वभावाद्

हंसः पुनर्मानसमेव भुङ्क्ते ॥ ११ ॥

सत्पुरुष वरणीय उत्तम पद को चाहा करते हैं । असज्जनों का स्वभाव उनसे विपरीत हुआ करता है । गृध्र स्वभाव से श्मशान में प्रसन्न होता है, पर हंस प्रसन्नता के लिए मानस-सरोवर का ही सेवन करता है ।

वाग्भिः सतां सृनृतशीतलाभिः

क्षुब्धं मनः शान्तिमुपैति नूतनम् ।

अस्तिक्तमद्भिः पत्तनोन्मुखं तद्

बह्वी पयः स्वस्थितिमेति सद्यः ॥ १२ ॥

सत्पुरुषों के प्रिय-सत्य और शीतल वचनों से क्षुब्ध मन को निव्वय ही शान्ति प्राप्त होती है । बहि में गिरने के लिए तैयार दुग्ध, पानी के छिड़कने पर, तत्काल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है ।

क्षोभं प्रयाता अपि नैव सन्तो

दुष्टामशिष्टां गिरमुद्गृणन्ति ।

दुष्टाः प्रसन्ना ध्वि शील्युक्तां

वर्तुं न जातु प्रभवन्ति वाचम् ॥ १३ ॥

सज्जन क्षुब्ध होने पर भी अशिष्ट और दुष्ट वाणी का व्यवहार नहीं करते । दुष्ट लोग प्रसन्नता में भी शील्युक्त वाणी को कभी नहीं बोल सकते ।

असज्जनः पापनिबद्धबुद्धिः

असज्जनों का स्वभाव

असज्जनः पापनिबद्धबुद्धि-

स्तस्मै न कोपावसरः प्रदेयः ।

क्षेपेण पङ्के विदितं शिलाया

वस्त्राणि नूनं मलिनीभवन्ति ॥ १ ॥

असज्जन की बुद्धि पाप में लगी रहती है। उसको कोप का अवसर न देना चाहिए। यह सब जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर के फेंकने से कपड़े मैले हो जाते हैं।

बहूपकारैरुपसेवितोऽपि

कृतज्ञता नैव रत्नो विभर्ति ।

सुवर्णकुम्भेन पयोनिपेकान्

माधुर्यमाप्नोति न निम्बवृक्षः ॥ २ ॥

अनेक उपकारों से उपकृत होने पर भी दुष्ट मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता। सुवर्ण के घड़े से पानी सींचने से नीम के वृक्ष में मिठास नहीं आता है।

श्रुत्यैव वाणीरूपदेशयुक्ता

दुष्टा बुधानां सहसा त्यजन्ति ।

मालाकृता समर्थितं सुगुण्ये-

मृद्भ्रन्ति माल्यं कपयो मनोदाम् ॥ ३ ॥

दुष्ट लोग विद्वानों के उपदेश भरे वचनों को सुनते ही तत्काल छोड़ देते हैं। माली द्वारा अच्छे फूलों से बनायी हुई सुन्दर माला को बन्दर मसल डालते हैं।

बुधाः रत्नानां मृदुमञ्जुवाचा

वचः कदाचिन्नहि विश्वसन्ति ।

माधुर्ययुक्ता अपि ता मयूरः

केवा वदन्नन्ति भुजङ्गजातम् ॥ ४ ॥

विद्वान् लोभ मृदु-मधुर-भाषी दुष्टों के बचन में कभी विश्वास नहीं करते। अत्यन्त मीठी बोली को बोलता हुआ भी मोर सर्पों को खा जाता है ।

दुष्टाशयानामसतां प्रसङ्गः

फलं प्रसूते नितरामवद्यम् ।

भुजङ्गमानां पतितं मुखान्तः

स्यातेर्जलं याति विपत्वमेव ॥ ५ ॥

दुष्ट अभिप्राय वाले असज्जनों का सङ्ग अत्यन्त निकृष्ट फल को पैदा करता है । सर्पों के मुख के अन्दर गिरा हुआ स्वाति नक्षत्र का जल विष बन जाता है ।

दुष्टप्रसङ्गेन सतामपीह

मानस्य हानिर्भवतीति दृष्टम् ।

यक्रस्य लोहस्य निषेवणेन

घनस्य घातं सहते कृशानुः ॥ ६ ॥

दुष्ट के सङ्ग से सज्जनों के भी मान की हानि देखी जाती है । टेटे लोहे के सेवन से अग्नि को हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है ।

मलीमसा मत्सरिणः सहन्ते

नैवापरेपां एतु भाग्यवृद्धिम् ।

संवीह्य चन्द्रस्य रुचिं रजन्यां

न जातु मोद भजते हि चौरः ॥ ७ ॥

ईर्ष्यालु स्वभाव के दुष्ट लोग दूसरों की भाग्य-वृद्धि को नहीं सह सकते । रात्रि में चन्द्रमा के प्रकाश को देख कर चौर को कभी प्रसन्नता नहीं होती ।

सङ्ग समासाद्य सतां जनानां

न दुर्जनो विरमरति स्वभासम् ।

वृत्ते निवासी एतु चन्दनस्य

त्रिपं न सर्पस्त्यजतीह जातु ॥ ८ ॥

सज्जनों के संग को पाकर दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं भूलता है । चन्दन के वृक्ष पर रहने वाला सर्प विष को कभी नहीं छोड़ता ।



निरादरस्यास्पदमस्ति याच्या

याचना से अपमान

निरादरस्यास्पदमस्ति याच्या

स्थानं हि मानो लभते न तत्र ।

विश्वाधिपो वामनरूपधारी

जातो बलेर् याचनतत्परः सन् ॥ १ ॥

याचना में निरादर रहता है । उसमें सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं होता । विश्व के स्वामी भगवान् की भी बलि से याचना करते समय वामनरूप की धारण करना पड़ा था ।

श्रेष्ठः कदाचित्कृपणं कदर्यं

न याचते कष्टशताकुलोऽपि ।

किं चातको जातु पिपासयापि

घटं जलं प्रार्थयते विपणः ? ॥ २ ॥

श्रेष्ठ मनुष्य सैकड़ों कष्टों से व्याकुल होने पर भी कभी कृपण नीच व्यक्ति से याचना नहीं करता । प्यास से व्याकुल होने पर भी क्या कभी चातक घड़े से जल की प्रार्थना करता है ?

सालेषु वन्धो ननु कुञ्जराणाम्

सामर्थ्य की महिमा

सामर्थ्यभाजां बहवः सहाया

न निर्बलानां भवतीह कश्चित् ।

बहिं प्रदीप्तं परमः करोति

दीपं पुनः प्रापयति क्षयं सः ॥ १ ॥

सामर्थ्य वालों के अनेक सहायक होते हैं; निर्बलों का कोई भी नहीं। वायु अग्नि को प्रदीप्त करता है; परन्तु दीपक को बुझा देता है।

सामर्थ्यभाजां ननु वैरिणोऽपि

भवन्ति नम्रा हितकाङ्क्षिणश्च ।

वयस्यन्या अपि दुर्बलाना-

मुपेक्षया दूरत एव यान्ति ॥ २ ॥

सामर्थ्य वालों के वैरी भी नम्र और हितैषी हो जाते हैं। अच्छे मित्र भी दुर्बलों की उपेक्षा करके दूर से ही चले जाते हैं।

योढुं समर्था महतां महान्तो

भारं गुरुं नेव तु हीनसत्त्वाः ।

सालेषु वन्धो ननु कुञ्जराणा-

मैरण्डवृक्षेषु न जातु दृष्टः ॥ ३ ॥

बलों के भारी बोझ को बड़े ही बहन करने में समर्थ होते हैं; दुर्बल नहीं। साल के वृक्षों में हाथियों का बँधना देखा जाता है; रेंजी के वृक्षों में कभी नहीं।

क्षुद्रेः समेत्यापि हि सत्त्वभाजां

प्रभूयते नापठति विधातुम् ।

कु शंरुदाचिन्नहि जम्बुकानां

दग्नु यथा केसरिणं समर्थम् ॥ ४ ॥

क्षुद्र लोग इकट्ठे होकर भी सत्त्वशाली लोगों का अपकार करने में समर्थ नहीं होते; जैसे गीदकों का समूह भी सिंह के मारने में कभी समर्थ नहीं होता है।

(३२)

नीतिमुक्तावलिः

नीति के मोती

उत्कर्षमासादयितुं समर्था

गुणेन युक्ता न तु तद्धिहीनाः ।

गुणेन युक्तेन घटेन नृनं

कूपान्मनुष्या जलमाप्नुवन्ति ॥ १ ॥

गुणवान् ही उत्कर्ष के पाने में समर्थ होते हैं; निर्गुण नहीं। 'गुण' (अर्थात् रस्सी) युक्त पड़े से ही मनुष्य कुएँ से जल को प्राप्त करते हैं।

विना धर्मं जातु जगो न कश्चित्

श्रियं समासादयितुं समर्थः ।

अतिप्रयासेन सुरासुरैर्दि

लब्धानि रत्नानि समुद्रमध्यात् ॥ २ ॥

विना धर्म के कोई मनुष्य कभी भी लक्ष्मी को नहीं पा सकता। देवताओं और असुरों ने बड़े परिश्रम से ही समुद्र के मध्य से रत्नों को पाया था।

सुरं परं किं ? निजतन्त्रतैव

दुःखं परं किं ? परतन्त्रतैव ।

पनेषु कीराः सुरित्तनो ध्रमन्ति

दीनाः पुनः काञ्चनपक्षरेषु ॥ ३ ॥

यदा शुचं क्या है ? स्वतन्त्रता ही ।

यदा दुःखं क्या है ? परतन्त्रता ही ।

जंगलों में तोते प्रसन्नता से उड़ते फिरते हैं;

पर स्वर्ण के भी पिंजड़ों में सोन दुःखी रहते हैं ।

धनं धनं नैव मतं सुधानां

सन्तोष एवास्ति धनं धरीयः ।

सन्तोषहीना अपि वित्तवन्तः

सुखेन निद्रां वत ! नो लभन्ते ॥ ४ ॥

विद्वान् लोग धन को धन नहीं मानते, उनके लिए सन्तोष ही श्रेष्ठ धन है ।
सन्तोष से हीन धनवान् भी सुख की नींद नहीं सोते हैं ।

स्थल्पोऽपि दोषः समुपेक्षितश्चे-

दनर्थसन्तानमसौ प्रसूते ।

बह्वेः कणोऽरण्यपरम्परास्ता

भस्मत्वमापादयितुं समर्थः ॥ ५ ॥

उपेक्षित किया हुआ मोड़-सा भी दोष अनर्थ-परम्परा को पैदा कर देता है ।
बढ़ि का वण बड़ी-बड़ी अरण्य-परम्पराओं को भस्म करने में समर्थ होता है ।

प्राप्तिर्यदीया सुखमातनोति

तस्यैव दुःखाय भवेद्वियोगः ।

सूर्योदयेन प्रविकसि पद्मं

तस्माद्वियुक्तं लभते प्रमीलाम् ॥ ६ ॥

जिसकी प्राप्ति सुख देती है, उसी का वियोग दुःख देने वाला हो जाता है । सूर्य
के उदय से खिलने वाला कमल उठते वियुक्त होकर संकुचित हो जाता है ।

न भुज्यते नापि वितीर्यते चेद्

धन्ते तदन्येऽपहरन्ति नूनम् ।

एवं च वित्तं कृपणस्य लोके

तथा समानं मधु मक्षिकाणाम् ॥ ७ ॥

यदि उपभोग नहीं किया जाता और दान भी नहीं दिया जाता, तो अन्त में
निश्चय ही दूसरे लोग उसका अपहरण कर लेते हैं । इस प्रकार संसार में कृपण का
धन और मधु-मक्षिकाओं का मधु दोनों समान हैं ।

कार्ये प्रयत्नेत फलं समीक्ष्य

व्यथा न जायेत यथानुतापात् ।

तुल्यं तिलैः कः सिकताः प्रपीड्य -

तैलं समासादयितुं समर्थः ? ॥ ८ ॥

परिणाम का विचार करके ही कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे पथात्ताप की व्यथा न होने पाए। तिलों की तरह बालू को कोहू में पेल कर कौन तेल को पा सकता है ?

कार्यस्वरूपावगमस्य कालः

कार्यप्रवृत्तेः प्रथमं प्रदिष्टः ।

जाते विवाहे कुलशीलपृच्छां

जामातृपत्ताकुरुते नु कश्चित् ? ॥ ९ ॥

जो काम करना है उस के स्वरूप को समझने के लिए उसके प्रारम्भ करने से पहले का ही समय ठीक कहा गया है। विवाह हो जाने पर क्या कोई जामाता के पक्ष से उस के कुल और शील के विषय में पूछ ताछ करता है ?

कालानुकूल्येन विधीयमानं

कार्यं हि साफल्यमुपैति नूनम् ।

उत्प्रेषु बीजेष्वयत्तर्कवश्यं

घनश्रमौ निष्कलतां प्रयातः ॥ १० ॥

काल की अनुकूलता को देख कर जो कार्य किया जाता है वह अवश्य सफलता को पाता है। प्रतिकूल ऋतु में बीजों के बोने से घन और श्रम दोनों अवश्य व्यर्थ जाते हैं।

अनागतार्थं असभीक्ष्णिकारी

संसिद्धिमासादयितु समर्थः ।

वह्निप्रदीप्ते भयने तु कूपं


खनन् हि मूर्खो लभते न किञ्चित् ॥ ११ ॥

अनागत (अग्निवाले) विषय का सम्यक् विचार कर के जो कार्य करता है वही सफलता को पा सकता है। घर में आग के लग जाने पर ऊँचे को खोदने वाले मूर्ख जन को कोई फल नहीं मिलता।

उपायगुप्तस्य नरस्य कश्चित्
शमुर्न शक्तोऽपकृतं विधातुम् ।
उपानहौ येन धृते न तस्य
सापाय शक्ताः सिक्ताः प्रवृत्ताः ॥ १२ ॥

॥ इत्यमृतमन्थने जीवनपाथेयं नाम द्वितीयः परिस्त्रवः ॥

जो यथासमय उपाय से अपनी रक्षा कर लेता है, कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । जिसने जूते पहिन रखे हैं गरम बालू उसके पैरों को नहीं जला सकता ।



परमहंस श्रीरामकृष्ण देव
अध्यात्मगतो मानुसज्ञानविमिराद्गतान् ।
लोकानुद्दोषयमोऽसौ देशिकेन्द्रो नमामि तम् ॥

तृतीयः परिस्रवः

प्रज्ञा-प्रसादः

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्

ततस्तु तं पर्यते निष्कलं ध्यायमानः ।

(सुण्डकोपनिषद् ३।१।८)

स तस्मिन्नेवाकाशे स्थिताजगाम धृशोभमानामुमां हैमवतीं तार्थं
होमाच किमेतद् यत्प्रमिति । सा वक्षेति होवाच.....ततो हैव
पिदाञ्चकार वक्षेति ।

(केनोपनिषद् २५-२६)



द्वितीय प्रवाह

प्रज्ञा-प्रसाद

सावक ज्ञान द्वारा प्रज्ञा-प्रसाद को पाकर ही विशुद्ध परमतत्त्व के साक्षात्कार
में समर्थ होता है ।

(सुण्डकोपनिषद् ३।१।८)

इन्द्र (= जीवारमा) ने यक्ष (= यजनीय देव) के स्वरूप को जानना चाहा ।
सब ओर से निराश होकर वह अत्यन्त शोभायुक्त उमा (= विशुद्ध प्रज्ञा) के पास
पहुँचा । उसके द्वारा ही इन्द्र ने ब्रह्मरूप में उस 'यक्ष' के स्वरूप को जाना ।

(केनोपनिषद् २५-२६)



प्रज्ञा-प्रसादः

प्रज्ञा-प्रसाद

जीवन क्या है ? क्यों है ? उसका परमलक्ष्य क्या है ? इस महान्-प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि—

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टप्रगतिर्जीवनं मतम् ।'

अर्थात्, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रगति, उत्तरोत्तर समुत्थान ही जीवन है, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है ।

इस उत्तरोत्तर प्रगति में जीवन को क्रमशः तामस, राजस और सात्त्विक अवस्थाओं में से होकर जाना पड़ता है । वास्तविक आदर्श का अपरिहान, मोह, प्रमाद और आलस्य का ही नाम तामस अवस्था है । लक्ष्य की अस्थिरता, अनिश्चय, अशान्ति, अवसाद और मिथ्या अभिमान का ही नाम राजस अवस्था है । परम-लक्ष्य की स्पष्ट प्रतीति, निश्चय, तत्परता, अध्यवसाय, शान्ति और प्रसन्नता को ही सात्त्विक अवस्था कहते हैं ।

इन अवस्थाओं के क्रमिक विक्रम का विशेष प्रतिपादन नीचे संख्या ४५ की रचना में किया गया है ।

उक्त सात्त्विक अवस्था के परम उत्कर्ष को ही 'प्रज्ञा-प्रसाद' समझना चाहिए । 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (बृहदारण्यकोपनिषद् १।३।२८), "जीवा ज्योतिरशीमहि" (ऋग् ७।३२।२६) इत्यादि वैदिक प्रार्थनाओं का वास्तव में अभिप्राय उक्त 'प्रज्ञा-प्रसाद' से ही है ।

'प्रज्ञा प्रसाद' के स्वरूप और स्थिति का विभिन्न दृष्टियों से सुन्दर वर्णन शास्त्रों में यत्र-तत्र मिलता है । उदाहरणार्थ, निम्नस्य प्रमाणों को देखिए:—

**ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वम्
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।**

(मुण्डकोपनिषद् ३।१।८)

अर्थात्, साधक ज्ञान द्वारा प्रज्ञा-प्रसाद को पाकर ही विशुद्ध परमतत्त्व के साक्षात्कार में समर्थ होता है ।

१. तु० "प्रतार्यायुः प्रतरं नवीय" (ऋग् १०।१५९।१) । "कृषी न ऊर्वाभू चरथाय जीवसे" (ऋग् १।३६।१४) । 'भद्रादभि श्रेयः प्रेहि' (ऐतरेय ब्राह्मण १।१३) ।

“समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव विभर्ति । न तत्र विपर्यास-गन्धोऽप्यस्ति ।”

(योगसूत्र ११४८ पर ध्यास-भाष्य)

अर्थात्, विशुद्ध सात्त्विक श्रवणस्या में जिसका चित्त समाहित (=समाधान या समाधि को प्राप्त) हो, बुद्धि है उसकी प्रज्ञा को ही ऋतम्भरा कहा जाता है; क्योंकि वह सत्य को ही धारण करती है और उगमें विपर्यास या मोह का गन्ध भी नहीं रहता ।

मसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।

(भगवद्गीता २।६५)

विशुद्ध और प्रसन्न चित्तवाले मनुष्य की ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ।

प्रज्ञा-प्रसाद की स्थिति का ही वर्णन हमारी 'रश्मिमाला' पुस्तक में निम्नस्थ शब्दों में किया गया है—

सौम्या मनःस्थितिः

अभिमानेन दम्भेन दपेण परिवर्जिता ।

शान्ता न मायया स्पृष्टा संयमेन पुरस्कृता ॥ १ ॥

श्रद्धया च विवेकेन सत्यमार्गानुसारिणी ।

लोककल्याण ऋथैव ज्ञानोपार्जनकारिणी ॥ २ ॥

हितबुद्ध्या समस्तानां प्राणिनां या समन्विता ।

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टचारित्र्यपरिपोषिणी ॥

नैराश्येन विनिर्मुक्ता यासौ सौम्या मनःस्थितिः ।

सन्तुष्टा च प्रसन्ना च सोऽयं मे निधिरव्ययः ॥

(रश्मिमाला ५८)

१. इसी स्थिति से सम्यग्ध रखने वाली अन्य पद्यात्मक रचनाओं के लिए 'रश्मिमाला' की अन्तिम तीन रश्मियों को देखिए ।

सौम्य मनःस्थिति

अभिमान से, दम्भ से और दर्प से रहित,
शान्त, छल-कपट से अस्पृष्ट और संयम से युक्त,
धृद्धा और विवेक के साथ सत्यमार्ग का अनुसरण करने वाली,
संसार के कल्याण की बुद्धि से ही ज्ञान का उपाजन करने वाली,
समस्त प्राणियों के हित की बुद्धि से समन्वित,
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट चारित्र्य को पुष्ट करने वाली,
नैराश्य से रहित, सन्तुष्ट और प्रसन्न
जो सौम्य मनःस्थिति है—
वही मेरी अक्षय निधि है ।

वक्त प्रज्ञा-प्रसाद की पृष्ठ भूमि के आधार पर ही 'अमृत मन्दन' के इस तृतीय 'परिखव' या प्रवाह की रचना हुई है ।

नैराश्य, आदर्शहीनता, लक्ष्यहीनता, रिक्तता, लघुता, अवसाद, अशान्ति और वैषम्य से परिपूर्ण मानव-जीवन में उससे आशा, विश्वास, प्रकाश, पूर्णता, औदार्य, मनःप्रसाद और स्थिर शान्ति की भावनाओं को पुष्टि और नवीन प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसी हमें आशा है:—

अनन्तमनवच्छिन्नं यत्तत्त्वं तदुपास्महे

मूल-तत्त्व की अनुभूति

इस समस्त विश्व प्रपञ्च के मूल में अवस्थित परम तत्त्व की अनुभूति का कुछ दिग्दर्शन नीचे के पद्यों में मङ्गलाचरण के रूप में किया गया है—

निर्मलं शाश्वतं शान्तमवाङ्मनसगोचरम् ।

विद्यते यन्महत्तेजस्तन्मे नित्यं प्रकाशताम् ॥ १ ॥

जो निर्मल, शाश्वत, शान्त, मन और वाणी का अगोचर, महान् तेज स्वयम्भू रूप से विद्यमान है, वह मेरे लिए सदा प्रकाशित रहे ।

व्यापि सर्वत्र लोकेषु त्रिषु कालेषु, सर्वथा ।

अन्तर्यामि च यत्तत्त्वं तन्मे नित्यं प्रसीदतात् ॥ २ ॥

जो मूल तत्त्व तीनों लोकों और तीनों कालों में व्याप्त है, जो सारे विश्व का अन्तर्यामी रूप से नियमन कर रहा है, वह सदा मुझ से प्रसन्न रहे ।

निधानं यद्धि शक्तीनां सर्वासामन्ततो मतम् ।

आत्मरूपेण सर्वेषां भाति यत्तदुपास्महे ॥ ३ ॥

अन्ततोगत्वा जो समस्त शक्तियों का एकमात्र निधान है और जो आत्मरूप से सबको प्रतीत हो रहा है, उसी मूलतत्त्व की हम उपासना करते हैं ।

चराचरमभिव्याप्य तदतीत्य च संस्थितम् ।

अनन्तमनवच्छिन्नं यत्तत्त्वं तदुपास्महे ॥ ४ ॥

चराचर जगत् को व्याप्त कर के और उस को भी अतिद्वन्द्व कर के जो स्थित है उसी अनन्त अनवच्छिन्न परम तत्त्व की हम उपासना करते हैं ।



(३४)

परमतत्त्वमहं नतोऽस्मि

परम-तत्त्व को नमस्कार

व्याप्य स्थितं त्रिभुवनं परितोऽप्रमेयं

पुण्यं परं परमनिर्वृतिधाम सत्यम् ।

पापापहं त्रिविधतापहरं चरेण्यं

शान्तं शिवं परमतत्त्वमहं नतोऽस्मि ॥ १ ॥

तीनों लोकों में पूर्णतः व्याप्त, अप्रमेय, अत्यन्त पवित्र, परम आनन्द के स्थान, सत्य-स्वरूप, पापों को दूर करनेवाले, वरणीय, शान्त, शिवस्वरूप परम-तत्त्व को मैं नमस्कार करता हूँ ।

यस्यास्ति वाङ्मनसयोर्महिमा न गम्यो

लोकानतीत्य निखिलानपि संस्थितं यत् ।

भूत्वा यतो विलयमेति च यत्र विश्वं

तच्छाश्वतं किमपि तत्त्वमहं नतोऽस्मि ॥ २ ॥

जिसकी महिमा का पार वाणी और मन नहीं पा सकते,
जो समस्त लोकों को भी अतिक्रान्त कर के स्थित है,
जिस से उत्पन्न होकर विश्व उसमें ही विलीन होता है,
उस अनिर्वचनीय शाश्वत-तत्त्व को मैं नमस्कार करता हूँ ।

यच्छाश्वतं परमतत्त्वमतीन्द्रियं सत्—

लोकत्रयस्य परिचालनमातनोति ।

आनन्दधाम सततं जगतां प्रतिष्ठं

भक्त्या नतोऽस्मि करुणावरुणालयं तत् ॥ ३ ॥

जो शाश्वत परम-तत्त्व अतीन्द्रिय होता हुआ

तीनों लोकों का परिचालन कर रहा है ।

सतत आनन्द के स्थान और लोकों के आधार

इस करुणा-सागर को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।



तन्नो शिवं वितनुतां परमं हि धाम

शिवस्वरूप परम धाम

सृष्ट्या जगन्ति निखिलानि पितामहो यो
विष्णुस्तथैव भुवनानि च पालयित्वा ।

मृत्युञ्जयस्तदुपसंहृतिवारणत्वाद्

योऽसौ स नोऽयतु सदा त्रिगुण समन्तात् ॥ १ ॥

समस्त लोकों की सृष्टि के करने से जो प्रज्ञा है,
लोकों का पालन करने से जो विष्णु है,
उनका सहार करने से जो शिव है,
वह त्रिगुण भगवान् सदा सर्वत हमारी रक्षा करे !

विश्वं यदस्ति सचराचरमेव विष्ट

कालत्रयेऽपि परिणामदशानभिज्ञम् ।

भास्यन्ति येन निखिलानि जगन्त्यमूनि

तत्र शिवं वितनुतां परमं हि धाम ॥ २ ॥

जो समस्त चराचर जगत् में व्याप्त हो रहा है,
जो तीनों कालों में सदा एक ही रूप में रहता है,
जिससे ये सारे जगत् प्रकटमान हैं,
वह परम धाम हमारे लिए कल्याण का विस्तार करे ।

भानु शशी समुदितौ नियमेन, चान्ये

लोका यदीयमनुशासनमाचरन्ति ।

ब्रह्माण्डभाण्डरचनाकुशलैरुद्देव

पायात्स नोऽनवरतं दुरितादत्रयात् ॥ ३ ॥

जिनके अनुशासन में सूर्य और चन्द्रमा नियम से उदित होते हैं और अन्य लोक भी जिनके अनुशासन का अनुसरण करते हैं, ब्रह्माण्ड रूपी भाण्ड (= पात्र) की रचना में एकमात्र कुशल वे सर्वलोककर्ता सर्वान्तर्यामी परमेश्वर कुत्सित पाप से सदा हमारी रक्षा करें ।

सृष्ट्वा जगन्निखिलमेव निवासगोहं

यो निर्मन्त्रेऽम्बरमदः पटलेन तुल्यम् ।

तत्रापि सूर्यमथ चन्द्रमसं च दीप्यै

शश्वच्छिब्रं वितनुतां स जगन्निवासः ॥ ४ ॥

जिन्होंने समस्त जगत् को एक निवास-गृह के रूप में निर्माण करके पाटन के सदृश उस उच्च गगन को बनाया और उसमें प्रकारा के लिए सूर्य और चन्द्रमा का निर्माण किया ये जगन्निवास परमात्मा हमारे लिए सदा कल्याण का विस्तार करें ।

तत्त्वं यदेतदतिशुद्धमचिन्त्यरूपं

शान्तं शिवं सकलविश्वविकासकेन्द्रम् ।

यन्नेति नेति श्रुतिसारथ्योभिरेवं

व्याख्यायते किमपि, तत्समुपाश्रयेऽहम् ॥ ५ ॥

जो अत्यन्त शुद्ध, अचिन्त्यरूप, शान्त, शिवस्वरूप और सकल विश्व के विकास का केन्द्र है, जिसकी वेद के विशिष्ट वचन 'नेतिनेति' (= यह भी नहीं) कहकर व्याख्या करते हैं, उस अनिर्वचनीय परम-तत्त्व का मैं आश्रय लेता हूँ ।

~~~~~

( ३६ )

नूनं मरुं हितधिया समुपाश्रयन्ते

पूर्वं पुराण-पुरूप

सेवस्य भोः सततमार्तिहरं समन्तात्

पूर्णं पुराणपुरूपं परिपूर्णतयै ।

सर्वस्य कारणमदण्डमनन्तरूप-

मानन्दधाम फरुगायफरुगालयं तम् ॥ १ ॥

अपि मनुष्य । परिपूर्णता के लिए तू सदा दृष्टी को आमूल हरने वाले उस पूर्ण पुराण-पुरूप का शैव्य कर, जो मय का कारण, अदण्ड, अनन्तरूप, आनन्द धाम और दृष्ट्या का समुद्र है ।

[ -५ ]



भो मानया ! भजत तत्परमं पवित्रं  
सर्वस्य कारणमघौघविनाशहेतुम् ।

ज्ञात्वा यदेव मुनयो विततं समन्ताद्

- ध्यानन्दधाम सततं मुदमाप्नुयन्ति ॥ २ ॥

अयि मनुष्यो ! तुम उस परमपवित्र, सब के कारण और पापों के समूह को नाश करने वाले परमेश्वर का सेवन करो, जो सर्वत्र व्यापक और आनन्दमय है और केवल जिसको जानकर मुनिजन सदा आनन्द का अनुभव करते हैं ।

कारुण्यवारिधिममुं जगतामघोशं

त्यक्त्वापरं कमपि देवमुपासते ये ।

नूनं हि ते नदनदीपरिपूर्णदेशं

हित्वा मरुं हितधिया समुपाश्रयन्ते ॥ ३ ॥

कठणा के सागर और लोको के स्वामी उस ईश्वर को छोड़कर जो किसी अन्य देवता को उपासना करते हैं वे मरुतों नहीं और नदियों से परिपूर्ण देश को छोड़कर हित-मुक्ति से मरुस्थल का सेवन करते हैं ।

आनन्दहेतुमजरं जगतां प्रतिष्ठं

देवाधिदेवमयि मूढ ! विहाय कस्मात् ?

अन्यं प्रयासि शरणं, किमु याचमानो

दारिद्र्यगर्तपतितं लभते स्वमर्थम् ? ॥ ४ ॥

अयि मूढ ! आनन्द के हेतु, अजर, लोको के आश्रय, देवाधिदेव परमेश्वर को छोड़ कर, वृ अन्य की शरण में क्यों जाता है ? दारिद्र्य के गर्त में पड़े हुए व्यक्ति से याचना करने वाला क्या कभी अपने अमीष्ट अर्थ को पा सकता है ?



## स्रोतः सुखस्य सलिलेन परिप्लुतं तत्

मनुष्य का महान् मोह -

प्राप्तुं सुखं हि मनुजा जगति भ्रमन्तः

क्लेशान् बहूननुभवन्ति न चाप्नुवन्ति ।

स्रोतः सुखस्य सलिलेन परिप्लुतं यत्

स्वान्तस्तले प्रवहतीति न जानते ते ॥ १ ॥

सुख पाने के लिए मनुष्य संसार में घूमते हुए अनेक झरोहों को सहते हैं, पर सुख को नहीं पाते । वे यह नहीं जानते कि सुख-रूपी जल से लबालब भरा हुआ स्रोत स्वयं उनके अन्दर बह रहा है ।

मूढ ! त्वया मम मनः ! किमिदं व्यधायि

हा हन्त ! यत्परमनिर्वृतिधाम सत्यम् ।

त्यक्कासि भोः ! पतितमिन्द्रियवृत्तिद्वैतौ

पर्यन्ततापिविषये, शक्तभो यथाम्नी ॥ २ ॥

असि मूढ ! मेरे मन ! हा तूने यह क्या किया कि तू, परमशान्ति के धाम सत्य को छोड़कर, केवल इन्द्रियों की वृत्ति करने वाले और अन्त में दुःखदायी विषयों में, अग्नि में पतंगे के भाई, गिर पड़ा ।

# आत्मतत्त्वविवेचनम्

## आत्मतत्त्व का विवेचन

हमारे वास्तविक उत्थान का मूल आत्म परोक्षण में निहित है । इसीलिए, हमारा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है ? इसी प्रश्न का उत्तर नीचे की ३८ से ४४ तक की रचनाओं में दिया गया है :—

( ३८ )

### सर्वदानन्दरूपं तदात्मतत्त्वं विवेकिनाम्

अपना स्वरूप

आत्म-तत्त्व के स्वरूप के विषय में विवेकी और अविवेकी मनुष्यों की दृष्टियों का वर्णन नीचे के पद्यों में किया गया है :—

शक्तिर्धाम स्वयंज्योतिः कूटस्थं सर्वसाक्षि च ।

सर्वदानन्दरूपं तद् आत्मतत्त्वं विवेकिनाम् ॥ १ ॥

जो विवेकी हैं उनके लिए वह आत्म-तत्त्व शक्ति का धाम, स्वयं प्रकाशमान, सर्वदा एकरूप में रहने वाला, सब का साक्षी और सदा आनन्द-स्वरूप है ।

संमूढं सर्वदा मग्नं समुद्वेगविपादयोः ।

अस्थिरं स्थितिवात्याभिस्तत्त्वं तदविवेकिनाम् ॥ २ ॥

पर जो अविवेकी हैं उनके लिए वही आत्म-तत्त्व मोह में पड़ा हुआ, सदा उद्वेग और विषाद में डूबा हुआ और परिवर्तनशील परिस्थितियों की आंधियों से अस्थिर अथवा अचल रहता है ।

# ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरात्मतत्त्वं मनीषिणाम्

प्रकाशस्वरूप आत्मतत्त्व

आत्मनो यस्य कामाय सर्वे कामा अवस्थिताः ।  
यस्यार्थे तत्तदर्थानामर्थना सप्रवर्तते ॥ १ ॥

घोरैः परिश्रमैः कृत्वा नानायत्नान् दिव्निशम् ।<sup>१</sup>  
यच्चाप्यतेऽपि तद् यस्य भोक्तृत्वे पर्यगस्यति ॥ २ ॥

आत्मनस्तस्य निस्मृत्य स्वरूपं गौरवं तथा ।  
क्रीडीकृत्यात्मनो हीनमात्रनां विचरन्ति ये ॥ ३ ॥

तथ्यातथ्यविचेकेन हीनाः कृपणबुद्धयः ।  
अन्धे तमसि ममास्ते श्रुतावात्महनो मताः ॥ ४ ॥

ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरात्मतत्त्वं मनीषिणाम् ।  
तदेवाज्ञानमूढैर्हा ! प्रत्यक्षं सन्न दृश्यते ! ॥ ५ ॥

चैतन्यं यद्धि ते रूप भास्वतोऽपि प्रभास्वरम् ।  
विद्यते तत्र मोहस्य स्थितेरेव न संभवः ॥ ६ ॥

मोहचैतन्ययोर्नित्यं भेदः स्वाभाविको मतः ।  
तेजस्तिमिरयोभोवाभावयोरथवा यथा ॥ ७ ॥

१. जिस आत्मा की कामना के लिए  
सारी कामनाएँ हुआ करती हैं,  
जिस आत्मा के लिए  
विभिन्न पदार्थों की माँग हुआ करती है,

२. दिन-रात घोर परिधर्मों के साथ  
अनेक प्रकार के यज्ञों को करके  
प्राप्त हुई प्रत्येक वस्तु का सार्यक्य  
असि आत्मा के भोक्तृत्व में रहता है,
३. सप्त आत्मा के स्वरूप  
और गौरव को भुलाकर,  
तथा अपनी हीन भावना को  
हृदय से पकड़कर जो विचरते हैं,
४. सत्यासत्य के विवेक से हीन,  
अनुदार बुद्धि रखने वाले,  
तथा घोर अन्धकार में निमग्न,  
उन लोगों को श्रुति में आत्मघाती कहा गया है ।
५. जो आत्मतत्त्व मनीषियों के लिए  
ज्योतियों का भी ज्योति है,  
खेद है ! वही अज्ञान से मूढ़ व्यक्तियों को  
प्रत्यक्ष होता हुआ भी नहीं दिखायी देता !
६. तेरा यह चैतन्य-रूप  
सूर्य से भी अधिक प्रकाश वाला है ।  
उसके विषय में भोह की  
स्थिति हो ही नहीं सकती ।
७. मोह और चैतन्य में परस्पर जो भेद है  
वह सदा स्वामाबिक माना गया है;  
वह भेद ऐसा ही है जैसा  
प्रकाश और अन्धकार में अथवा भाव और अभाव में ।



## चञ्चले तु जगत्यस्मिन्नेक आत्मैव निश्चलः

आत्मतन्त्र की स्थिरता

चञ्चले तु जगत्यस्मिन्नेक आत्मैव निश्चलः ।

तत्र चञ्चलभावानां कृते ते विभ्रमः कुतः ? ॥ १ ॥

जीवनेऽस्मिन्नवस्थानां भेदः स्वाभाविकस्तथा ।

बाहुल्येनानिवार्योऽपि दृश्यते, नात्र संशयः ॥ २ ॥

कृते तासामवस्थानां हर्षः शोकोऽथ खिन्नता ।

अभिमानोऽथवा गर्हो युज्यते नैव नैव च ॥ ३ ॥

१. इस अस्थिर स्वभाव वाले जगत् में केवल एक आत्मा ही निश्चल है ।  
ऐसी अवस्था में अस्थिर पदार्थों के सम्बन्ध में तुझे विभ्रम क्यों है ?
२. इस जीवन में अवस्थाओं में परिवर्तन का होना स्वाभाविक है  
और प्रायेण वह अनिवार्य भी होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।
३. इसलिए उन अवस्थाओं के सम्बन्ध में हर्ष, शोक, खेद, अभिमान अथवा  
गर्ह का करना किसी भी प्रकार युक्त नहीं ।

## शिलासंघातसंकाशाः सुस्थिरा दृढनिश्चयाः

महात्माओं का स्वभाव

आत्म-तत्त्व को समझने वाले महात्मा अपने निश्चयों पर पत्थरों की चट्टानों के  
समान दृढ़ रहते हैं; इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नीचे के पद्यों में किया गया है:—

जीवनेऽस्मिन्नवस्थानामागमोऽप्यत्र एव च ।

स्वभावतः समापत्ति सर्वस्यापीति निश्चयः ॥ १ ॥

तत्त्वमेकं परं तत्र शूटस्यत्वेन वर्तते ।

तदेव शरणं गत्वा शान्तिमृच्छति मानवः ॥ २ ॥

इस जीवन में निश्चय ही सब दिग्घी के साथ धुल-धुल-धुल की अवस्थामें का माना-  
जाना स्वभाव से ही होता रहता है । पर उन अवस्थाओं में भी एक आत्म-तत्त्व

अविचल रूप में (कूटस्वभाव में) बराबर धर्तमान रहता है। उसी की शरण में जाकर, उसी के साथ अपने तादात्म्य को समझकर, मनुष्य शान्ति को पाता है।

हर्षेण वा विपादेन स्वरूपाद्विच्युतो नरः ।

पात्यावेगेन संशुब्धवृत्तावलिसमो मतः ॥ ३ ॥

शिलासंघातसंकाशाः सुस्थिरा हृदनिश्चयाः ।

सस्वयन्तो महात्मानः शोभन्ते क्षोभयर्जिताः ॥ ४ ॥

हर्ष अथवा विपाद के कारण जो मनुष्य अपने स्वरूप से विच्युत हो जाता है वह औषी के वेग से अत्यन्त चञ्चल वृक्षावली के समान है।

परन्तु सत्त्वशील महात्मा लोग पत्थरों की चट्टानों के समान सुस्थिर, हृद-निश्चय और सदा क्षोभ से रहित होते हैं।

( ४२ )

## मदर्थं ननु दृश्यानि न तदर्थं ममास्तित्वा

### दृश्य हमारे लिए हैं

दृश्य और द्रष्टा के बीच में द्रष्टा का ही प्राधान्य होता है, इसी सिद्धान्त को नीचे के पद्यों में समझाया गया है:—

३ गतागतत्वाद् दृश्यानामस्थिराणां स्वभावतः ।

एकोऽहं निश्चलो द्रष्टा यत्ने, नैयात्र संशयः ॥ १ ॥

अतो मदर्थं दृश्यानि न तदर्थं ममास्तित्वा ।

ततस्तत्कारणात्क्षोभः सर्वथा न ममोचितः ॥ २ ॥

१. दृश्य आने-जाने वाले होने से स्वभाव से ही अस्थिर होते हैं। मैं अकेला उनको देखने वाला निश्चल रहता हूँ; इसमें सन्देह नहीं है।

२. अतः दृश्य मेरे लिए हैं; मेरा अस्तित्व दृश्यों के लिए नहीं है। इसीलिए दृश्यों के कारण मुझे क्षोभ हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है।

# तत् त्वं तत्ते महद्धनम्

आत्म-स्वरूप में संस्थिति

अहंकारेण निर्मुक्तं

तत्त्वं यच्छुद्धमव्ययम् ।

तत् त्वं भ्रातर्न जानीषे

तत् त्वं तत्ते महद्धनम् ॥ १ ॥

यस्याभीप्साजिहासाभ्यां व्याप्तमेतज्जगत्त्रयम् ।

सार्थक्यं लभते नूनं यस्यैवेक्षणमात्रतः ॥ २ ॥

महत्त्वममहत्त्वं वा सर्वस्यापीह वस्तुनः ।

यस्यापेक्षामुपेक्षां वा समाश्रित्यैव तिष्ठति ॥ ३ ॥

संस्मृतिस्तस्य तत्त्वस्य नियतं ह्यनपायिनी ।

स्वरूपे संस्थितिः सत्यमात्मसंमानना मता ॥ ४ ॥

१. अहंकार से निर्मुक्त जो शुद्ध ध्रुव तत्त्व है, माई तुम उसको नहीं जान रहे हो । वास्तव में तुम बड़ी ही, बड़ी दुन्दारा बड़ा धन है ।
२. जिसकी अपनी अभीप्सा ( = प्राप्त करने की इच्छा ) और जिहासा ( = छोड़ने की इच्छा ) से व्याप्त इस त्रिलोकी की सार्थकता उसके ईक्षण-मात्र से सम्पन्न होती है,
३. प्रत्येक पदार्थ की महत्ता अथवा लघुता का रहस्य जिसकी अपेक्षा अथवा उपेक्षा में ही निहित है,
४. उतही तत्त्व की निश्चय रूप से अविचल संस्मृति को 'स्वरूपावस्थिति' कहना चाहिए । वास्तव में 'आत्म-संमान की भाषना' यही है ।





## सोऽहं न संशयः

मैं कौन हूँ ?

सारवत्त्वमसारत्वं मूल्यवत्त्वमथान्यथा ।

यस्तूनां निर्णयापेक्षि यस्य सोऽहं न संशयः ॥ १ ॥

आहरन्ति बलिं यस्मै हरयानीमानि नित्यशः ।

विश्वभुग् विश्वसम्पत्नी च सोऽहं नैवात्र संशयः ॥ २ ॥

मांसमज्जादिभिः पूर्णो देहोऽयं पूतिपूरितः ।

मनोद्धो रुचिरश्चापि येन, सोऽहं न संशयः ॥ ३ ॥

१. कोई भी पदार्थ सारवान् है अथवा सारहीन, मूल्यवान् है अथवा मूल्यहीन—इस बात में जिसके निर्णय की अपेक्षा की जाती है, निस्सन्देह मैं बही हूँ ।
२. ये सारे हरय पदार्थ पूजाहय में जिसके लिए अपने अनुभवों की बलि देते हैं वह विश्व का भोक्ता और साक्षी मैं ही हूँ, इसमें सन्देह नहीं है ।
३. मांस मज्जा आदि से पूर्ण और दुर्गन्ध से पूरित यह शरीर जिसके कारण सुन्दर और आकर्षक प्रतीत होता है, निस्सन्देह मैं बही हूँ ।

—०—

# ब्रह्मभावनम् ब्रह्म का चिन्तन

ऊपर आराम-सत्त्व का विचार किया गया है। उस विचार का पर्यवसान विश्व-प्रपञ्च के समष्टि रूप ब्रह्म के चिन्तन में ही होता है। ध्यष्टियों का जीवन समष्टि में ही रहता है, वसी तरह जैसे मछलियों पानी में ही जीवित रहती हैं। नीचे की रचनाओं ( ४५-५१ ) का इसी विचार से संबन्ध है—

( ४५ )

## शेते सुप्त इवोरगः

ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्ति का क्रम  
आत्मनो ब्रह्मसायुज्य-

क्रमव्याख्या विधीयते ।

प्रथमं जडात्मकं सर्वं तमोऽवस्थानमेव तत् ॥ १ ॥

प्रकृत्या चलशालिन्या तमोभूयिष्ठया तदा ।

आच्छादितो य एवाग्निः शेते सुप्त इवोरगः ॥ २ ॥

सधूमो रागयोगेण रजोऽवस्थानमेव तत् ।

स एव निर्मलः शान्तः सत्त्वभूयिष्ठ उच्यते ॥ ३ ॥

तम्यैवोपरमोऽनन्ते शान्ते ब्रह्मण्यसंशयम् ।

निर्वाणमथ सायुज्यममृतत्वं च गीयते ॥ ४ ॥

एवं तमोरजःसत्त्वा-

वस्याः क्रान्त्वा तदमृतम् ।

चेतन्यमश्नुतेऽद्वैतं

ब्रह्मणा प्रणयेन वै ॥ ५ ॥

१. सु० "अग्निदेवदशरमिह २ सर्वं तस्योपभ्याख्यानम् ।" "इति सर्वमोहार एव ।" "सर्वं २ स्वेत २ प्रकृत्या चलात्मा ब्रह्म" । अनाश्रयदुर्गोऽभ्यवहारः प्रपञ्चोपशमः शिरोऽद्वैत एवमोहार अन्ते च संविश्यात्पनात्मानं च एवं वेद ।"

( भाष्यकदोषनिवृत् १।२।१२ )

१. व्यष्टि-रूप आत्मा विश्व के समष्टि-रूप ब्रह्म के साथ किम क्रम से सायुज्य अथवा अद्वैत को प्राप्त करता है या कर सकता है, इसी की व्याख्या यहाँ की जा रही है।

जीव के धमिक विकास में जो सब से नीचे की या प्राथमिक अवस्था होती है वह जटावस्था से अभिज होती है; उसे घोर तामसिक स्थिति ही समझना चाहिए।

२. उस अवस्था में अत्यधिक तमःस्वरूपिणी तथा धलशालिनी प्रकृति से आच्छादित चैतन्य-रूप अग्नि, सोये हुए सर्प के समान, मानो सुप्तावस्था में रहती है।

३. वही चैतन्य-रूप अग्नि जब राग (= आसक्तिरूप रजता) के योग से मानो सधूम अवस्था को प्राप्त हो जाती है उसी को रजो गुण की स्थिति समझना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि घोर तामसिक अवस्था से ऊपर उठते हुए जीव में जो रागात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है उसकी राजस स्थिति ही समझना चाहिए।

राज से दकी हुई कण्डे की आग वायु के लगने से सुलगने और धुआँ देने लगती है; वही स्थिति उक्त द्वितीय अवस्था में आत्मा की होती है।

वही चैतन्यरूप अग्नि जब निर्मल और शान्त होकर प्रकाशित हो उठती है तब उसमें सात्त्विक अवस्था का अत्यधिक विकास हुआ समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि अपने प्रकाश की उत्कृष्ट अवस्था में शुभ्र, निर्मल और शान्त दिखलायी देती है, ऐसे ही उत्कृष्ट सात्त्विकता के विकसित होने पर आत्मा निर्मल और शान्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

४. उसी व्यष्ट्यात्मक चैतन्य की जब अनन्त तथा शान्त ब्रह्म में उपरति हो जाती है उसी अवस्था का शास्त्रों में 'निर्वाण' अथवा 'सायुज्य' अथवा 'अमृतत्व' इन शब्दों से वर्णन किया गया है।

अभिप्राय यह है कि अग्नि जैसे अपनी अन्तिम स्थिति में समष्ट्यात्मक अग्नि में लीन हो जाती है, आत्मा की 'निर्वाण' अवस्था को भी वैसे ही समझना चाहिए।

५. इस प्रकार व्यष्टि रूप आत्मा ब्रह्मशः तामस, राजस और सात्त्विक अवस्थाओं को पार करता हुआ अन्त में विश्व के समष्टि-रूप ब्रह्म के साथ अमृत-रूप अद्वैतावस्था को प्राप्त कर लेता है।

शास्त्रों में उसी ब्रह्म का वर्णन प्रणव या ओंकार रूप से भी किया गया है।



# भूमा वै सुखमाप्नातं सुखमल्पे न विद्यते

विशाल-चिन्तन का महत्त्व

यो वै भूमा तत्सुखम् । नाल्पे सुखमस्ति ।  
भूमैव सुखम् । भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ।

( छान्दोग्य उपनिषद् ७।२.३।१ )

अर्थात्, जो विशाल है, महान् है, वही सुख-रूप है । अल्प में, लघु में, सुख नहीं रहता । निस्सन्देह महान् ही सुख है । इसलिए महान् को ही विशेष रूप से जानना चाहिए ।

लघु स्वार्थों का सतत चिन्तन ही मनुष्य की अशान्ति का मूल कारण है और विशाल-चिन्तन में ही उसकी सभी शान्ति का रहस्य निहित है, इसी तथ्य का प्रतिपादन नीचे के पद्यों में किया गया है:—

शरीरात्मा लघुस्तस्य नैव कार्या विचारणा ।  
चिन्तन हि लघोर्यस्माद्भुतापादकं मतम् ॥ १ ॥  
भूमा वै सुखमाप्नातं सुखमल्पे न विद्यते ।  
अनर्थान्तरता तस्मान्मता भूमपरात्मनोः ॥ २ ॥  
ब्रह्मविज्ञायते ब्रह्म ह्याप्नातमसकृच्छ्रुतो ।  
तस्माद् ब्रह्मविचारेऽव्ययी निमग्नः शान्तिमाप्नुहि ॥ ३ ॥  
तत्त्वमानन्दरूपं तदादिमं नात्र संशयः ।  
तथापि महद्ब्रह्मं हरयन्ते दुःखिनो जनाः १ ॥ ४ ॥  
एकमेवाद्वितीयं तन्मूलं सर्वस्य वस्तुनः ।  
तद्विधासाः समे भावा नियतं मत्स्वरूपिणः ॥ ५ ॥  
इत्येयं सततं ध्यायन्मुनिर्ब्रह्मपरायणः ।  
लघुतापादकान्भावान् भिन्ना भूमानमश्नुते ॥ ६ ॥

१. शरीर धारी तत्सद् व्यक्ति का व्यवहार लघु है। केवल उसी के स्वार्थ के विचार में मनुष्य को नहीं लगा रहना चाहिए। क्योंकि लघु का चिन्तन लघुता को लाने वाला होता है।
२. विशालता में अथवा महत्ता में ही सुख रहता है, ऐसा ( उपरि-निर्दिष्ट ) धृति में कहा गया है। अल्प में, लघु में, सुख नहीं रहता। इसीलिए 'भूमन्' (= महत् ) और 'परमात्मन्' दोनों शब्द वास्तव में समानार्थक हैं, ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त है।
३. भद्र जो भूमा है उसको जानने वाला भद्र हो जाता है, ऐसा धृति में बार-बार कहा गया है। इसलिए भद्र-विचार-रूपी सागर में निमग्न होकर तुम शान्ति को प्राप्त करो।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य का चिन्तन जितना ही विशाल होगा अथवा लघु स्वार्थों में ऊपर रहेगा उतना ही अधिक सच्चे सुख और शान्ति का अनुभव उभको होगा।

# मत्वा धीरो न शोचति

## प्रसन्नता का मूल-स्रोत

यथा कस्यापि वृक्षस्य फले तद्वर्तिनो गुणाः ।  
 आविर्भावाय कल्पन्ते साकल्येन विशेषतः ॥ १ ॥  
 तथैव ब्रह्मणो धाम्नि ब्रह्माण्डे सन्ति ये गुणाः ।  
 आविर्भवन्ति ते सर्वे पिण्डे तत्कार्यरूपिणि ॥ २ ॥  
 अत एव शरीरेऽस्मिन् चैतन्यं बद्धिं हरयते ।  
 नूनं तद् ब्रह्मणो रूपं मूलतो नात्र संशयः ॥ ३ ॥  
 आत्मनो ब्रह्मणश्चैवाद्भैतं तस्माच्छ्रुतिर्जगौ ।  
 तदेतत्त्वरतो नूनं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥

१. जैसे किसी वृक्ष में जितने भी गुण होते हैं वे सब के सब पूर्ण-रूप से उसके फल में विशेषतः प्रकट हो जाते हैं;
२. वैसे ही ब्रह्म के धाम-स्वरूप ब्रह्माण्ड में जो भी गुण विद्यमान हैं वे सब ब्रह्माण्ड के कार्यरूप इस शरीर-पिण्ड में विशेषतः आविर्भाव को प्राप्त हो जाते हैं ।

अभिप्राय यह है कि जैसे आत्मादि वृक्षों के विशिष्ट माधुर्य आदि गुण उनके कार्य रूप फलों में ही देखने में आते हैं, ऐसे ही ब्रह्माण्ड में ब्रह्म के श्रोत-श्रोत होने पर भी उसके चैतन्यादि गुणों की साक्षात् प्रतीति ब्रह्माण्ड वृक्ष के फल-स्वभावी शरीर में ही होती है ।

३. इसलिए यह मानना पड़ता है कि इस शरीर में जो चैतन्य दिखायी देता है वह मूल में ब्रह्म का ही रूप है; इसमें संदेह नहीं हो सकता ।
४. इसीलिए श्रुतियों आत्मा और ब्रह्म के अद्भैत का गान करती हैं ।  
 तत्पर्युक्त तस्य को तात्पर्यक दृष्टि से जानकर, तादृक-दर्शी, विद्वान्, अग्नी, पौरु को नहीं प्राप्त होते ।

# आत्मानमभिमानोऽयं नूनमावृत्य तिष्ठति

## अभिमान का आवरण

आनन्दं विभुमात्मानं ब्रह्म प्राहुर्मनीषिणः ।  
 सर्वत्रगमतोऽस्माभिः सान्निध्यं सत्यं विद्यते ॥ १ ॥  
 सान्निध्यं कथमत्रेति जिज्ञासा न प्रयोजिका ।  
 सत्यस्मिन् नित्यसान्निध्ये कुतोऽस्माकं विपण्णता ? ॥ २ ॥  
 प्रथम एव महान्स्तावन् समोद्वेगाय जायते ।  
 तस्यैतस्य समाधानं किञ्चिदत्र प्रपञ्च्यते ॥ ३ ॥  
 अभिमानो दुरन्तोऽयं तम आवरकं यथा ।  
 व्याघातकारणं तत्र सान्निध्ये नः प्रतीयते ॥ ४ ॥  
 आवृत्य परितः पृथ्वीं वर्तते वायुमण्डलम् ।  
 आत्मानमभिमानोऽयं तथैवावृत्य तिष्ठति ॥ ५ ॥  
 अभिमानेन मूढोऽयं सन्निधावपि संस्थितम् ।  
 आनन्दधाम सर्वत्र व्याप्तं तत्त्वं न पश्यति ॥ ६ ॥  
 ततो ज्ञानासिना धैर्यचर्मं संगृह्य बुद्धिमान् ।  
 छित्वाहंकारमानन्दी ब्रह्मणा संगतो भवेत् ॥ ७ ॥

1. तत्त्वदर्शियों का कहना है कि प्रथम स्वभावतः आनन्द-स्वरूप, सर्वत्र फैला हुआ, सत्य का आत्मा और सर्व-व्यापक है। ऐसी दशा में हमारे साथ उस का सान्निध्य है, यह स्वतः सिद्ध है।
2. पर यहाँ 'यह सान्निध्य क्यों कर है?' इस जिज्ञासा से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म के साथ नित्य रहने वाले इस सान्निध्य के होने पर हमारी यह विपण्णता क्यों है? उसका क्या कारण है?
3. यही महान् प्रथम हमारे सामने है। इसी से हम उद्भिन्न हो रहे हैं। इसी के समाधान की कुछ चर्चा हम यहाँ करना चाहते हैं।
4. हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अन्धकार सब पदार्थों को ढक लेता है, इसी प्रकार हमारा यह दुःखदायी अभिमान ही ब्रह्म के साथ हमारे सान्निध्य में व्याघात का कारण हो रहा है।

५. जैसे पृथ्वी को चारों ओर से वायु-मण्डल आवृत किये हुए है, इसी प्रकार यह अभिमान हमारी आत्मा को आवृत किये हुए रहता है।
६. अभिमान से मुदावस्था को प्राप्त मनुष्य अपनी सज्जिधि में भी रहनेवाले आनन्द के धाम तथा सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म-रूप परम-तत्त्व का अनुभव नहीं कर पाता।
७. इस लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्यरूपी ढाल को लेकर ज्ञान-रूपी खड्ग से अहंकार-शत्रु का संहार कर के ब्रह्म के साक्षात् अनुभव करे।



( ४६ )

## विहगोऽनन्त आकाशे

अनन्त की यात्रा

विहगोऽनन्त आकाशे विचरन्नपि यदा कदा ।

वृक्षार्धं पर्यतामं वा यथैवाश्रित्य तिष्ठति ॥ १ ॥

तथैव पथिकोऽनन्ते विचरन् ब्रह्मणोऽध्वनि ।

सांस्तानाश्रयते देवान् तत्तदादर्शरूपिणः ॥ २ ॥

उच्चादुच्यप्रदेशांस्तान् लब्ध्वा सोऽध्यात्मवर्त्मनि ।

असक्तो निर्ममो गच्छन् ब्रह्मसायुज्यमभूत् ॥ ३ ॥

१. जैसे अनन्त आकाश में जब तब विचरता हुआ एक पक्षी शृंखों की चोटियों पर या पर्वत के शिखर पर आश्रय पाकर बैठ जाता है;
२. इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की अनन्त यात्रा का पथिक भी विचरता हुआ तत्तदा उदात्त आदर्शों के रूप में तत्तदा देवताओं का आश्रय लेता हुआ अग्नि-आगे बढ़ता जाता है।
३. इस प्रकार वह अध्यात्म मार्ग में उच्च से उच्च स्थितियों (भूमियों) को पाकर अघण और निर्ममभाव से ऊपर उठता हुआ अन्त में ब्रह्म-सायुज्य को पा लेता है।

१. जु० "संस्कृतेस्तारतम्यं य आदर्शा दर्शयन्ति नः । स एव देवतारूपा हरयन्ते भावमूलधः ॥" ( ग्रन्थकार की पुस्तक 'रश्मिमाता' २८१४ ) :



# काष्ठपुत्तलिका इव

विश्व का सूत्रधार

यदन्तः शाश्वतं तत्त्वं तेजोरूपमकल्मषम् ।

तन्मनास्तत्परो भूत्वा निचरेन्ना गतस्प्रहः ॥ १ ॥

कार्यकारणसूत्रेण

जगदेतत् परात्मना ।

चाल्यतेऽचलभावेन

काष्ठपुत्तलिका इव ॥ २ ॥

कार्यकारणसूत्रेण सूत्रधारेण केनचित् ।

चाल्यमाने जगत्यस्मिन् नैव किञ्चिद्द्वैतुकम् ॥ ३ ॥

- १ तेजोरूप अकल्मष (= मल या पाप से रहित ) जो शाश्वत सर्वान्तर्यामी मूल तत्त्व है, मनुष्य को उसका चिन्तन करते हुए और उसमें विश्वास रखते हुए तृष्णा या लिप्सा से रहित होकर विचरना चाहिए ।
२. तथ्य तो यह है कि सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही इस जगत् को कठ पुतली के समान अचल भाव से कार्य-कारण के सूत्र (= डोर ) द्वारा चला रहे हैं ।
३. जब कि कोई सूत्रधार कार्य-कारण के सूत्र द्वारा इस जगत् को चला रहा है तब यह निश्चित जानो कि इस जगत् में कोई भी बात निहैतुक नहीं हो सकती ।

—

# दिव्यजीवनमार्गस्थो भवेयमिति भावये

## दिव्य शैशवी अवस्था

अन्यात्म-मार्ग के पथिक के लिए, दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में विश्व के समष्टि-रूप प्रद्य के क्षण तादात्म्य वा अनुभव चाहने वाले के लिए एक सुन्दर आदर्श के रूप में दिव्य शैशवी अवस्था का हृदयस्पर्शी चित्रण नीचे के पद्यों में किया गया है:—

अवस्थां शैशवीं दिव्या—

मामनन्ति मनोपिणः ।

गुणानां कीर्तनं तस्याः

क्रियते शान्ति-वर्धनम् ॥ १ ॥

चिन्ता यापरिमेयान्ता लोकान् संब्याप्य तिष्ठति ।

तस्या नाम्नापि सद्भावस्तरयां किञ्चिन्न हरयते ॥ २ ॥

सन्दिहानमनोवृत्तिः सशयावसरतथा ।

अंरोनापि न विद्येते यतः शान्तिमयी हि सा ॥ ३ ॥

किञ्चिन्नोकोत्तरं ज्योतिर्दोषसंस्पर्शवर्जितम् ।

शान्तेः प्रसारकं मन्ये शिशुभावेन तिष्ठति ॥ ४ ॥

1. मनीषी लोग शैशवी अवस्था को दिव्य अवस्था बतलाते हैं । शान्ति को बढ़ाने वाला उसी के गुणों का कीर्तन यहाँ हम करेंगे ।
2. कभी समाप्त न होने वाली जो चिन्ता सब लोगों को व्याप्त किये हुए है उसकी नाममात्र भी नहीं राता उस अवस्था में नहीं पायी जाती ।
3. सब कामों में सन्देह करने वाली मनोवृत्ति तथा संशय का अवसर दोनों किञ्चिन्मात्र भी उसमें नहीं पाये जाते, क्योंकि वह अवस्था केवल शान्तिमयी होती है ।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के संस्पर्श से रहित और शान्ति का प्रसार करने वाली कोई कोकोत्तर ज्योति शिशुभाव से स्थित हो रही है ।

१. सु. "गुणानिपानं च पयोनि" शय शोध्यतेऽपरहम् ।" (रघुवंशमहाकाव्ये १०।३)

प्राणरक्षाकृते लोकाश्चिन्तासन्तानकर्षिताः ।

दृश्यन्ते भयविभ्रान्ता धावन्त इय सर्वतः ॥ ५ ॥

तेषु तेषु प्रयत्नेषु साधकं बाधकं प्रति ।

रागद्वेषी प्रजायेते सर्वस्यापि न संशयः ॥ ६ ॥

परेरास्य जगद्भर्तुर्मायया मातृरूपया ।

रक्षितानां शिशूनां सा चिन्ता नैवोपपद्यते ॥ ७ ॥

रागद्वेषभयैः शून्या निश्चिन्ताः प्रेममूर्त्तयः ।

सर्वेषां शिशवस्तस्मान्मोदमादधते सदा ॥ ८ ॥

निर्माया निरहङ्काराः

स्पर्धयास्पृष्टमानसाः ।

प्रसन्नचेतसो नूनं

शिशवो वशिभिः समाः ॥ ९ ॥

५. सांसारिक लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए नानाप्रकार की चिन्ताओं से घन्तत तथा एक न-एक भय से विभ्रान्त माने सब तरफ दौड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं ।
६. प्रत्येक मनुष्य में अपने विभिन्न प्रयत्नों में साधक और बाधक वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति क्रमशः राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुआ करते हैं ।
७. परन्तु जगदीश्वर भगवान् की मातृ-रूपिणी माया से सुरक्षित शिशुओं में वह दुःख-दायिनी चिन्ता नहीं पायी जाती ।
८. राग, द्वेष और भय के भावों से शून्य, चिन्ता से रहित प्रेम के मूर्त्ति-स्वरूप शिशु सब के लिए प्रसन्नता को देनेवाले होते हैं ।
९. छुल-कपट और अहङ्कार से रहित, जिनके मन में स्पर्धा ने स्पर्श भी नहीं किया है, अत एव सदा प्रसन्न-चित्त शिशुओं को संयतेन्द्रिय महारमाओं के समान समझना चाहिए ।

नानाधिब्याधिविचिन्तानां

सन्तापैस्तत्तचेतसाम् ।

दुर्भाचनापरीतानां

मर्त्यलोकाधिवासिनाम् ॥ १० ॥

शान्तिप्रसादमाधुर्य-

दिव्यसंदेशवाहिनः ।

देवदूतान् शिशून्मन्ये

देवलोकादुपागतान् ॥ ११ ॥

१०. नाना प्रकार की आधियों और व्याधियों से लिख, सन्तानों से सन्तान और अनेकानेक दुर्भावनाओं से प्रस्त मर्त्यलोकाधिवासी लोगों के लिए
११. शान्ति, प्रसाद और माधुर्य के दिव्य सन्देशों को देने वाले शिशुओं को देवलोक से आये हुए देवदूत मानना चाहिए ।

अवस्थां शैशवीं तस्माद्

आहुरादर्शमुत्तमम् ।

मनीषिणो मनुष्याणां

कृते लोकहितैषिणः ॥ १२ ॥

बालभावेन तिष्ठासेद् विद्वान् शान्तिपरायणः ।

श्रुतिरैतज्जगौ तस्मात्लोककल्याणकाम्यया ॥ १३ ॥

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैर हेतुमद्भिर्विनिश्चितम् ।

आरुह्यो मुनेरर्थं शैशवाश्रयण हितम् ॥ १४ ॥

एतस्मात्कारणादेव शिशुभावेन कल्पिता ।

लोकैस्तरय जगद्गुरुं ह्येवा मूर्त्तिरुपास्यते ॥ १५ ॥

१२. इसीलिए लोकहितैषी मनीषियों ने मनुष्यों के लिए शैशवी अवस्था को उत्तम आदर्श कहा है ।
१३. इसीलिए-शान्तिपरायण विद्वान् को बालभाव से रहने की इच्छा करनी चाहिए—  
ऐसा लोक कल्याण की कामना से श्रुति (= वेद) ने गान किया है ।
१४. वेदान्तसूत्रों ने भी हेतु और उपपत्ति के साथ ऐसा सिद्धान्त निश्चित किया है  
कि आप्पात्मिक जगत् में उपर उठने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए शैशव-भाव को धारण करना प्रथमस्तर है ।

१ तु० "तस्माद् आश्रयः पाण्डित्यं निर्विषय वास्येन तिष्ठासेत् ।"

( बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।१ )

२. तु० "अनाविर्भूतं जन्वयात्" ( वेदान्तसूत्र २।४।५० )

११. उपर्युक्त कारण से ही सांसारिक लोग जगदीश्वर भगवान् की शिशु-भाव से कल्पित सुन्दर मूर्ति को उपासना करते हैं ।

तमेव शैशवादर्श-

मनुगच्छन्निरन्तरम् ।

प्रसन्नो दीपनिर्मुक्त-

स्तिष्ठेयमिति भावये ॥ १६ ॥

१६. उसी शैशवी अवस्था के आदर्श का निरन्तर अनुसरण करते हुए लोगों से रहित होकर मैं प्रसन्नता से रहूँ, यही मेरी कामना है ।

—

## तत्त्व-साक्षात्कारः

### परम-तत्त्व का साक्षात्कार

मूल-तत्त्व के चिन्तन और विश्वास को अपने जीवन का आधार और चरम लक्ष्य समझने वाले तत्त्वदर्शी विवेचक की दृष्टि से परम तत्त्व के स्वरूप के वर्णन के साथ साथ उसके चिन्तन से जनित अपनी अनुभूति का दिग्दर्शन भी नीचे की ( ५२ से ५८ तक की ) रचनाओं में किया गया है:—

( ५२ )

यस्मात्परतरं नास्ति तदहं नित्यमाश्रये

समस्त शक्तियों का मूल-स्रोत

आश्रयः सर्वशक्तीनां द्वन्द्वातीतं निरञ्जनम् ।

यत्तत्कारणमव्यक्तं शाश्वत पदमव्ययम् ॥ १ ॥

समष्टिभूतं सर्वासां व्यष्टीनामन्ततो मतम् ।

यस्मात्परतरं नास्ति तदहं नित्यमाश्रये ॥ २ ॥

[ १०६ ]

जो मूल-तत्त्व समस्त शक्तियों का आश्रय,  
 द्वन्द्वों से परे, अर्थात् सर्वदा एक रस, विशुद्ध  
 और सृष्टि का अव्यक्त कारण है;  
 जो घुव अविनाशी पद है;  
 अन्ततीगत्वा समस्त दृष्टियों का  
 जो समष्टि रूप है;  
 और जिससे परे कुछ नहीं है,  
 मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ॥



( ५३ )

## तदहं नित्यमाश्रये

मूल-तत्त्व में आस्था

प्रेमकारुण्ययोर्धाम

तत्त्वं विश्वनियन्तु यत् ।

जीवनस्य परं मूलं

तदहं नित्यमाश्रये ॥ १ ॥

विस्मृतेनापि बहुधा मया मोहवशेन हा !

विस्मये न क्षणं येन तदहं नित्यमाश्रये ॥ २ ॥

प्राणानामपि मे प्राणः परमं यत्परम्यणम् ।

वेरेण्ये शरणं पुण्यं तदहं नित्यमाश्रये ॥ ३ ॥

१. जो मूलतत्त्व प्रेम और कारुण्य का स्थान है,  
 जो समस्त विश्व को नियन्त्रण में रखता है,  
 जो जीवन का परममूल है,  
 मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

२. हा ! मैं मोहवश

प्रायः उसे भूले रहता हूँ ।

पर जो क्षण भर के लिए भी मुझे नहीं भुलाता,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

३. जो मेरे प्राणों का भी प्राण है,

जो जीवन का परम उत्कृष्ट आदर्श है,

जो वरणीय पवित्र शरण स्थान है,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

ध्यायन्ते योगिभिर्नित्यं ज्ञानिभिश्चिन्त्यते तथा ।

भक्ता गानरता यस्य तदहं नित्यमाश्रये ॥ ४ ॥

सन्तोऽपि यस्य सत्ताया विश्वासेन निरन्तरम् ।

जीघन्मुक्ता यसन्तीह तदहं नित्यमाश्रये ॥ ५ ॥

४. योगी सदा जिसका ध्यान करते हैं,

ज्ञानी जिसका चिन्तन करते हैं,

भक्त-जन जिसके गान में रत रहते हैं,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

५. सन्त-महात्मा जिसकी सत्ता के विश्वास से,

संसार में निरन्तर

जीघन्मुखों का जीवन व्यतीत करते हैं,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

गीयते कीर्तिसंगीतं

सुगन्धिसुमनोहरैः ।

निःशब्दं कुसुमैर्यस्य

तदहं नित्यमाश्रये ॥ ६ ॥

सौन्दर्यं विश्वविस्तोर्णं

कवयः क्रान्तदर्शिनः ।

पश्यन्त्पलांकिर्कं यस्य

तदहं नित्यमाश्रये ॥ ७ ॥

शुद्धोदात्तविचारेषु

परार्थे जीवने तथा ।

मन्ये मे दर्शनं यस्य

तदहं नित्यमाश्रये ॥ ८ ॥

व्यष्टेरस्या मदीयायाः सर्वस्वं निलयस्तथा ।

समष्टिरूपं यत्तत्त्वं तदहं नित्यमाश्रये ॥ ९ ॥

अपूर्णातासु सर्वासु

तथाकाङ्क्षास्वसंशयम् ।

संकेतो यस्य पूर्णस्य

तदहं नित्यमाश्रये ॥ १० ॥

यन्नूनं परमं सत्यं नैव किञ्चिद्बुद्धिर्यतः ।

सन्निधाद्यथ दूरे यत् तदहं नित्यमाश्रये ॥

६. सुगन्धित सुमनोहर पुष्प

जिसकी कीर्ति के संगीत का

नि शब्द-भास से गान करते हैं,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

७. जिसके समस्त विश्व में फैले हुए

अलौकिक सौन्दर्य को

मान्य दर्शी कविगण देखते हैं,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

८. पवित्र उदात्त विचारों में

तथा परार्थ जीवन में

मुझे जिसकी झोंकी मिलती है,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

९. जो विश्व का समष्टि रूप तत्त्व

मेरी इस व्यष्टि (= व्यक्ति ) का सर्वस्व

श्रीर एकमात्र निवेदन है,

मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

१०. समस्त अपूर्णताओं में

समा समस्त आकाङ्क्षाओं में



जिस पूर्ण तत्त्व का निखिन संकेत मिलता है,  
 मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।

११. निश्चय ही जो परम सत्य है,  
 जिससे बाहर कुछ भी नहीं है,  
 जो पास भी है और दूर भी है,  
 मैं सदा उसी का आश्रय लेता हूँ ।



( ५४ )

## कृष्णेत्याकर्षकं तत्त्वम्

### कृष्ण-तत्त्व-मीमांसा

ऊपर परम तत्त्व के साक्षात्कार का उल्लेख किया गया है । प्रश्न यह है कि वह साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? और उसका स्वरूप क्या है ?

ऐसी परम्परागत धारणा है कि इन्द्रियों की जहाँ तक गति है उससे ऊपर उठकर, इन्द्रियों का सर्वथा निरोध करके, योग शास्त्रोक्त धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा ही भगवान् का, परमतत्त्व का, साक्षात्कार किया जा सकता है ।

यदि ऐसा ही है तब देखना यह है कि वह साक्षात्कार किस रूप में होता है । उक्त दृष्टि में इन्द्रियों के सर्वथा निरोध के कारण यह स्पष्ट है कि वह साक्षात्कार ऐन्द्रियक प्रकार का नहीं हो सकता । अपूर्ण भाषा के सहारे उसे किसी प्रकार बुद्धिमय या उससे भी ऊपर उठकर स्वरूपावस्थिति के रूप में ही कहा जा सकता है ।

एक प्रकार से यह ठीक है । पर प्रश्न उठता है कि जब इन्द्रियों उस साक्षात्कार में बाधक ही हैं, तब क्या आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि की योजना में इन्द्रियों व्यर्थ ही हैं ? क्या वे बाधक होने के स्थान में आध्यात्म दर्शन में सहायक नहीं हो सकतीं ?

एक दिन प्रातः नैतिक ध्रमण के लिए जाते हुए यही समस्या विकट रूप में मन में उठी । निश्चय किया कि हमका समाधान आज ही होना चाहिए ।

नगर के बाहर की प्राकृतिक सौन्दर्यावली में विचरते हुए अनुभव किया—

प्रकृतेर्मातृभूतायाः क्रोडे श्रीउन्नारतम् ।

लालितः पालितश्चापि सदानन्दो वसाम्यहम् ॥ १ ॥

स्नेहार्द्रं नित्यसंस्थायि तस्या माधुर्यमद्भुतम् ।

दृष्ट्वा पीत्वेव पीयूषं सदानन्दो वसान्यहम् ॥ २ ॥

( रश्मिमाला ३६ )

अर्थात्—

प्रकृति-माता की गोद में  
सदा क्रीड़ा करता हुआ,  
तथा लालित और पालित,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।  
उसके स्नेह से आर्द्र, नित्य रहने वाले,  
अद्भुत माधुर्य को देखकर,  
मानों अमृत को पीकर,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।

अथवा

लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता ।

येयं प्रसादनी शक्तिर्लोकैः सर्वत्र संस्थिता ॥

सूर्ये चन्द्रे जले वायानुत्फुल्लकुसुमावली ।

सेयमाविर्भवेत् शश्वत् तिष्ठतान्मम मानसे ॥

( रश्मिमाला ३४।१-३ )

अर्थात्

लोकोत्तर दिव्य माधुर्य से समन्वित,

जो प्रसादनी शक्ति

सृष्टि में सर्वत्र—

सूर्य में, चन्द्रमा में, जल में, वायु में,

प्रफुल्ल कुसुमावलि में—

संस्थित है, वह आविर्भूत होकर

सर्वदा मेरे मन में वास करे ।

इसो मानसिक पृष्ठ-भूमि में भगवद्गीता के निम्न वचन (मरण हो आये—

रसोऽहमप्सु कान्तेय ! प्रभास्मि शक्तिमूर्त्ययोः ।

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसी ॥

( गीता ७।८-९ )

अर्थात्, जलों में रस, चन्द्र-सूर्य में प्रभा, पृथिवी में पवित्र सुगन्ध और अग्नि में प्रकाश—ये सब भगवान् के ही रूप हैं ।

उस समय यही प्रतीत होने लगा कि विश्व का यावत् सौन्दर्य भगवान् का ही सौन्दर्य है ! जैसे मांस-मज्जा आदि से पूर्ण और दुर्गन्ध से पूरित इस शरीर में जो मनोइत्ता और आकर्षण है उसके मूल में चेतन आत्मा की सत्ता है । इसी प्रकार इस विश्व में तत्तत् पदार्थों द्वारा जो दिव्य शान्ति, जीवन-प्रेरणा, अनन्तानन्त ऐश्वर्य और सौन्दर्य की प्रतीति इन्द्रियों द्वारा हो रही है, उस के मूल में मूलतत्त्व-स्वरूप मूल-भावना भगवान् की सत्ता है ।

उक्त दृष्टि से भगवान् के स्वरूप के साक्षात्कार में, अतुल्य में, स्पष्टतः इन्द्रियों साधक ही हैं, बाधक नहीं ।

उक्त भ्रमण में उद्भूत विचार उसी समय जिन पद्यों में प्रथित कर लिये गये थे वन्हीं को संक्षिप्त व्याख्या के साथ हम नीचे देते हैं—

आनन्दं शाश्वतं तेजो

लोकाद्बुद्धिमचेतसः ।

रुद्धात्ताः प्रयतन्ते यत्

स्वान्ते द्रष्टुं मनीषिणः ॥ १ ॥

तदेतदिन्द्रियैः साक्षात्

परिवः परमेष्ठिनम् ।

दृष्ट्वा भक्ताः प्रसीदन्तः

कीर्तयन्ति दिवानिशम् ॥ २ ॥

कृष्णेत्याकर्षकं तत्त्वम्

इन्द्रियाणामतो मतम् ।

गोप्यंस्तद्बृहत्तयस्तस्माद्

भक्तानां परिभाषया ॥ ३ ॥

मनीषी लोग संसार से उद्धिम चित्त हो कर जिस आनन्द-स्वरूप शाश्वत तेज को, इन्द्रियों का विशेष करके, अपने आनन्द रा अन्तःकरण में देखने का प्रयत्न करते हैं,

१. गवान् इन्द्रियाणां पालनं पुष्टिर्वा सद्गुक्तिभिरेव क्रियते । पुष्पेषु भ्रमर्य इव विषयेषु अहता इन्द्रियवृत्तयस्तद्रसं ग्रहीत्वा तेनैवेन्द्रियाणां वृष्टिं पुष्टिं च कुर्वन्ति । अन्यथा तेषां वैयर्थ्यापत्तेः क्षीणत्वसंभावनोत्पद्यते । अतो बृहत् एव गोप्यः ।

सर्वत्र परमेष्ठी ( परमे = ऊँची स्थिति में स्थित, अर्थात्, आगततः उद्भूत अनुभवों की अपेक्षा उत्कृष्टतर अनुभव से गम्य ) उसी मूल तत्त्व को भक्त-जन साक्षात् इन्द्रियों द्वारा देखकर ( = अनुभव करके ) दिनरात उस का कौतूहल करते हैं ।

इसलिए इन्द्रियों के लिए आकर्षक होने से वह मूल तत्त्व, भक्त-जनों की परिभाषा में, 'कृष्ण' इस नाम से कहा जाता है और इन्द्रियों की वृत्तियों को 'गोपी' ( गो = इन्द्रियों को पालने या पुष्ट करने वाली ) कहा जाता है ।

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दृष्टि से इस अनन्तानन्त परम-विशाल विश्व के द्वारा जिसका सुन्दर रूप हमें सदैव इन्द्रिय-गोचर हो रहा है और जो स्वभावतः इन्द्रियों के लिए 'आकर्षक' है उसी परम तत्त्व को 'कृष्ण' इस नाम से कहा जाता है ।

अपनी वृत्तियों द्वारा ही इन्द्रियों को बाह्य दृश्यों का बोध होता है । दूसरे शब्दों में, इन्द्रियों के इन्द्रियत्व को सार्थक करने वाली या उनको पुष्ट करने वाली ( = उनके भोग्य अनुभवों को देनेवाली ) इन्द्रिय वृत्तियाँ ही हैं ।

इन्द्रियों का नाम 'गौ' है । इसलिए उनकी वृत्तियों को 'गोपी' कहा जाता है । इन वृत्तियों ( = गोपियों ) का स्वाभाविक 'आकर्षण' ( = प्रवृत्ति ) बाह्य जगत् की ओर है ।<sup>१</sup> जैसे मधु मक्खियों नाना प्रकार के पुष्पों से मधु को, या सूर्य-रश्मियाँ नाना प्रकार के जल-स्थानों से विशुद्ध जलको खींच लेती हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक उत्कर्ष की अवस्था में इन्द्रियों में बाह्य जगत् के द्वारा ही परम तत्त्व-स्वरूप भगवान् के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है ।<sup>२</sup> इन्द्रियों द्वारा परम तत्त्व के साक्षात्कार का यही अर्थ है ।

बाह्य जगत् में भगवान् की स्थिति आपाततः नहीं दिखायी देती; आध्यात्मिक उत्कर्ष की अवस्था में ही उसका भान होता है । इसीलिए परम तत्त्व को 'परमेष्ठी' कहा गया है ।

यह आध्यात्मिक दृष्टि जिन की हो जाती है सच्चा 'भक्त' उन को ही कहना चाहिए । वास्तव में 'कृष्ण' और 'गोपी' ये शब्द भी उन्हीं की परिभाषा के हैं ।

ऐसे ही भक्तों की आध्यात्मिक भावना का वर्णन इस ग्रन्थ की अन्तिम रचना ( संख्या ५८ ) में किया गया है ।

—

१. तु० "पराधि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः" (कठोपनिषद् २।१।१)। तथा "प्रकृति यान्ति भूतानि निमद्मः किं करिष्यति ।" ( भगवद्गीता ३।३२ ) ।

२. तु० "अदृश्यमपि यत्तत्त्वं लौकिकानामगोचरम् । तदैव परितः स्पष्टं विदुषानां प्रतीयते ॥" ( रश्मिमाला ६१।२ ) ।

( ५५ )

## आनन्दानुभूतिः

आनन्द की अनुभूति

नित्यं तस्य जगद्भर्तुः प्रतिवेशे वसन्नपि ।

दारिद्र्येणाभिभूतोऽहमिति मिथ्यामतिर्मम ॥ १ ॥

सदा उस विश्वंभर भगवान् के पदोस में रहते हुए भी मेरा 'मे दारिद्र्य से अभिभूत हूँ' ऐसा सोचना मेरी मिथ्यामति ही है ।

पेयस्यामृतकन्परय जीवन्तस्यान्तिके सतः ।

पिपासाकुलितस्येव महामूर्खस्य सा स्थितिः ॥ २ ॥

मेरी यह स्थिति पीने के योग्य और अमृत के समान जल के पास में होते हुए भी प्याससे व्याकुल महामूर्ख के समान ही है ।

( ५६ )

## अनन्ते प्रगतेमार्गे

प्रगति का अनन्त मार्ग

अनन्ते प्रगतेमार्गे गच्छन्सोह्लासमानसः ।

नानाविधानि दृश्यानि परयन्तानन्दनिर्भरः ॥ १ ॥

अनासक्तः क्वचित् , स्वीयं यात्रोद्देश्यं च संस्मरन् ।

सर्वदा सर्वथा स्वस्थः सदानन्दो वसाम्यहम् ॥ २ ॥

प्रगति के अनन्त मार्ग पर

मन में उल्लास के साथ चलते हुए,

• नाना प्रकार के दृश्यों की

आनन्ददातिशय से देखते हुए,

कहीं भी आसक्त न हो कर

अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्मरण में रखते हुए,

सर्वदा सब प्रकार से शान्त-वित्त,

में सदा आनन्द से रहता हूँ !

१. "पयः कीलालममृतं जीवन् भुवर्षं वनम्" इत्यमरः ।

( ५७ )

## सदानन्दो वसाम्यहम्

आनन्द-निर्झर भगवान्

विश्वात्मा भगवान् नूनम्,

साक्षादानन्दनिर्झरः ।

तस्यान्तः संस्थितः स्वस्थः

सदानन्दो वसाम्यम् ॥ १ ॥

योऽसौ सर्वजगद्गुरुराभारं वहति सर्वदा ।

तस्मिन्न्यस्यापिलाञ्छिन्ताः सदानन्दो वसाम्यहम् ॥ २ ॥

योऽसौ सर्वजगत्साक्षी भगवान् पुढपोत्तमः ।

तदाश्रयेण निश्चिन्तः सदानन्दो वसाम्यहम् ॥ ३ ॥

चिन्तासन्तानसंतापैः

सिद्धानां परमौषधम् ।

आत्मविश्वासमाश्रित्य

सदानन्दो वसाम्यहम् ॥ ४ ॥

१. विश्वात्मा भगवान् निषय ही

साक्षात् आनन्द के निर्झर हैं ।

उन के अन्दर स्थित, शान्तचित्त,

मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।

१. आनन्दानुभूति की तीव्र झालसा से वैदिक साहित्य ओत-प्रोत है । उदाहरणार्थ नीचे के प्रमाणों को देखिए —

स्वरभिविह्वलेपम् । ( ऋग् १।११ )

यत्र पयोतिरक्षत्र यस्मिन् लोके स्वर्द्धितम् ।

तस्मिन् मां धेहि पशुमान्मृते लोके अक्षिते । ( ऋग् १।११३।७ )

लोह यत्र पयोतिश्मन्तस्तत्र मान्मृतं कृषिः ( ऋग् १।११३।९ )

यत्रानन्दाय मोदाय मुद प्रमुद आधने ।

धामस्य यत्राता कामास्तत्र माम्मृतं कृषे । ( ऋग् १।११३।११ )

२. जो सदा संपूर्ण जगत् की रक्षा के  
भार को उठाये हुए हैं,  
उन्हीं पर सारी चिन्ताओं को छोड़ कर  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।
३. वे जो सारे जगत् के साक्षी  
भगवान् पुरुषोत्तम हैं,  
उन्हीं के आश्रय से निश्चिन्त हो कर,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।
४. चिन्ता की परम्परा के संताप से  
स्त्रियों के लिए परम औषधरूप  
आर्य विश्वास के आश्रय को पाकर,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ ।



( ५८ )

## अयि विश्व-भावन ! विश्वभृद्

भगवान् की महिमा

अयि ! विश्वभावन विश्वभृत्  
करुणानिधान नमोऽस्तु ते ।  
महिमा महान् मम मानसे  
महनीय देव ! विभाति ते ॥ १ ॥  
गिरिमूर्ध्नि निर्जनकानने  
रमणीयतैकनिवेत्तने ।  
सङ्घितां गगैरतिशोभने  
परिभासि ते महिमा धने ॥ २ ॥

तपनातपेन विभासिते  
 गगनाङ्गणे विद्यु-भा-सिते ।  
 उड्डुवन्ददीप्तिविचित्रिते  
 तव रोचिरेव विरोचते ॥ ३ ॥

१. अग्नि विश्व-भावन ! विश्वम्भर !  
 कहरा-निधान ! आपकी मेरा नमस्कार है ।  
 हे पूजनीय देव ! आपकी बड़ी महिमा  
 मेरे मन में भासित हो रही है ।
२. पर्वत के शिखर पर, अथवा रमणीयता के  
 एकमात्र निकेतन निर्जन कानन में,  
 अथवा धरावर दमकती हुई क्षमिनी  
 से शोभित बादल में आपकी महिमा भासित हो रही है ।
३. सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित,  
 अथवा चन्द्रमा की चँदनी से शोभायमान,  
 अथवा तारा समूह की क्षिति से विचित्रित  
 गगन के अंगण में आपकी ही छवि चमकती है ।

द्विजवृन्दशब्दनिक्कूजिते  
 कुसुमावलीपरिशोभिते ।  
 मलयानिलेन सुगन्धिते  
 मृगसंवेनेन निवेधिते ॥ ४ ॥  
 शुभशीतनिर्झरवारिणर  
 सरसीतटे परिपूरिते ।  
 मुनियोगिवृन्दसमचिते  
 महिमा विभो ! तव भासते ॥ ५ ॥

४. पक्षि-समूहों के शब्दों से शब्दायमान,  
 पुष्पों की पंक्तियों से शोभायमान,  
 मलयानिल से सुगन्धित,  
 मृगों के समूहों से निवेधित,



२. जो सदा संपूर्ण जगत् की रक्षा के  
भार को उठाये हुए हैं,  
उन्हीं पर सारी विन्ताओं को छोड़ कर  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ !
३. ये जो सारे जगत् के साक्षी  
भगवान् पुण्योत्तम हैं,  
उन्हीं के आश्रय से निखिन्त हो कर,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ !
४. विन्ता की परम्परा के संताप से  
सिद्धों के लिए परम औषधरूप  
आत्म-विश्वास के आश्रय को पाकर,  
मैं सदा आनन्द से रहता हूँ !



( ५८ )

## अयि विश्व-भावन ! विश्वभृद्

भगवान् की महिमा

अयि ! विश्वभावन विश्वभृत्  
करुणानिधान नमोऽस्तु ते ।  
महिमा महान् मम मानसे  
सहनीय देव ! विभाति ते ॥ १ ॥  
गिरिमूर्ध्नि निर्जनकानने  
रमणीयसैकनिकेतने ।  
तडितां गणैरतिशोभने  
परिभाति ते महिमा यने ॥ २ ॥

५. झरनों के स्वच्छ शीतल जलों से  
परिपूरित झीलों के तटपर,  
जहाँ मुनियों और योगियों के दर्शन होते हैं,  
दे प्रभो ! आपकी महिमा दृष्टिगोचर होती है ।

विजितान्तरारिचमुचयाः

शुभशान्तवृत्तिसदाशयाः ।

विहिताधिदेवसमाश्रयाः

प्रणिधानजातविनिश्चयाः ॥ ६ ॥

परदु रतापकदर्शना

मयितु समाहितभावना ।

तव तन्मन सु विरोचना

द्युतिरस्ति चेऽत्र तपोधनाः ॥ ७ ॥

६. जिन्होंने आभ्यन्तर शत्रुओं को सेनाओं को भीत लिया है,  
जिनको वित्त-वृत्तियों पवित्र और शान्त हैं और जो सदाशय हैं,  
जिन्हें एकमात्र भगवान् का सहारा है,  
जिन्होंने वित्त की एकमता से तात्त्विक ज्ञान को पा लिया है,
७. दूसरों के दुःख के तापों की पीड़ाओं को  
दूर करने के लिए जिन्होंने अपनी भावनाओं को पवित्र बनाया है,  
उन तपोधनों के हृदयों में  
आपकी शोभायमान द्युति विराजमान है ।

मुनिभिर्भवानिह चिन्त्यते

प्रतिभिर्भवान् परिचीयते ।

निगमस्तथा जगदीश ! ते

हुपपर्जनैत्यनसीयते ॥ ८ ॥

निजनीडसश्रितपक्षिभि-

रुपसीह सायमु राविभिः ।

शुगकीर्तनं तत्र योगिभिः

क्रियते समाहितद्युद्धिभिः ॥ ९ ॥

८. मुनिजन आपकी चिन्तना करते हैं;  
 मती लोग आपका परिचय प्राप्त करते हैं ।  
 हे जगदीश ! वेद भी निश्चय ही  
 आपके गुणों का वर्णन करते हैं ।

९. अपने घोंसलों में बैठकर प्रातः  
 और सायं शब्द करने वाले पक्षियों द्वारा  
 तथा समाहित बुद्धिवाले योगियों द्वारा  
 आपके गुणों का कीर्तन किया जाता है ।

सगुणो भवानिह कर्मठै-  
 रपि निर्गुणः कथितः कठैः ।  
 तव चित्रमत्र चरित्रमा-  
 त्मरतैरवेक्ष्यमसंशयैः ॥ १० ॥

विपिनेऽथवा गिरिगह्वरे  
 परितो दरेऽपि मनोहरे ।  
 समुपहरे त्वयि सुन्दरे  
 मुनयो हरे ! निरताः परे ॥ ११ ॥

१०. आप कर्मकाण्डियों द्वारा सगुण  
 और उपनिषदों द्वारा निर्गुण कहे गये हैं ।  
 आपके विचित्र चरित्र को  
 संशय से रहित आत्म-रत लोग ही देख सकते हैं ।

११. हे भगवन् ! चारों ओर भय के होने पर भी मनोहर  
 विपिन में, अथवा पर्वत की गुफा में, अथवा एकान्तस्थान में  
 मुनिजन सौन्दर्य से मुग्ध तथा परमधाम-स्वरूप  
 आपके ध्यान में ही निरत रहते हैं ।

यदजं ध्रुवं परितस्ततं  
निगमागमैरपि संस्तुतम् ।  
तव तत्स्वरूपमहं भजे  
शिव ! शान्तिधाम निरन्तरम् ॥ १२ ॥

॥ इत्यमृतमन्थने प्रज्ञापसादौ नाम तृतीयः परिस्रवः ॥

१२ हे शिव ! हे शान्तिधाम ! भगवन् !  
मैं आपके उच्च स्वरूप को निरन्तर भजता हूँ,  
जो अजन्मा, कूटस्थ, सर्वत्र व्यापक  
और निगम तथा आगम द्वारा संस्तुत है ।

## परिशिष्ट-भाग

जीवन और जीवन के अनुभवों के सम्बन्ध में 'अमृत-मन्थन' की रचनाओं में ग्रन्थकर्ता की एक विशेष दृष्टि रही है। उसी दृष्टि के स्पष्टीकरणार्थ अपनी पुस्तक 'रश्मि-माला' ( अथवा 'जीवनसंदेश-गोताञ्जलि' ) से कुछ उपयोगी उद्धरण परिशिष्ट रूप में आगे दिये जाते हैं।

# परिशिष्ट १

( क )

## आशा सर्वोत्तमं ज्योतिः

आशा सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है

“अस्माकं सन्त्वाशिपः ।

सत्या नः सन्त्वाशिपः ॥” [ यजु० २।१० ]

अर्थात्, हम आशावादी बनें । हमारी आशाएँ सफल हों ।

भारतीय विचार-धारा में इधर चिरकाल से ‘संसार अज्ञान है’, ‘जीवन क्षणभंगुर और मिथ्या है’ इस प्रकार की निराशावाद की भावनाओं का साम्राज्य रहा है । हमारी जाति के जीवन को शक्तिहीन, उत्साहहीन और आदर्शहीन बनाने में निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन नहीं जानता ? पर भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा में आशावाद सदा से अति-प्रोत्त रहता है । उसी आशावाद के स्वरूप और महिमा का वर्णन नीचे किया जाता है—

निराशायाः समं पापं मानवस्य न भिद्यते ।

तां समूलं समुत्सार्य ह्याशावादपरो भव ॥ १ ॥

मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है । इसलिए तुम्हें उस पाप-वपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए ।

मानवस्योन्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्य च ।

चारितार्थ्यं तथा सृष्टेराशायादे प्रविष्टितम् ॥ २ ॥

मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता आशावाद में ही प्रविष्टित हैं ।

आशा सर्वोत्तमं ज्योतिर्निराशा परमं तमः ।

तस्माद् गमय तज्ज्योतिस्तमसो मामिति श्रुतिः<sup>१</sup> ॥ ३ ॥

१. तु० ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ ( षुद्धारण्यकोशनिबन्ध १।२।२८ ) ।

आशा सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है। निराशा घोर अन्धकार है। इसलिए "भगवन् ! मुझको अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलिए" ऐसा श्रुति का वचन है।

आस्तिक्यमात्मविश्वासः कारुण्यं सत्यनिष्ठता ।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो नूनमाशावतामिह ॥ ४ ॥

आस्तिकता (= जीवन में आदर्श भावना), आत्मविश्वास, करुण्य, सत्यपरायणता और उत्तरोत्तर समुन्नति—संसार में इनका सद्भाव आशावादियों में ही हो सकता है :

निराशावादिनो मन्दा निष्ठुराः संशयालयः ।

अन्ये तमसि ममास्ते श्रुतायात्मद्वन्द्वो मताः ॥ ५ ॥

निराशावादी लोग स्वभाव से ही मन्द ( उदात्त भावनाओं से विहीन ), निष्ठुर ( असंवेदनशील ) और संशयालु होते हैं। वेद<sup>१</sup> में ऐसे दो लोगों को उदात्त आदर्शों की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्मविस्मृति-रूप आत्महत्या करने वाला कहा गया है। ( रश्मिमात्रा १ )



( ख )

## जीवनस्य रहस्यम्

जीवन का रहस्य

“लोका यत्र ज्योतिष्मन्त-

स्तत्र माममृतं कृधि ।” [ ऋग् ० ६।११३।६ ]

अर्थात्, भगवन् ! मुझे ज्योतिर्मय लोकों में अमृत पद (= शाश्वत जीवन) प्राप्त कराइये।

१. तु० “असुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसावृताः ।

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चारमहनो जनाः ॥” ( यजु० ४०।३ )

अर्थात्, आत्मस्व या आराम चेतना की विस्मृति-रूप आत्महत्या ( अर्थात्, जीवन में आदर्शभावना का अभाव ) न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियों और राष्ट्रों के लिए भी, किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार में गिराकर सर्वनाश का देव होती है।

- 'जीवन निःसार और मिथ्या है', 'जीवन बन्धन या कारागार के समान है और उससे छुटकारा ( मोक्ष ) पाना ही हमारा परम कर्तव्य है' ऐसी मिथ्या-भावनाओं ने हमारे आतीय जीवन की विरकाल से नष्ट-भ्रष्ट कर रखा है। इनके कारण ही, जेल के कैदी के समान, हम स्वभावतः, न केवल अपने ही, किन्तु जाति, राष्ट्र या मानव के भी विकास और समुत्थान से प्रायः उदासीन रहे हैं।

परन्तु नीचे जीवन के विषय में एक नयी दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। उसके अनुसार जीवन मिथ्या होने के स्थान में परमात्मा का एक महान् प्रसाद है। इस अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड में अनन्त विकास और समुत्थान का साधन जीवन ही है। वास्तव में तो हमारा जीवन शाश्वत है। हमारा यह जीवन उसी शाश्वत अनन्त जीवन की प्राप्ति का एक अनिवार्य और अमूल्य साधन है। इसी लिए उसमें आस्था की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है:—

जीवनं परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः ।

तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः ॥ १ ॥

जीवन जगदीश्वर का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है। मनीषी लोग ही उसके वास्तविक स्वरूप और रहस्य को समझते हैं।

जीवनस्य भयं मृत्योर्मरणान्तं च जीवितम् ।

आ जन्मनः क्रमेणायुर्हासो मृत्युपथानुगः<sup>१</sup> ॥ २ ॥

इत्येवं नैकधानर्थमूलं मिथ्यामतिर्नृणाम् ।

जीवनास्थाविहीनास्तान् विदधाति भयादितान् ॥ ३ ॥

'जीवन को मृत्यु का भय है', 'मृत्यु पर्यन्त ही जीवन है', तथा 'जन्म से ही आयु घटने लगती है और बराबर मृत्यु के पास पहुँचती जाती है' इस प्रकार के अनेकानेक अर्थों के मूल परम्परागत मिथ्या विचार मनुष्यों को जीवन में आस्था से रहित और भय से व्याकुल बनाते हैं।

निराशावादिनो मन्दा मोहावर्त्तेऽत्र दुस्तरे ।

निमग्ना अवसीदन्ति पङ्के गावो यथावशाः ॥ ४ ॥

१. तु० "मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवनमुच्यते सुभैः" ( रघुवंश ८।८७ ) तथा "संसारः स्वप्नमात्रं चलाः प्राणा धनं तथा । सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिने दिने ॥"

अर्थात्, मनुष्य के लिए मृत्यु स्वाभाविक और जीवन अस्वाभाविक है। एवं संसार स्वप्नमात्र है, प्राण और धन चलायमान है। संसार में सुख के स्थान में बराबर दुःख ही दुःख ही पड़ता है।



दुःखों से विहीन निरोगवादी लोग मोह के दुस्तर भँवर में पड़े हुए  
 दुःखों के समान दुःख को पाते हैं ।

तेभामिवानुकम्पार्थमभिधत्तेऽसकृच्छ्रुतिः ।

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि”, “जीवा ज्योतिरशीमहि”<sup>१</sup> ॥ ५ ॥

उनके प्रति अनुकम्पा के भाव से ही जेद में “मनुष्य को छौ बर्ष तक कर्म करते हुए ही जेनि की इच्छा करना चाहिए”, “हम बराबर प्रकाशमय आशामय जीवन को प्राप्त करें” इस प्रकार बार-बार कहा गया है ।

कर्मैव जीवनं तस्माद्, विकासस्तस्य भास्वरः ।

उत्तरोत्तरलोकेषु कर्तव्यत्वेन मन्यताम् ॥ ६ ॥

इसलिए कर्म का ही नाम जीवन है । उत्तरोत्तर लोकों या अवस्थाओं में उसके प्रकाशमान विकास को ही हमें अपना ध्येय समझना चाहिए ।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षिं जीवनं शाश्वत हि नः ।

अस्पृष्टं तमसा चापि मोहरूपेण सर्वथा ॥ ७ ॥

वास्तव में हमारा जीवन उत्तरोत्तर समुच्चिरील और शाश्वत (= सदा रहने वाला ) है । उसका स्वरूप अज्ञान-रूपी अन्धकार से सर्वथा अस्पृष्ट है ।

( रश्मिमाला २ )

( ग )

## संयतस्व जीवनाय

जीवन के लिये बराबर यत्न करो

“उदायुषा स्वायुषोदस्थाम् ॥” [ यजु० ४।२८ ]

अर्थात्, हम दीर्घ और शुभ जीवन के लिए सदा उद्योगशील रहें ।

१. ब्र० “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्मसा” ( मनु० ४०।२ ) ।

२. ब्र० “जीवा ज्योतिरशीमहि” ( ऋगु० ७।२।२६ ) ।

प्राप्य मानवीयजन्म पुण्यकर्मसंचयेन ।

दीनदुःखिरक्षण्येन संयतस्व जीवनाय ॥ १ ॥

मनुष्य जन्म को पाकर, पवित्र कर्मों का संचय और दीन-दुखियों की रक्षा सेवा करते हुए जीने का यत्न करो ।

सत्पथानुवर्तनेन भव्यभावभावेन ।

लोकसंप्रसारणेन संयतस्व जीवनाय ॥ २ ॥

सदाचार के मार्ग पर चलते हुए, सुन्दर-समुन्नत विचारों को रखते हुए और लोक-कल्याण का प्रसार करते हुए जीने का यत्न करो ।

दैन्यभावभङ्गनेन धैर्यधर्मधारणेन ।

वीरतासमाश्रयेण संयतस्व जीवनाय ॥ ३ ॥

दीनता के भाव का भङ्गन करते हुए, धैर्य रूपी धर्म को धारण करते हुए, वीरता-पूर्वक जीने का यत्न करो ।

जीवनं त्विदं मुचेति पामरा जना वदन्ति ।

वैव तत्तथा, ततोऽत्र सयतस्व जीवनाय ॥ ४ ॥

यह जीवन मिथ्या है, ऐसा मूर्ख-पामर लोग कहते हैं । पर जीवन मिथ्या नहीं है । इसलिए इस संसार में जीने का यत्न करो । ( रश्मिमाला ३ )



( घ )

## दुःख-मीमांसा

### दुःख के स्वरूप पर विचार

हमारे देश की विचारधारा में इधर विरकाल से दुःख-विषयक विचारों और तन्मूलक विभीषिका ने एक ऐसा वातावरण बना रखा है जो वैयक्तिक तथा जातीय दोनों दृष्टियों से हमारे लिए प्रायेण घातक सिद्ध हुआ है । 'संसार दुःखमय है, अतएव असार और हेय है', 'जीवन दुःख रूप है, अतएव बंध (= कारागार) है, उससे किसी प्रकार छुटकारा ( मोक्ष ) पाना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है',<sup>१</sup>

१. दु० "अयं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" ( सांख्यसूत्र १।१ ) ।

‘दुःख सबसे ही प्रतिकूल और बाधा के रूप में प्रतीत होता है’,<sup>१</sup> ‘विवेकी मनुष्य को सब कुछ दुःखरूप में ही देखना चाहिए’<sup>२</sup>—इस प्रकार के विवाक अनार्य विचारों ने जहाँ एक ओर हमारे जीवन को नीरस, मन्द, उसाह-हीन, नीरसपूर्ण और अकर्मण्य बनाने में बड़ा भाग लिया है, वहाँ दूसरी ओर हमारे करोड़ों भाइयों में जीवन-संपर्ष से मुँह छिपाकर, प्रायः अपरिपक दशा में ही, संन्यास की मिथ्या-प्रवृत्ति को परापर प्रोत्साहित किया है।

दुःख के विषय में उपर्युक्त विचारों से यदि कोई भागे बड़े हैं तो उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि कर्मयोगी को सुख-दुःख को समान समझकर ही जीवन के मुद्द में प्रवृत्त होना चाहिए।<sup>३</sup>

परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दुःख के स्वरूप के विषय में हम एक नितरां नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं।<sup>४</sup> हमारे परिहान में ये विचार भारतीय वाक्य में कहीं देखने में नहीं आते हैं। दुःखों से उद्भिन्न मानव को उनसे एक नया ही प्रश्न मिलेगा, देवी हमारी धारणा है।

नीचे के पृष्ठों में दुःख के विषय में युक्ति और उपपत्ति के साथ जो सिद्धांत हमने उपस्थित किये हैं वे संक्षेप में सुदृशतः इस प्रकार हैं—

( १ ) दुःख की प्राप्ति आकस्मिक या अदृष्टक नहीं होती।

( २ ) सृष्टि की योजना में दुःख की प्राप्ति निश्चयोजन नहीं हो सकती।

( ३ ) दुःख से लगनेवाले भय के मूल में हमारा अज्ञान ही कारण होता है।  
मदान् पुरुष तो दुःख और कष्टों का स्वागत ही करते हैं।

( ४ ) दुःखों को अर्थसिद्धि की आवश्यक भूमिका समझना चाहिए।

( ५ ) स्वेष्य से स्वीकृत दुःख तप के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है।  
तप से ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

( ६ ) मनुष्य की समुच्चरित में दुःख केवल सीढ़ियों के गमान होते हैं।

नहीं इस लक्ष्य को बचाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे हम पृष्ठों का केवल स्पष्टार्थ देते हैं—

उद्वेगजनकं दुःख सर्वेषामेव प्राणिनाम् ।

सेधमापाततो बुद्धिस् तत्त्वदृष्ट्या विविच्यते ॥ १ ॥

इस संसार में दुःख से सब कोई धनदाते हैं; दुःख को उद्वेग जनक समझते हैं। दुःख के विषय में यह जो आपाततः विचार है उसका यहाँ हम तात्त्विक दृष्टि से विवेचन करेंगे।

न चैवाकस्मिक दुःख न चाप्यस्यप्रयोजनम् ।

न चैवावश्यकं, दुःख दुःखमित्येव मन्यताम् ॥ २ ॥

दुःख के विषय में विचार करने पर, न तो हम उसको आकस्मिक अथवा अहेतुक कह सकते हैं, न निष्प्रयोजन। दुःख को दुःख के रूप में ही अनुभव किया जाय, यह भी आवश्यक नहीं है।

दुःख आकस्मिक नहीं हो सकता, इसका समर्थन नीचे करते हैं—

कार्यकारणसूत्रेण सूत्रधारेण केनचित् ।

चान्यमाने जगत्पस्मिन् कथं दुःखमहेतुकम् ? ॥ ३ ॥

इस जगत् या विश्व के सूत्रधार या नियामक परमात्मा कार्य और कारण के सूत्र अर्थात् नियम द्वारा सारे जगत् का संचालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी के ऊपर आनेवाला दुःख अहेतुक है, अर्थात् उसका कोई हेतु नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ?

दुःख निष्प्रयोजन भी नहीं हो सकता, इसका समर्थन नीचे करते हैं—

गर्भावस्थां समारभ्य या यावस्थानुभूयते ।

प्राणिना, वद्धितायैव स्पष्टं तस्याः प्रयोजनम् ॥ ४ ॥

जब से प्राणी गर्भावस्था में आता है, उसे बराबर नई नई दशाओं का अनुभव करना पड़ता है। शाओं में उनका प्रायः भयानक दुःखमय अवस्थाओं के रूप में वर्णन मिलता है। उन दशाओं को हम दुःखमय मानें या न मानें, इतना तो स्पष्ट है कि उनका प्रभाव प्राणी के लिए हितकर ही होता है।

अभिप्राय यह है कि गर्भावस्था के समस्त प्रत्येक दुःखावस्था मनुष्य के हित के लिए ही होती है। गर्भावस्था के अनुभव के पश्चात् ही राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे अवतारी पुरुष बनते हैं।

एवं स्थानवरलोकेऽपि वृक्षादीनां समुद्भवे ।

नानावस्थास्तु धीजस्य जायन्ते सप्रयोजनाः ॥ ५ ॥

इसी प्रकार स्थावर जगत् में भी वृक्ष आदि की उत्पत्ति में बीजों के पश्चात् बीज की जो सड़ने-गलने आदि की अनेक अवस्थाएँ होती हैं वे सब सप्रयोजन होती हैं। बीज थोए जाने के पीछे पहले गलता है, फिर सड़ता है। तब कहीं वह अंगूर के रूप में उगता है और अंत में आम, अनार, अंगूर जैसे उपयोगी और सुंदर वृक्षों के रूप में आता है। इस प्रकार आगततः दुःख की अवस्थाओं की भी जानना चाहिए। दुःखावस्था से हमारा अंत में हित ही होगा, यही समझना चाहिए।

तत्रैवं सति लोकेऽस्मिन् दुःसावस्थेति या मता ।

सप्रयोजनता तस्या नूनं नैवात्र संशयः ॥ ६ ॥

इसलिए संसार में जिसको दुःख की अवस्था माना जाता है उसका ईश्वर की रक्षि में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है, यही मानना चाहिए।

सहेतुकत्वमित्येवं सप्रयोजनतां तथा ।

दुःखस्यावेद्य तत्त्वज्ञो न ततो विजुगुप्सते ॥ ७ ॥

इस प्रकार दुःख की सहेतुकता और सप्रयोजनता को समझकर, अर्थात् यह मन में बैठकर कि ईश्वर की सृष्टि में जो कोई दुःख आता है उसका कोई कारण और प्रयोजन भी अवश्य होता है, तत्त्वज्ञानी मनुष्य दुःखों से कभी नहीं घबराता।

अन्धकारगतः कश्चिद् यथाकस्माद् भयातुरः ।

भवेत्तथैव दुःखेभ्यो मन्दानां जायते भयम् ॥ ८ ॥

जैसे अंधेरे में खड़ा हुआ मनुष्य वास्तविक स्थिति को नहीं समझता और 'न जाने कहाँ से क्या आपति आ जाय' यह सोचकर भय से व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग दुःख के कारण और प्रयोजन को न समझते हुए डरते डरते रहते हैं।

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टप्रगतावुत्सुकस्तु यः ।

दुःखानां स्वागतं कुर्यात् तत्त्वज्ञो नावसीदति ॥ ९ ॥

पर तत्त्वज्ञानी मनुष्य, जो अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति के लिए उत्सुक रहता है, दुःखों का स्वागत करता हुआ उनसे विपाद को नहीं प्राप्त होता।

यथा छात्रस्य कस्यापि तापसस्य धनार्थिनः ।

कष्टानां महतामङ्गीकारो दृष्टः फलार्थिनः ॥ १० ॥

जैसे अपने घरने अभीष्ट लक्ष्य ( धन से विद्या, आध्यात्मिक विद्वि और धर्म ) की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करनेवाला एक विद्यार्थी, तपस्वी या धनार्थी प्रयत्नता से बड़े बड़े कष्टों को सहता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दुःखों और कष्टों को सहर्ष स्वीकार करता है।

विधातुः सर्वलोकस्याभिप्रायोऽप्येष दृश्यते ।

यत्कार्यसिद्धितः पूर्वं कष्टस्वीकरणं मतम् ॥ ११ ॥

समस्त संसार की सृष्टि करनेवाले प्रजापति का अभिप्राय भी यही दीखता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि से पहले कष्ट या दुःख को उठाना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में, भगवान् की रची हुई इस सृष्टि में सब के लिए यह स्वाभाविक है कि अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए कष्ट या दुःख को उठाना ज़रूरी है।

अथ एव सिद्धुः सन् लोकानेतान् प्रजापतिः ।

‘तपोऽतप्यत’, नैकत्र श्रूयते ब्राह्मणादिषु ॥ १२ ॥

इसीलिये शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जहाँ-कहाँ ‘प्रजापति ने इन लोकों की सृष्टि करने की इच्छा की’, इस बात का प्रसंग आया है वहाँ ‘प्रजापति ने तप किया’ ऐसा कहा गया है।

अभिप्राय यह है कि औरों की तो बात ही क्या, प्रजापति या ब्रह्मा को भी सृष्टि की रचना से पहले तप करना पड़ता है।

स्वेच्छा से स्वीकार किए गए दुःख या कष्ट को ही तप कहते हैं, यह नीचे कहा गया है—

शिवस्य नीलकण्ठस्य विषपानं युद्धुच्यते ।

• व्याख्यानमस्य तेनापि सिद्धान्तस्य विधीयते ॥ १३ ॥

पुराणों में भगवान् नीलकण्ठ शिव की विष-पान की कथा प्रसिद्ध है। वास्तव में उस कथा से उक्त सिद्धांत की ही व्याख्या की गई है। संसार में कौन स्वेच्छया विषपान करने को तैयार होगा? फिर भी लोक कल्याण की इच्छा से शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक भयंकर विष का पान किया। इसलिए अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए प्रसन्नतापूर्वक कष्ट को स्वीकार करना चाहिए।

रामस्य तस्य भीष्मस्य युद्धस्यापि महात्मनः ।

क्राइस्टस्य जिनस्यापि गान्धिनश्च महात्मनः ॥ १४ ॥

जीवनेषु तथान्येषां लोकोत्तरयशस्विनाम् ।

स्वेच्छयैव सुख त्यक्त्वा कष्टस्वीकरणं मतम् ॥ १५ ॥

उक्त कारण से ही भगवान् राम, युप्रसिद्ध भीष्म पितामह, महात्मा बुद्ध, महात्मा काइस्ट, भगवान् महावीर, महात्मा गांधी तथा अन्य लोकोत्तर यशवाले महापुरुषों के

१. वृ० “सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत । भूयान् स्यां प्रजायेयेति ।

सोऽधाम्यत् । स तपोऽतप्यत ।.....” (शतपथब्राह्मण ६।१।१।८) ।

जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने महान् आदर्शों के पालन के लिए स्वेच्छा से दुःखों को छोड़कर कष्टों को स्वीकार किया ।

आपेक्षिकी मता तस्माद् भावना सुखदुःखयोः ।

नैकान्तिकं तयो रूपमित्येवमवधार्यताम् ॥ १६ ॥

इसलिए सुख और दुःख की भावना को आपेक्षिक ही मानना चाहिए । उनमें से किसी का श्रयणा कोई निश्चित या ऐतैतिक रूप नहीं है ।

दुःखं वै दुःखरूपेण तावदेव प्रतीयते ।

यावत्परिग्रहस्तरयानिच्छयैव विधीयते ॥ १७ ॥

दुःख दुःखरूप से तभी तक प्रतीत होता है जब तक कि उसका ग्रहण अविच्छेदा से ही किया जाता है ।

दुःखं चेत्स्वेच्छया प्राज्ञः प्रसन्नेनान्तरात्मना ।

धादत्ते, तत्तपोरूपमाधत्ते, नात्र संशयः ॥ १८ ॥

यदि बुद्धिमान् मनुष्य आए हुए दुःख को स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेता है तो वही दुःख उसके लिए निःसन्देह तप का रूप धारण कर लेता है ।

आशय यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सहसा आए हुए दुःख को अपनी उन्नति की प्राप्ति में सहायक तप मानकर प्रसन्नता से सहे । इस प्रकार वह दुःख उसके लिए कर्याण य ही साधक हो सकता है ।

नूनं तपांसि कृच्छ्राणि शास्त्रोक्तानि विधानतः ।

आचरन्त्यात्मनः शुद्धये भद्रया ये मनीषिणः । १९ ॥

यह धीन नहीं जानता कि शास्त्रों में अनेकानेक कृच्छ्र-तिष्ठच्छ्र-प्रत आदि तपों का विधान किया गया है । जो बुद्धिमान् हैं वे आत्म शुद्धि के लिए उन तपों का भद्रा से विधि-पूर्वक पालन करते हैं ।

तपसा पारमाप्रोति तपसा एन्नि किल्बिषम् ।

लोकेऽत्र तपसा धीर उन्नतेर्मूर्ध्नि तिष्ठति ॥ २० ॥

तप की महिमा महान् है । तप द्वारा ही मनुष्य अपने अग्रोष्ठ पर्य को प्राप्त करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र बनाता है । धीर पुरुष संसार में तप द्वारा ही उन्नति के शिखर पर विराजमान होता है ।

ततोऽनिवार्यदुःख यन् प्राप्तं भवति जीरणे ।

तप इत्येव तद्विद्याद् य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २१ ॥

इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि जीवन में जो कोई अनिवार्य दुःख प्राप्त हो उसे वह अपनी अभीष्ट सिद्धि का साधक तप ही समझे और माने ।

द्विरस्यस्य यथा शुद्धिरभितापेन जायते ।

तथैव दुःखतप्तानां जायते कल्मषक्षयः ॥ २२ ॥

जैसे अग्नि में तपाने से भ्रवर्ण की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार दुःख रूपी तप से तपे हुआ के कल्मष या पाप का नाश हो जाता है ।

रम्यं प्रासादमारोहन्नत्युच्चशिखरस्थितम् ।

कष्टानि सहते धीरः प्रसन्नो लक्ष्यसिद्धये ॥ २३ ॥

जिसी पर्वत के श्रृति ऊँचे शिखर पर बने हुए रमणीय प्रासाद तक पहुँचने के निमित्त ऊपर चढ़नेवाला धीर मनुष्य अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रसन्नता-पूर्वक कष्टों को सहता है ।

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टप्रगताबुत्सकरतु यः ।

एवं वेदोक्तमार्गेण दुःखादुद्विजते न सः<sup>१</sup> ॥ २४ ॥

इसी प्रकार 'तुम उत्तरोत्तर समुच्चति को प्राप्त करो'<sup>२</sup> इस वैदिक उपदेश के अनुसार जो मनुष्य अपनी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट समुच्चति के लिए उत्सुक है वह दुःख से कभी नहीं घबराता ।

देवाधिदेवतत्त्वेन करुणाप्लुतचेतसा ।

नूनं सृष्टं जगत्कृत्स्नं भूतानामुद्दिधीर्षया<sup>३</sup> ॥ २५ ॥

इसमें संदेह नहीं कि उस परमतत्त्व परमात्मा ने, जो देवताओं का भी अधिष्ठातृ-देवता है, करुणा-वश होकर प्राणियों के उद्धार की इच्छा से ही समस्त जगत् की सृष्टि की है ।

तत्रैवं सति लोकेऽस्मिन् दुःखावस्थेति योच्यते ।

नूनं सास्मद्वितायैव नोद्वेगाय मनीषिणः ॥ २६ ॥

१. तु० "आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः ।

श्राप्यते निपुणैर्धर्मो न सुखलभते सुखम् ॥" ( वाल्मीकिरामायण ३।१।३१ ) ।

२. तु० "भद्रादग्नि धेयः प्रेहि" ( ऐतरेयब्राह्मण १।१३ )

( अर्थात्, तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो ) ।

३. तु० "भद्रा इन्द्रस्य रातयः" ( साम० उ० १।२।१४ )

( अर्थात्, भगवान् के प्रदान कल्याणमय हैं ) ।



सृष्टि के विषय में उपर्युक्त वस्तुस्थिति के होने से, लोक में जिसको दुःखावस्था कहा जाता है वह निश्चय ही हमारे कल्याण के लिए ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। समझदार लोग उससे उद्विग्न नहीं होते।

कदाचिदेतदेवात्र कारणं येन, विस्मयः ! ।

कुत्रापि चेदमन्त्रेषु दुःखशब्दो न दृश्यते ॥ २७ ॥

दुःख के विषय में जो कुछ जरूर कहा गया है उसका उद्देश्य ही कारण है, यह आश्चर्य की बात है कि, वैदिक संहिताओं के मंत्रों में कहीं भी 'दुःख' शब्द नहीं पाया जाता।

( रश्मिमाता १ )

( ड )

## जीवने नाट्यसादृश्यम्

जीवन-नाट्य

“साक्षी चेता फेनलो निर्गुणश्च” ( श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११ ) ।

अर्थात्, वह परमात्मा सबका साक्षी, ज्ञानस्वरूप, निर्द्वन्द्व और सब-सम्पत्तम् इन तीनों गुणों से रहित है।

धनव्ययेन दृश्यानि नाट्यादीनि समुत्सुकाः ।

परयन्ति लौकिकस्वदृग् परीया जीवन प्रति ॥ १ ॥

सांसारिक लोग धन व्यय करके पट्टी उगुड़ना के साथ नाट्य आदि के रसों ( तमासों ) को देखते हैं। जीवन के विषय में भी इसी प्रकार ही परीया रहते।

अभिप्रेत यह है कि जीवन मानो एक नाटक है। उसकी कुछ ही उपासक पटनामा में लिन न होते हुए ही मनुष्य को करने अनुभव ही इति और विद्वत् के मार्ग पर जाने कहते रहना चाहिए।

( परिमतामा ५० )

( च )

## उत्तरोत्तरमुन्नतिः

उत्तरोत्तर उन्नति

“प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः” ( ऋगू० १०।५६।१ ) ।

अर्थात्, भगवन् ! हमें उत्तरोत्तर समुन्नति-शील नवीनतर जीवन में अग्रसर कीजिए !

जन्मजन्मान्तरस्यैतद् विज्ञा आहुः प्रयोजनम् ।

अनुभूतिविरोधैर्यदुत्तरोत्तरमुन्नतिः ॥ १॥

विज्ञां का कहना है कि विभिन्न अनुभवों द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति अपना विकास ही जन्म जन्मान्तर का प्रयोजन है ।

तस्माद् यानुभवस्याप्तिर्मानवस्येह जायते ।

दुःखरूपापि सा नून मन्तव्या सप्रयोजना ॥ २॥

इसलिए मनुष्य को इस जीवन में दुःख रूप में भी जो अनुभव प्राप्त होता है उसको सप्रयोजन ही समझना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन की दुःखात्मक घटनाओं से न घबड़ाकर उनको, उनसे प्राप्त शिक्षा या अनुभव द्वारा, अपने उत्तरोत्तर विकास का साधन ही बनाना चाहिए । क्योंकि—

यथाज्यते धनं लोके दुःखैः कष्टैश्च भूरिशाः ।

तथा तैरज्यते ज्ञानं जनैरनुभवात्मकम् ॥ ३॥

जैसे ससार में अनेक प्रकार के दुःखों और कष्टों से धन का संवय किया जाता है, वैसे ही अनुभवात्मक ज्ञान भी अनेक दुःखों और कष्टों से संचित किया जाता है ।

( रश्मिमाला ५१ )

# परिशिष्ट २

## तत्त्व-मीमांसा

### मूलतत्त्व का विचार

“एकं सद्धिमा बहुधा वदन्ति” ( ऋग्० १।१६।४६ )

अर्थात्, एक ही मूलतत्त्व को विद्वान् अनेक नामों से कहते हैं ।

प्रायः प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के लोग इस दृश्य जगत् के मूल में रहने वाले एक परम तत्त्व को स्वीकार करते हैं । उसके लिए वे अपनी-अपनी परम्परा या दार्शनिक दृष्टि के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम भी देते हैं । इस नाम-भेद के ही कारण वे प्रायः यह सोच नहीं सकते कि नाम-भेद और दृष्टि-भेद से वह मूलतत्त्व वास्तव में अचंगुल है, और इसलिए उनसे स्वीकृत मूल तत्त्व, नाम भेद और दृष्टि-भेद के होने पर भी, वास्तव में एक ही है ।

मूलतत्त्व स्वयं-सिद्ध है । उनको किसी ने बनाया नहीं है । उसके सम्बन्ध में नाम भेद और दृष्टि-भेद का यही अर्थ हो सकता है कि हम सब उसके स्वरूप को समझना चाहते हैं । ऐसी दशा में नाम-भेद और दृष्टि-भेद को लेकर झगड़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । पर धर्मों और संप्रदायों के इतिहास इस मूढ़दे से भरे पड़े हैं । इसलिए मूलतत्त्व-मीमांसा की विशेष आवश्यकता है । इसी मीमांसा को लेकर नीचे के पद्य लिखे गये हैं—

यतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो भवः ।

यदाश्रयेण तिष्ठन्ति तत्त्वं तन्नित्यमन्ययम् ॥१॥

समस्त सत्त्वदार्थ जिषु मूलतत्त्व से उत्पन्न होते हैं, जिधमे उनका लय होता है और जिषुके आश्रय से वे वर्तमान रहते हैं, वह स्वयं नित्य और अन्वय अर्थात् लय रहित है ।

भाषासीमामतिष्कम्य ज्ञानगम्यं कर्मचन ।

स्वयन्सु, वस्तुतो नाम्ना रहितं तद्धि वर्तते ॥ २ ॥

वह मूलतत्त्व भाषा की सीमा को अतिक्रमण करके रहता है, अर्थात् भाषा द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन कठिन है। किसी प्रकार केवल ज्ञान की गति उस तक हो सकती है। वह स्वयंभू है, अर्थात् उसको किसी दूसरे ने उत्पन्न नहीं किया है। वास्तव में उसका कोई अपना नाम नहीं है।

तन्नामविषये मन्दास्ततद्बुद्धिषशान्मुधा ।

विद्यदन्ते, तदाश्चर्यमुपहासकरं महत् ॥ ३ ॥

उसी मूलतत्त्व के नाम के विषय में मन्द-बुद्धि लोग, विभिन्न शाब्दिक रुद्धियों के कारण, ध्वर्य में विवाद करते हैं। यह बड़े आश्चर्य और उपहास की बात है।

नियतो विषयो वाचोऽनियतो मनसस्ततः ।

हसीयसी हि वागुक्ता मनसोऽपेक्षया श्रुतौ ॥ ४ ॥

वाणी का विषय परिमित है और मन का अपरिमित। इसलिए श्रुति ( वेद ) में मन की अपेक्षा वाणी को छोटा कहा गया है।

अभिप्राय यह है कि हमारे मन के भावों को वाणी प्रायः पूर्णतया प्रकट नहीं कर पाती। इससे स्पष्ट है कि वाणी के क्षेत्र की अपेक्षा मन का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत है।

तत्त्वं स्वभावतः सिद्ध गुणप्रामनिकेतनम् ।

गुणमेकं समाश्रित्य पुनर्नाम प्रवर्तते ॥ ५ ॥

वह मूलतत्त्व स्वभाव से ही अनेकानेक गुणों का स्थान है। परन्तु ( अन्वय ) नाम किसी एक गुण को लेकर ही प्रवृत्त होता है।

अभिप्राय यह है कि जितने भी अन्वय नाम होते हैं वे सब किसी-न किसी एक ही गुण को लेकर रखे जाते हैं। मूलतत्त्व में तो अनेकानेक गुण रहते हैं। इसलिए कोई अन्वय नाम मूलतत्त्व का ठीक-ठीक वर्णन नहीं कर सकता। इसी बात को नीचे स्पष्ट किया गया है।

न विद्यते ततो नाम त्रिषु लोकेषु तादृशम् ।

तत्त्वोपवर्णने शक्तं साफल्येन भवेत्तु यत् ॥ ६ ॥

अन्वयवाचकं सर्वं नाम तत्त्वस्य विद्यते ।

नैव रूढं, ततस्तेन विशेषगुण उच्यते ॥ ७ ॥

१. टु०—“वाचो मनसो हसीयसी। अपरिमिततरनिव हि मनः। परिमिततरेव हि वाक्।” ( रातपथ-ब्राह्मण १।४।१।७ )। अर्थात्, मन की अपेक्षा वाणी छोटी है; क्योंकि मन का क्षेत्र अपरिमिततर जैसा है और वाणी का परिमिततर जैसा।

# परिशिष्ट २

## तत्त्व-मीमांसा

### मूलतत्त्व का विचार

“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” ( ऋग्० १।१६।४६ )

अर्थात्, एक ही मूलतत्त्व को विद्वान् अनेक नामों से कहते हैं ।

प्रायः प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के लोग इस दृश्य जगत् के मूल में रहने वाले एक परम तत्त्व को स्वीकार करते हैं । उसके लिए वे अपनी-अपनी परम्परा या दार्शनिक दृष्टि के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम भी दते हैं । इस नाम भेद के ही कारण वे प्रायः यह सोच नहीं सकते कि नाम-भेद और दृष्टि-भेद से वह मूलतत्त्व वास्तव में असंग्रह्य है, और इसीलिए उनसे स्वीकृत मूल तत्त्व, नाम भेद और दृष्टि-भेद के होने पर भी, वास्तव में एक ही है ।

मूल-तत्त्व स्वयं-सिद्ध है । उनको किसी ने बनाया नहीं है । उसके सम्बन्ध में नाम भेद और दृष्टि-भेद का यही अर्थ हो सकता है कि हम सब उसके स्वरूप को समझना चाहते हैं । ऐसी दशा में नाम-भेद और दृष्टि-भेद को लेकर झगड़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । पर धर्मों और संप्रदायों के इतिहास इस झगड़े से भरे पड़े हैं । इसीलिए मूलतत्त्व-मीमांसा की विशेष आवश्यकता है । इसी मीमांसा को लेकर नीचे के पद्य लिखे गये हैं—

यतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मतः ।

यदाश्रयेण तिष्ठन्ति तत्त्वं तन्नित्यमव्ययम् ॥१॥

समस्त सत्पदार्थ जिध मूलतत्त्व से उत्पन्न होते हैं, जिसमें उनका लय होता है और जिसके आश्रय से वे वर्तमान रहते हैं, वह स्वयं नित्य और अव्यय अर्थात् अमर-रहित है ।

भाषासीमाभतिक्रम्य ज्ञानगम्यं कथंचन ।

स्वयम्भु, यस्तुतो नाप्रा रहितं तद्धि वर्तते ॥ २ ॥

एवं सत्त्वपि दृष्टीनां विभेदे दर्शनादिषु ।

तत्त्वं स्वरूपतः स्थायि कूटस्थं चैव वृत्तते ॥ १३ ॥

इसी प्रकार विभिन्न दर्शनों आदि में मूल-तत्त्व के विषय में विभिन्न दृष्टियों के पाये जाने पर भी, वह स्वरूप में स्थायी और कूटस्थ ही रहता है ।

अभिप्राय यही है कि मूलतत्त्व के विषय में अनेक दृष्टियों भले ही हों, वह अपने रूप में सदा अविचल और अस्थायी भाव से ही रहता है । उन दृष्टियों का उसके अपने रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

एकरयैव प्रमेयस्य परिभाषान्तरं यथा ।

क्रियते शास्त्रभेदेन तथा तत्त्वेऽपिद श्यताम् ॥ १४ ॥

सत्यं ब्रह्म परं धाम कर्म 'धर्मं' प्रजापतिः ।

शक्तिर्माता शिवो विष्णु राम धोकार एव च ॥ १५ ॥

प्रेमेत्यादि पदं भूलतत्त्ववाचि न संशयः ।

तदेव तत्त्वं गीतायामहंशब्देन कथ्यते ॥ १६ ॥

एक ही पदार्थ के लिए विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न पारिभाषिक शब्द नियत कर लिये जाते हैं । मूलतत्त्व के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

सत्य, ब्रह्म, परमधाम, कर्म, धर्म ( धर्म ), प्रजापति, शक्ति, माता, शिव, विष्णु, राम, ओम्, प्रेम इत्यादि सारे शब्द मूलतत्त्व के ही वाचक हैं; इसमें कोई संशय नहीं है । उसी मूलतत्त्व के लिए भगवद्गीता में 'अहम्' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

( रश्मिमाला ६० )

इसलिए तीनों जीकों में कोई ऐसा नाम नहीं है जो पूर्णतया मूलतत्त्व के स्वरूप के वर्णन में समर्थ हो। क्योंकि उस मूलतत्त्व के जो भी नाम संसार में प्रसिद्ध हैं वे सब अन्वर्थ-वाचक ही हैं; अर्थात् किसी अर्थ को लेकर ही वे प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए उन नामों से मूलतत्त्व के किसी न किसी विरोध गुण का ही अभिप्राय होता है। उनमें से कोई भी पूर्णरूप से मूलतत्त्व के सप्त गुणों को नहीं बतला सकता।

उसका कोई एक (= जिसमें अर्थ की अपेक्षा न हो) नाम तो है ही नहीं।

रुचिभेदाद्विधो भेदाश्च वा संप्रदायतः ।

तत्त्वस्य विषये दृष्टेर्भेदः समुपजायते ॥ ८ ॥

दर्शनानि विभिन्नानि संप्रदायास्ततोऽपरे ।

समुत्पन्नानि लोकेऽस्मिन् दृश्यन्ते यत्र तत्र वै ॥ ९ ॥

मूलतत्त्व के विषय में जो अनेक दृष्टियाँ पायी जाती हैं, उनका कारण रुचि भेद, बुद्धिभेद, अथवा संप्रदाय भेद ही है।

संसार में जहाँ-तहाँ पाये जाने वाले विभिन्न दर्शनों और संप्रदायों की उत्पत्ति इन्हीं कारणों से हुई है।

परिधानीयवस्त्राणां भोज्यानां चैव निश्चितम् ।

प्रकारेषु महान् भेदो देशभेदेन दृश्यते ॥ १० ॥

सत्त्वकारणसत्त्वेऽपि तत्र भेदे, न मौलिकः ।

अभिप्रायो मनुष्याणां भेदभाष्यते क्वचित् ॥ ११ ॥

विभिन्न देशों के पहनने के वस्त्रों और भोज्य पदार्थों के प्रकारों में महान् भेद पाया जाता है।

उक्त भेदों में विभिन्न देशों के जल वायु आदि का भेद ही कारण होता है। तो भी, पहनने के वस्त्रों और भोज्य पदार्थों के संबंध में मनुष्यों के मौलिक अभिप्राय में कोई भेद नहीं होता। अर्थात्, संसार में सर्वत्र वस्त्र शीत आदि से बचाव के लिए ही पहने जाते हैं और भोजन शरीर-पुष्टि के लिए ही किया जाता है।

रुचकादिप्रकारेण भिन्नाकारानुपेयुषः ।

सुवर्णस्य सुवर्णत्वं हीयते न कदाचन ॥ १२ ॥

सुवर्ण के गले आदि के आभूषणों में होना भिन्न भिन्न आकारों को धारण कर लेता है। तो भी, उनमें सुवर्णका सुवर्णत्व ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

## परिशिष्ट ३

आध्यात्मिक साधना या प्रगति में ऑंकारोपासना का बड़ा महत्त्व है। इसी लिए साधकों के हित की दृष्टि से निम्नस्थ उद्धरण यहाँ दिया जा रहा है:—

### ओंकार-माहात्म्यम्

#### ओंकार की महिमा

वेदादि-शास्त्रों में ओंकार के अद्वैत माहात्म्य का वर्णन किया गया है। उस माहात्म्य को अतिशयोक्ति न समझना चाहिये। उसका आधार, निश्चय ही, ऋषि-मुनियों का अपना अनुभव था। उस माहात्म्य को पढ़कर यही मानना पड़ेगा कि एक सच्चे भक्तालु के लिए ओंकार ऐसा चिन्तामणि है जिसके द्वारा मनुष्य सय कुछ प्राप्त कर सकता है—“एतद् ध्येवाभरं ज्ञत्वा यो यदिच्छति तस्य तत्” ( कठोपनिषद् १।२।१६ ) अर्थात्, ओंकार को जानकर कोई भी जिस पदार्थ को चाहता है उसको पा सकता है।

छान्दोग्य-उपनिषद्, माण्डूक्य-उपनिषद्, कठ-उपनिषद्, श्वेताश्वतर-उपनिषद्, भगवद्गीता, मनुस्मृति आदि में अनेकानेक स्थलों में ओंकार का वर्णन है। उससे स्पष्ट है कि ओंकारं ब्रह्म-प्राप्ति का एक अद्वितीय साधन है।

पातञ्जल-योगसूत्रों में कहा है कि परमेश्वर का मुख्य वाचक शब्द ओंकार ही है और ओंकार के जप और अर्पण के विनतन से अध्यात्म-मार्ग पर चलने वाला सरलता से एकाग्रता तथा अन्तर्-सुखता को प्राप्त कर सकता है और उसके मार्ग में आने वाले सय प्रकार के विघ्न स्वयं नष्ट हो जाते हैं।

इसी ओंकार का एक आकर्षक, साध ही वास्तविक वर्णन, माहात्म्य के रूप में, हम नीचे देते हैं। निश्चय ही, जिहानु लोगों को यह अत्यन्त प्रिय लगेगा। साथ ही हम आशा करते हैं कि पाठक इसको, कविता के रूप में नहीं, किन्तु आध्यात्मिक साधना के रूप में ही पढ़ेंगे और प्रत्येक विचार-पारा को अपने मन में सजीव देखने का यत्न करेंगे।



( १ )

( ओंकार का दोला या झूले के संगीत के रूप में वर्णन )

प्रेमकारुण्ययोर्धाम तत्त्वं विश्वनियामकम् ।

यत्, तेन निर्मितामैतां तेनैवान्दोलितां तथा ॥ १ ॥

श्रासप्रश्रासयोर्दोलामारूढो मोदनिर्भरम् ।

गायान्योंकारसंगीतं मधुरं मधुराक्षरम् ॥ २ ॥

अर्थात्, प्रेम और कारुण्य के स्थान तथा सारे विश्व के नियन्ता भगवान् ने श्रास और प्रश्रास की दो डोरियों वाली एक दोला ( झूला ) मेरे लिये बनायी है और स्वयं ही उस दोला को आन्दोलित कर रहे हैं ! उन्हीं के द्वारा मैं उस दोला में बैठा हुआ आनन्द-विमोर होकर मीठे स्वर में मधुराक्षर ओंकार रूपी संगीत को गा रहा हूँ । ठीक उसी तरह, जैसे कोई बालक अपने पिता द्वारा झूले में बिठाया और झुलाया जाकर आनन्द में मग्न होकर गीत गाता है ।

( २ )

( माता को बुलाने के लिए बच्चे के आह्वान के रूप में वर्णन )

यासी सर्वजगन्माता सर्वदेधनमस्कृता ।

ऋषिभिर्मुनिभिर्गीता सर्वशास्त्रोपवर्णिता ॥ ३ ॥

नानासंतापसंत्रस्तस् तस्या आह्वानमुत्तमम् ।

ओंकारमाश्रये नित्यं भक्तिप्रवणमानसः ॥ ४ ॥

अर्थात्, समस्त देवताओं से उगस्कृत, ऋषियों और मुनियों से गायी गयी, तथा सब शास्त्रों से वर्णन की हुई जो सारे जगत् की माता है, ओंकार इसके आह्वान का, अपनी ओर आकृष्ट करने का, उत्कृष्ट साधन है । अनेकानेक संतापों से त्रस्त होकर मैं भक्ति प्रवण होता हुआ सर्वदा इसी ओंकार का आश्रय लेता हूँ ।

अभिप्राय यह है कि बड़े हुए बच्चे की तरह मैं भी नाना संतापों से डरा हुआ ओंकार द्वारा ही विश्व की माता को बुलाना चाहता हूँ । उनके बुलाने के लिए यही सर्वोत्तम आह्वान है ।

( ३ )

( भगवत्पद की प्राप्ति के लिए सोपान के रूप में वर्णन )

योगिनामपि दुर्गम्यं भक्तानामपि दुर्लभम् ।

ज्ञानिनामपि दुश्चिन्त्यं जगदः प्रभवाध्ययम् ॥ ५ ॥

[ १४१ ]

वृटस्थं शाश्वतं दिव्यं विष्णोर्यत परमं पदम् ।

ओमित्युद्गीथिनः प्राहुस्तस्य सोपानमद्भुतम् ॥ ६ ॥

अर्थात्, ओम् का गान करने वाले आचार्यों का कहना है कि ओंकार ही उस वृटस्थ शाश्वत और दिव्य भगवत्पद की प्राप्ति के लिए एक अद्भुत सीढ़ी है, जो योगियों के लिए भी दुर्गम्य है, भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, ज्ञानियों के लिए भी दुर्धिग्य है और जहाँ से जगत् की उत्पत्ति होती है और जिसमें प्रलय होता है ।

( ४ )

( आत्मरक्षार्थं कवच के रूप में वर्णन )

आन्तरागामरातीनां विजयप्रतधारिणाम् ।

भवबन्धविनाशार्थं मुनीनां धर्मचारिणाम् ॥ ७ ॥

ओंकारं परमं प्राहुराश्रयं तद्विदो बुधाः ।

तमेतं सुदृढं मन्ये "ब्रह्म धर्म समान्तरम्" ॥ ८ ॥

अर्थात्, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि आभ्यन्तर शत्रुओं को विजय करने का प्रत लेने वाले, और भव-बन्ध अर्थात् सांसारिक जीवन की त्रुटियों और अपूर्णताओं की निवृत्ति के लिए धर्माचरण में रत मुनियों का ओंकार ही एकमात्र उत्कृष्ट सद्धार होता है, ओंकार के तत्त्व को जानने वालों का ऐसा मत है । उसी ओंकार को मैं ब्रह्म-रूप में अपना सुदृढ़ आध्यात्मिक कवच समझता हूँ ।

" ब्रह्म धर्म समान्तरम्" यह अथर्ववेद ( १।११।४ ) का मन्त्र है । उसी की ओंकार-परक व्याख्या यहाँ की गयी है । अभिप्राय यह है कि ईश्वर-भक्त के लिए ओंकार ही एक सुदृढ कवच का काम करता है ।

( ५-६ )

( सुगन्धित पुष्प, परम ज्योतिः, अमृत, परमोपध तथा ब्रह्मास्त्र के रूप में वर्णन )

ज्ञानविज्ञानवृत्तस्य सुगन्धिः क्षुमुमं शुभम् ।

ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरमृतं भोज्यमात्मनः ॥ ९ ॥

नाज्ञासन्तापतज्ञानां यन्नाप्नोषधमुत्तमम् ।

पापीषं भरससात् फर्तुं ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मवादिनाम् ॥ १० ॥

अर्थात्, ओंकार ज्ञान विज्ञान-रूपी इक्ष का सुन्दर सुगन्धित पुष्प है । अर्थात्,

जैसे किसी फूलने वाले पौदे का उत्कृष्ट सौन्दर्यमय-सारांश पुष्प-रूप में विकसित होता है, इसी तरह समस्त ज्ञान और विज्ञान का अन्तिम निचोड़ या परम ध्येय या पर्यवसान ओंकार है।

ओंकार समस्त प्रकाशमय परांपरों का भी प्रकार है।

ओंकार ही वास्तव में आत्मा का अमृतमय भोज्य है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यमात्र में अपने को पूर्ण की ओर ले जाने की जो भूख है उसकी सदा के लिए पूर्ति ओम् से ही हो सकती है।

नानाविध सन्तापों से संतप्त प्राणियों के लिए ओंकार ही सर्वोत्तम अचूक औषध है।

मनुष्य के अन्दर जो पापों की राशि घर किये हुए है उसको आमूल भस्मसात् करने के लिए ओंकार की ही ब्रह्मज्ञानी लोग अत्यन्त शक्तिशाली ब्रह्माक्षर समझते हैं।

( १० )

( सर्वदेवात्मक, सर्वत्र व्यापक मूल-तत्त्व के रूप में वर्णन )

सर्वदेवात्मकं शान्तं तत्त्वमेकरसाधनम् ।

अथवा षट्सोऽक्षरं कोऽर्थं, एवं विचिन्त्यताम् ॥ ११ ॥

त्रिलोक्यामपि यत्किञ्चित् तदादाय समन्ततः।

तिष्ठन्तं प्रणयं ध्यायन् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १२ ॥

अर्थात्, समस्त देव जिसके अंग हैं ऐसा, सदा एक स्वरूप में रहने वाला ( अथवा अद्वितीय रसायन-भूत ), शान्त तत्व ओंकार ही है।

अथवा अधिक कहने से क्या लाभ है; यही समझना चाहिए कि तीनों लोकों में जो कुछ भी विद्यमान है उस सबको अपने में लेकर जो स्थित है, वही ओंकार ध्यान करता हुआ मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त कर सकता है।

( उपर्युक्त ओंकार-माहात्म्य के माहात्म्य का वर्णन )

एतदोंकारमाहात्म्यं प्रातः प्रातः पठन्नरः ।

सावधानेन मनसा शान्त एकान्तसंस्थितः ॥ १३ ॥

गुरूपदिष्टमार्गेण प्रयत्नं ब्रह्मणोऽर्थनि ।

प्रश्रयस्य जपेनार्थभावेन च नित्यतः ॥ १४ ॥

उत्तरोत्तरमुत्कृष्टे स्थानं प्राप्य, परं पदम् ।

अक्षय्यममृतं दिव्यं लब्ध्वा तिष्ठत्यनामयम् ॥ १५ ॥

अर्थात्, उपर्युक्त ओंकार-माहात्म्य का एकान्त में बैठकर प्रत्येक दिन प्रातः-काल शान्तचित्त और सावधान होकर जो मनुष्य पाठ करता है वह गुरु द्वारा बतलाये हुए मार्ग से ब्रह्मप्राप्ति की ओर चलता हुआ नित्य अर्थविचार के साथ ओंकार के जप से क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ निश्चय ही अन्त में अक्षय्य, अनृत, अनामय (सब पीड़ाओं से रहित) आनन्दमय परमगद् को प्राप्त कर लेता है ।

### ( उपसंहार )

स पप सरलो मार्गः सर्वकण्टकवर्जितः ।

अत एव सदा सद्भिः सम्प्रदायैः समर्हितः ॥ १६ ॥

अर्थात्, ओंकार-उपासना का उपरि-निर्दिष्ट मार्ग सीधा-सादा है । इसमें किसी प्रकार के कण्टकों या विघ्न-बाधाओं या जटिलताओं का डर नहीं है । इसी लिए समस्त सत् सम्प्रदाय इस मार्ग का आदर करते हैं ।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैदिक मार्ग की तरह जैन बौद्ध आदि सम्प्रदाय भी ओंकार के माहात्म्य को मानते हैं ।

( रहस्यनामा ११ )

डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री द्वारा प्रणीत अथवा  
संपादित ग्रन्थों का परिचय<sup>१</sup>

( संस्कृत भाषा में )

|                                                                                | मूल्य |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ( १ ) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्, उवटाचार्यकृतभाष्येण सहितम् ।                        | ८।।)  |
| ( २ ) प्रवन्धप्रकाशः । ( संस्कृतनिबन्धसारमकः ) प्रथमो भागः । नवमं<br>संस्करणम् | ३)    |
| ( ३ ) प्रवन्धप्रकाशः । द्वितीयो भागः, ऐतरेयब्राह्मणपर्यालोचनेन सहितः ।         | ३)    |
| ( ४ ) न्यायसिद्धान्तमाला । ( द्वौ भागौ ) ।                                     | ११-)  |
| ( ५ ) उपनिदानसूत्रम् ( सामवेदीयम् ) ।                                          | ॥)    |
| ( ६ ) उपेन्द्रविद्यानसूत्रम् ( वेदान्तः ) ।                                    | १)    |
| ( ७ ) आश्वलायनश्रौतसूत्रम् ( सिद्धान्तिभाष्यसहितम् ) ( द्वौ भागौ )             |       |
| ( ८ ) श्रार्यविद्यासुधाकरः ।                                                   | १०)   |
| ( ९ ) भारतीयसंविधानस्य ( उत्तरार्धस्य ) संस्कृतानुवादः ।                       |       |
| ( १० ) ऐतरेयाण्यक-पर्यालोचनम्                                                  | २)    |

( इङ्गलिश भाषा में )

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ( ११ ) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम् English Translation, Critical<br>Notes, Appendices, etc.                                | २०) |
| ( १२ ) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम् ( Critical Introduction, Text in<br>Sanskrit Stanzas, Appendices, etc. ). In the Press. |     |

१. गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, के प्रिंसिपल के पद से प्रकृत लेखक द्वारा  
संपादित 'सरस्वती भवन ग्रन्थमाला' की पुस्तकें अरु उल्लेख इस सूची में नहीं है ।

( हिन्दी भाषा में )

- ( १३ ) भाषाविज्ञान ( अथवा तुलनात्मक भाषाशास्त्र ), पंचम संस्करण ६)  
 ( १४ ) भारतीय धार्मिक धर्म की प्रगतिशीलता ( भारतीय संस्कृति के  
 , विचार वा विवेचनात्मक अध्ययन ) ॥)  
 ( १५ ) मिना ( = प्रेम और प्रतिष्ठा का संघर्ष ) ( 'मिना प्राज्ञ ब्रह्मैवम्' नामक  
 जर्मन नाटक का अनुवाद ) । २।)  
 ( १६ ) यदों का पास्तविक स्वरूप अथवा—यदों के महान् आदर्श ॥=)  
 ( १७ ) रश्मिमाला ( अथवा 'जीधमसंदेश-गीताञ्जलि' ) । मूल संस्करण  
 एक सत्र हिन्दी अनुवाद । उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्चित ३।।)  
 ( १८ ) भारतीयसंस्कृति का विकास : प्रथम सङ्क, वैदिक भाषा ७)

( प्रज्ञाशुनार्य मस्तुत ग्रन्थ )

- ( १ ) दानपथप्राप्त्यपर्यालोचनम्  
 ( २ ) श्रीश्रीतद्विप्राप्त्यपर्यालोचनम्  
 ( ३ ) स्तौत्ययोग्यातिभाविकराशुकोपः

—  
 इतिग्रन्थ—

चाखम्बा विशा सदन

बनारस